



श्रीहरिः

# विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ-संख्या

## ( १ ) विनयस्तोत्राणि—


|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| १—सङ्कलम्  | ... | ... | ... | ९   |
| २—श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्                | ... | ... | ... | ११  |
| ३—षट्पदी ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )              | ... | ... | ... | १२  |
| ४—श्रीहरिश्चरणाष्टकम् ( स्वामिश्रीब्रह्मानन्दस्य ) | ..  | ... | ... | १४  |
| ५—न्यासदशकम् ( श्रीवेङ्कटनाथस्य )                  | ... | ... | ... | १७  |
| ६—परमेश्वरस्तोत्रम्                                | ... | ... | ... | ... |

## ( २ ) शिवस्तोत्राणि—

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| ७—शिवमानसपूजा ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )         | ... | ... | ... | २२  |
| ८—शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम् ( " )                   | ... | ... | ... | ... |
| ९—वेदसारशिवस्तवः ( " )                             | ... | ... | ... | ... |
| १०—शिवाष्टकम् ( " )                                | ... | ... | ... | ३४  |
| ११—श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् ( " )                 | ... | ... | ... | ३७  |
| १२—द्वादशज्योतिर्लिङ्गानि                          | ... | ... | ... | ३९  |
| १३—द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्                    | ... | ... | ... | ४२  |
| १४—शिवताण्डवस्तोत्रम् ( श्रीरावणकृतम् )            | ... | ... | ... | ४६  |
| १५—श्रीब्रह्माष्टकम् ( गोस्वामिश्रीतुलसीदासस्य )   | ... | ... | ... | ५२  |
| १६—श्रीपशुपत्यष्टकम् ( श्रीपृथ्वीपतिसूरेः )        | ... | ... | ... | ५५  |
| १७—श्रीविश्वनाथाष्टकम् ( श्रीमहर्षिव्यासविरचितम् ) | ... | ... | ... | ५८  |

## ( ३ ) शक्तिस्तोत्राणि—

|  |     |     |     |    |
|--|-----|-----|-----|----|
| १८—ललितापञ्चकम् ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य ) | ... | ... | ... | ६२ |
| १९—मीनाक्षीपञ्चरत्नम् ( " )                  | ... | ... | ... | ६४ |
| २०—देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम् ( " )           | ... | ... | ... | ६७ |
| २१—भवान्यष्टकम् ( " )                        | ... | ... | ... | ७१ |
| २२—आनन्दलहरी ( " )                           | ... | ... | ... | ७३ |



|   |     |    |
|---|-----|----|
| २३—श्रीभगवतीस्तोत्रम् ( श्रीमहर्षिव्यासविरचितम् ) | ... | ८२ |
| २४—महालक्ष्म्यष्टकम् ( इन्द्रकृतम् )              | ... | ८३ |
| २५—श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्                           | ... | ८६ |
| २६—देव्या आरात्रिकम्                              | ... | ९० |

## ( ४ ) विष्णुस्तोत्राणि—

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| २७—श्रीनारायणाष्टकम् ( श्रीकृरेशस्वामिनः )                 | ... | ९३  |
| २८—श्रीकमलापत्यष्टकम् ( श्रीब्रह्मानन्दस्वामिनः )          | ... | ९६  |
| २९—दीनवन्ध्वष्टकम् ( " )                                   | ... | ९८  |
| ३०—परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम् ( श्रीब्रह्मानन्दस्य )       | ... | १०१ |
| ३१—श्रीभगवच्छरणस्तोत्रम् ( " )                             | ... | १०८ |
| ३२—मङ्गलगीतम् ( श्रीजयदेवकवेः )                            | ... | ११५ |
| ३३—श्रीदशावतारस्तोत्रम् ( " )                              | ... | ११७ |
| ३४—ध्रुवकृतभगवत्स्तुतिः ( भाग० ४ । ९ । ६—१७ )              | ... | १२० |
| ३५—श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्रम् ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य ) | ... | १२५ |
| ३६—प्रह्लादकृतनृसिंहस्तोत्रम् ( भाग० ७ । ९ । ८—५५ )        | ... | १२९ |

## ( ५ ) रामस्तोत्राणि—

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| ३७—रामरक्षास्तोत्रम् ( श्रीबुधकौशिकऋषेः )                        | ... | १४९ |
| ३८—ब्रह्मदेवकृता श्रीरामस्तुतिः ( श्रीअध्यात्मरामा० ६।१३।१०—१८ ) | ... | १५८ |
| ३९—जटायुकृतश्रीरामस्तोत्रम् ( " ३ । ८ । ४४—५६ )                  | ... | १६२ |
| ४०—इन्द्रकृतं श्रीरामस्तोत्रम् ( " ६ । १३ । २४—३२ )              | ... | १६६ |
| ४१—रामाष्टकम् ( श्रीब्रह्मानन्दस्वामिनः )                        | ... | १६९ |
| ४२—श्रीसीतारामाष्टकम् ( श्रीअच्युतयतिकृतम् )                     | ... | १७१ |
| ४३—श्रीरामचन्द्रस्तुतिः ( गोस्वामिश्रीतुलसीदासस्य )              | ... | १७५ |
| ४४—श्रीराममङ्गलाशासनम् ( श्रीवरवरमुनिस्वामिनः )                  | ... | १७८ |
| ४५—श्रीरामप्रेमाष्टकम् ( श्रीयामुनाचार्यस्य )                    | ... | १८१ |
| ४६—श्रीरामचन्द्राष्टकम् ( श्रीअमरदासकवेः )                       | ... | १८५ |

## ( ६ ) श्रीकृष्णस्तोत्राणि—

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| ४७—गोविन्दाष्टकम् ( श्रीब्रह्मानन्दस्वामिनः )         | ... | ... | १८९ |
| ४८—श्रीगोविन्दाष्टकम् ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )    | ... | ... | १९२ |
| ४९—अच्युताष्टकम् ( " )                                | ... | ... | १९६ |
| ५०—कृष्णाष्टकम् ( " )                                 | ... | ... | २०० |
| ५१—श्रीकृष्णाष्टकम् ( " )                             | ... | ... | २०३ |
| ५२—भगवत्स्तुतिः ( श्रीमद्भागवते १ । ९ । ३२-४२ )       | ... | ... | २०६ |
| ५३—गोविन्ददामोदरस्तोत्रम् ( श्रीबिल्वमङ्गलाचार्यस्य ) | ... | ... | २१० |
| ५४—श्रीप्रपन्नगीतम् ( श्रीकृष्णलालद्विजस्य )          | ... | ... | २२८ |
| ५५—श्रीकृष्णः शरणं मम ( " )                           | ... | ... | २३० |
| ५६—गोपिकाविरहगीतम्                                    | ... | ... | २३१ |
| ५७—मधुराष्टकम् ( श्रीमहाप्रभुवल्लभाचार्यस्य )         | ... | ... | २३३ |
| ५८—श्रीनन्दकुमाराष्टकम् ( " )                         | ... | ... | २३५ |
| ५९—चतुःश्लोकी ( श्रीविठ्ठलेश्वरस्य )                  | ... | ... | २३८ |

## ( ७ ) विविधस्तोत्राणि—

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| ६०—श्रीगणपतिस्तोत्रम्  | ... | ... | २४० |
| ६१—सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रम् ( श्रीनारदपुराणात् )                                   | ... | ... | २४५ |
| ६२—सूर्याष्टकम् ( श्रीशिवप्रोक्तम् )   | ... | ... | २४७ |
| ६३—श्रीसूर्यमण्डलाष्टकम् ( श्रीमदादित्यहृदयात् )                                 | ... | ... | २४८ |
| ६४—वीरविंशतिकारव्य श्रीहनुमत्स्तोत्रम् ( कविपतेः<br>श्रीमदुमापतिशर्मद्विवेदिनः ) | ... | ... | २५२ |
| ६५—गङ्गाष्टकम् ( श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचितम् )                                    | ... | ... | २६० |
| ६६—श्रीगङ्गाष्टकम् ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )                                  | ... | ... | २६३ |
| ६७—श्रीगङ्गास्तोत्रम् ( " )  | ... | ... | २६७ |
| ६८—श्रीयमुनाष्टकम् ( " )   | ... | ... | २७० |
| ६९—यमुनाष्टकम् ( " )   | ... | ... | २७३ |

## ( ८ ) प्रकीर्णस्तोत्राणि—

७०—प्रातःस्मरणम्—

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| ( क ) परब्रह्मणः ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )        | ... | २७७ |
| ( ख ) श्रीविष्णोः                                    | ... | २७८ |
| ( ग ) श्रीरामस्य                                     | ... | २७९ |
| ( घ ) श्रीशिवस्य                                     | ... | २८१ |
| ( ङ ) श्रीदेव्याः                                    | ... | २८३ |
| ( च ) श्रीगणेशस्य                                    | ... | २८४ |
| ( छ ) श्रीसूर्यस्य                                   | ... | २८५ |
| ( ज ) श्रीभगवद्भक्तानाम्                             | ... | २८७ |
| ७१—श्रीशिवरामाष्टकस्तोत्रम् ( श्रीरामानन्दस्वामिनः ) | ... | २८८ |
| ७२—कैवल्याष्टकम् ( कैवल्यशतकात् )                    | ... | २९० |
| ७३—साधनपञ्चकम् ( स्वामिश्रीशङ्कराचार्यस्य )          | ... | २९२ |
| ७४—घन्याष्टकम् ( " )                                 | ... | २९५ |
| ७५—कौपीनपञ्चकस्तोत्रम् ( " )                         | ... | २९८ |
| ७६—परापूजा ( " )                                     | ... | ३०० |
| ७७—चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम् ( " )                      | ... | ३०२ |
| ७८—द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रम् ( " )                     | ... | ३०७ |
| ७९—गौरीशाष्टकम् ( श्रीचिन्तामणेः )                   | ... | ३१० |
| ८०—सप्तश्लोकी गीता ( श्रीमद्भगवद्गीतायाः )           | ... | ३१३ |
| ८१—चतुःश्लोकीभागवतम् ( श्रीमद्भागवते २। ९। ३१-३७ )   | ... | ३१५ |








श्रीशिव-परिवार

सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम.

# स्तोत्ररत्नावली



## विनयस्तोत्राणि



### १ — मङ्गलम्

स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् ।  
 वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम् ॥ १ ॥  
 सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।  
 लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ २ ॥  
 धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।  
 द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ३ ॥  
 विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।

उन गजवदन देवदेवकी जय हो, जिनके चरणकमलका स्मरण सम्पूर्ण विघ्नसमूहको इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य अन्धकारराशिको ॥१॥ जो पुरुष-विद्यारम्भ, विवाह, गृहप्रवेश, निर्गमन ( घरसे बाहर जाने ), सग्राम अथवा सकटके समय सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्ण, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र और गजानन—इन बारह नामोका पाठ या श्रवण भी करता है,



संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ४ ॥  
 शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।  
 प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ ५ ॥  
 व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् ।  
 पराशरात्मजं वन्दे शुक्लातं तपोनिधिम् ॥ ६ ॥  
 व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।  
 नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ ७ ॥  
 अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः ।  
 अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः ॥ ८ ॥

इति मङ्गल सम्पूर्णम् ।



उसे किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता ॥ २-४ ॥ जो श्वेत वस्त्र धारण किये हैं, चन्द्रमाके समान जिनका वर्ण है तथा जो प्रसन्नवदन हैं, उन देवदेव चतुर्भुज भगवान् विष्णुका सब विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये ध्यान करना चाहिये ॥ ५ ॥ जो वसिष्ठजीके नाती ( प्रपौत्र ), शक्तिके पौत्र, पराशरजीके पुत्र तथा शुकदेवजीके पिता हैं, उन निष्पाप, तपोनिधि व्यासजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ विष्णुरूप व्यास अथवा व्यासरूप श्रीविष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ । वसिष्ठवशज ब्रह्मनिधि श्रीव्यासजीको बारंबार नमस्कार है ॥ ७ ॥ भगवान् वेदव्यासजी विना चार मुखके ब्रह्मा हैं, दो भुजावाले दूसरे विष्णु हैं और ललाटलोचन ( तीसरे नेत्र ) से रहित साक्षात् महादेवजी हैं ॥ ८ ॥



## २-श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्

अर्जुन उवाच

किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः ।  
यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम् ।  
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम् ॥ २ ॥  
पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधम् ।  
गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ ३ ॥  
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिम् ।  
दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् ॥ ४ ॥  
अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् ।

अर्जुनने पूछा—केशव ! मनुष्य बारंबार एक हजार नामोंका जप क्यों करता है ? आपके जो दिव्य नाम हो, उनका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, जनार्दन, गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, हृषीकेश, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदाङ्ग, गरुडध्वज, अनन्त और कृष्णगोपाल—इन नामोंका जप करनेवाले मनुष्यके भीतर पाप

गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च ॥ ५ ॥  
 कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः ।  
 अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च ॥ ६ ॥  
 सन्ध्याकाले सरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च ।  
 मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ७ ॥  
 इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

### ३—पट्टपदी

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।  
 भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥  
 दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे ।

नहीं रहता । वह एक करोड़ गोदान, एक सौ अश्वमेध-यज्ञ और एक हजार कन्यादानका फल प्राप्त करता है । अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन सायं-प्रातः एवं मध्याह्नके समय इन नामोका जप करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २-७ ॥

हे विष्णुभगवान् ! मेरी उद्वण्डता दूर कीजिये, मेरे मनका दमन कीजिये और विषयोकी मृगतृष्णाको शान्त कर दीजिये, प्राणियोंके प्रति मेरा दयाभाव बढ़ाइये और इस संसारसमुद्रसे मुझे पार लगाइये ॥ १ ॥ भगवान् लक्ष्मीपतिके उन चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिनका

श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिन्दे वन्दे ॥ २ ॥

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥

उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे ।

दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम् ।

परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ।

भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥

मकरन्द, गङ्गा और सौरभ सच्चिदानन्द है तथा जो ससारके भय और

खेदका छेदन करनेवाले हैं ॥ २ ॥ हे नाथ ! [ मुझमें और आपमें ] भेद न

होनेपर भी, मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरङ्ग ही समुद्रकी

होती है, तरङ्गका समुद्र कही नहीं होता ॥ ३ ॥ हे गोवर्धनधारिन् !

हे इन्द्रके अनुज ( वामन ) ! हे राक्षसकुलके शत्रु ! हे सूर्य-चन्द्ररूपी

नेत्रवाले ! आप-जैसे प्रभुके दर्शन होनेपर क्या ससारके प्रति उपेक्षा नहीं

हो जाती ! [ अपितु अवश्य ही हो जाती है ] ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर !

मत्स्यादि अवतारोंसे अवतरित होकर पृथ्वीकी सर्वदा रक्षा करनेवाले

आपके द्वारा ससारके त्रिविध तापोसे भयभीत हुआ मैं रक्षा करनेके योग्य

हूँ ॥ ५ ॥ हे गुणमन्दिर दामोदर ! हे मनोहर मुखारविन्द गोविन्द !

हे ससार-समुद्रका मन्थन करनेके लिये मन्दराचलरूप ! मेरे महान् भयको

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।

इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं षट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



## ४—श्रीहरिशरणाष्टकम्

ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये

शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै ।

रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव

तस्माच्चमेव शरणं मम दीनबन्धो\* ॥ १ ॥

नो सोदरो न जनको जननी न जाया

आप दूर कीजिये ॥ ६ ॥ हे करुणामय नारायण ! मैं सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण हूँ । यह पूर्वोक्त षट्पदी ( छः पदोंकी स्तुतिरूपिणी भ्रमरी ) सर्वदा मेरे मुखकमलमे निवास करे ॥ ७ ॥

कोई शिवको ही ध्येय बताते हैं तथा कोई शक्तिको, कोई गणेशको और कोई भगवान् भास्करको ही ध्येय कहते हैं, उन सब रूपोंमें आप ही भास रहे हैं, इसलिये हे दीनबन्धो ! मेरी शरण तो एकमात्र आप ही हैं ॥ १ ॥ भ्राता, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कुल एवं प्रचुर बल—

\* 'शङ्खपाणे' इति पाठान्तरम् ।

नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा ।

संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे । तस्मा० ॥ २ ॥

नोपासिता मदमपास्य मया महान्त-

स्तीर्थानि चास्तिकधिया न हि सेवितानि ।

देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि । तस्मा० ॥ ३ ॥

दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति

चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति ।

सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव । तस्मा० ॥ ४ ॥

पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि

स्मृत्वाखिलानि हृदयं परिकल्पते मे ।

ख्याता च ते पतितपावनता तु यस्मात् । तस्मा० ॥ ५ ॥

इसमेसे कोई भी मुझे अपना सहायक नहीं दीखता, अतः हे दीनबन्धो ! आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ २ ॥ मैंने न तो अभिमानको छोड़कर महात्माओकी आराधना की, न आस्तिकबुद्धिसे तीर्थोंका सेवन किया है और न कभी विधिपूर्वक देवताओका पूजन ही किया है, अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ ३ ॥ दुर्वासनाएँ मेरे चित्तको सदा खींचती रहती हैं, रोगसमूह सर्वदा शरीरको तपाते रहते हैं और जीवन तो सदैव परवश ही है, अतः हे दीनबन्धो ! आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ ४ ॥ पहले मुझसे जो-जो पाप बने हैं, उन सबको याद कर-करके मेरा हृदय काँपता है; किंतु तुम्हारी पतितपावनता तो प्रसिद्ध ही है, अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ ५ ॥

दुःखं जराजननजं विविधाश्च रोगाः

काकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः ।

ते विस्मृतेः फलमिदं विततं हि लोके । तस्मा० ॥ ६ ॥

नीचोऽपि पापवलितोऽपि विनिन्दितोऽपि

ब्रूयात्तवाहमिति यस्तु क्लिलैकवारम् ।

तं यच्छसीश निजलोकसिति व्रतं ते । तस्मा० ॥ ७ ॥

वेदेषु धर्मवचनेषु तथागमेषु

रामायणेऽपि च पुराणकदम्बके वा ।

सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव । तस्मा० ॥ ८ ॥

इति श्रीमत्परमहसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीहरिशरणाष्टकं सम्पूर्णम् ।

प्रभो ! आपको भूलनेसे जरा-जन्मादिसम्भूत दुःख, नाना व्याधियाँ, काक, कुत्ता, सूकरादि योनियों तथा नरकादिमें पतन—ये ही फल संसारमें विस्तृत हैं, अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ६ ॥ नीच, महापापी अथवा निन्दित ही क्यों न हो, किंतु जो एक बार भी यह कह देता है कि 'मैं आपका हूँ' उसीको आप अपना धाम दे देते हैं, हे नाथ ! आपका यही व्रत है, अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ७ ॥ वेद, धर्मशास्त्र, आगम, रामायण तथा पुराणसमूहमें भी सर्वत्र सब प्रकार आपहीका कीर्तन है, अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ८ ॥

## ५—न्यासदशकम्

अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा ।  
 न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद् बुधः ॥ १ ॥  
 न्यस्याम्यकिञ्चनः श्रीमन्ननुकूलोऽन्यवर्जितः ।  
 विश्वासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षाभरं त्वयि ॥ २ ॥  
 स्वामी स्वशेषं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरम् ।  
 स्वदत्तस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन्न्यस्यति मां स्वयम् ॥ ३ ॥  
 श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामस्मि शरणं गतः ।  
 एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम् ॥ ४ ॥

'मैं, मेरी रक्षाका भार और उसका फल मेरा नहीं, श्रीविष्णु-  
 भगवान्का ही है'—ऐसा विचारकर विद्वान् पुरुष अपनेको भगवान्पर  
 छोड़ दे ॥ १ ॥ हे भगवन् ! मैं अकिञ्चन अपनी रक्षाका भार अनन्य  
 और अनुकूल ( प्रणत ) होकर विश्वास और प्रार्थनापूर्वक आपको  
 सौपता हूँ ॥ २ ॥ मेरे स्वामी अपने शेष, वशीभूत और अपनी ही  
 रक्षकतापर अवलम्बित हुए मुझको अपनी निजकी दी हुई बुद्धिसे स्वयं  
 अपने लिये अपनेमे ही समर्पित करते हैं [ अर्थात् परम पुरुषार्थको  
 सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही अपनी शरणमे ले लेते हैं ] ॥ ३ ॥  
 हे अभीष्ट-वरदायक स्वामिन् ! मैं आपकी शरण हूँ । इस देहका  
 अन्त होनेपर आप मुझे स्वयं अपने चरणकमलगतक पहुँचा दे ॥ ४ ॥



त्वच्छेषत्वे स्थिरधियं त्वत्प्राप्त्येकप्रयोजनम् ।

निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ्करम् ॥ ५ ॥

देवीभूषणहेत्यादिजुष्टस्य भगवंस्तव ।

नित्यं निरपराधेषु कैङ्कर्येषु नियुङ्क्ष्व माम् ॥ ६ ॥

मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकम् ।

स्वकैङ्कर्योपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम् ॥ ७ ॥

त्वमेव रक्षकोऽसि मे त्वमेव करुणाकरः ।

न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवारय ॥ ८ ॥

अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे ।

आपका शेष होनेमे स्थिरबुद्धिवाले, आपकी प्राप्तिका ही एकमात्र प्रयोजन रखनेवाले, निषिद्ध और काम्य कर्मोंसे रहित मुझको आप अपना नित्य सेवक बनाइये ॥ ५ ॥ देवी ( श्रीलक्ष्मीजी ), भूषण ( कौस्तुभादि ) और शस्त्रादि ( गदा-शाङ्गादि ) से युक्त अपनी निर्दोष सेवाओंमें, हे भगवन् ! आप मुझे नित्य नियुक्त रखिये ॥ ६ ॥ हे वरदायक प्रभो ! मुझको और चेतन-अचेतनरूप मेरी समस्त वस्तुओंको, अपनी सेवाकी सामग्रीके रूपमे स्वीकार कीजिये ॥ ७ ॥ हे प्रभो ! मेरे एकमात्र आप ही रक्षक हैं, आप ही मुझपर दया करनेवाले हैं; अतः पापोंको मेरी ओर प्रवृत्त न कीजिये और प्रवृत्त हुए पापोंको निवारण कीजिये ॥ ८ ॥ हे देव ! हे दीनदुःखहारी भगवन् ! मेरा न करने योग्य कार्योंका करना

क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ ९ ॥  
 श्रीमन्नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणभरार्पणम् ।  
 अचीकरत्स्वयं स्वस्मिन्नतोऽहमिह निर्भरः ॥ १० ॥

इति श्रीवेङ्कटनाथकृत न्यासदशक सम्पूर्णम् ।

## ६ — परमेश्वरस्तोत्रम्

जगदीश सुधीश भवेश विभो  
 परमेश परात्पर पूत पितः ।  
 प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं  
 जनतारण तारथ तापितकम् ॥ १ ॥  
 गुणहीनसुदीनमलीनमतिं

और करने योग्योका न करना आप क्षमा करे ॥ ९ ॥ श्रीमन् ! आपने स्वय ही मेरी पाँचों इन्द्रियोको नियन्त्रित करके मेरी रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया, अतः अब मैं निर्भर हो गया ॥ १० ॥

हे जगदीश ! हे सुमतियोके स्वामी ! हे विश्वेश ! हे सर्वव्यापिन् ! हे परमेश्वर ! हे प्रकृति आदिसे अतीत ! हे परमपावन ! हे पितः ! हे जीवोका निस्तार करनेवाले ! इस शरणागत पतित और बुद्धि-बलसे हीन ससारसंतप्त दासका उद्धार क्रीजिये ॥ १ ॥ जो सर्वथा गुणहीन, अत्यन्त

त्वयि पातरि दातरि चापरतिम् ।  
 तमसा रजसावृतवृत्तिमिमम् । जन० ॥ २ ॥  
 मम जीवनमीनमिमं पतितं  
 मरुघोरभ्रुवीह सुवीहमहो ।  
 करुणाब्धिचलोर्मिजलानयनम् । जन० ॥ ३ ॥  
 भववारण कारण कर्मततौ  
 भवसिन्धुजले शिव मग्नमतः ।  
 करुणाश्च समर्प्य तरिं त्वरितम् । जन० ॥ ४ ॥  
 अतिनाश्य जनुर्मम पुण्यरुचे  
 दुरितौघभरैः परिपूर्णभुवः ।

दीन और मलिनमति है तथा अपने रक्षक और दाता आपसे पराङ्मुख है, हे जीवोंका निस्तार करनेवाले । इस ससारसंतत तामस-राजसवृत्तिवाले दासका आप उद्धार कीजिये ॥ २ ॥ हे जीवोंका निस्तार करनेवाले । इस भयानक मरुभूमिमें पड़कर नितान्त निश्चेष्ट हुए मेरे इस अति संतत जीवनरूप मीनका अपने करुणा वारिधिकी चञ्चल तरङ्गोंका जल लाकर उद्धार कीजिये ॥ ३ ॥ अतः हे ससारकी निवृत्ति करनेवाले । हे कर्मविस्तारके कारणस्वरूप । हे कल्याणमय ! हे जीवोंका निस्तार करनेवाले ! संसारसमुद्रके जलमें डूबकर संतत होते हुए इस दासका अपनी करुणारूप नौका समर्पण करके यहाँसे तुरंत उद्धार कीजिये ॥ ४ ॥ हे पुण्यरुचे ! जीवोद्धारक ! जिसकी पापराशिके भारसे पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीचके जन्मको सदाके लिये मिटाकर मुझ अत्यन्त निन्दनीय, नगण्य, पापमें रुचि

सुजघन्यमगण्यमपुण्यरुचिम् । जन० ॥ ५ ॥

भवकारक नारकहारक हे

भवतारक पातकदारक हे ।

हर शङ्कर किङ्करकर्मचयम् ॥ जन० ॥ ६ ॥

तृषितश्चिरमस्मि सुधां हित मे-

ऽच्युत चिन्मय देहि वदान्यवर ।

अतिमोहवशेन विनष्टकृतम् । जन० ॥ ७ ॥

प्रणमामि नमामि नमामि भवं

भवजन्मकृतिप्रणिषूदनकम् ।

गुणहीनमनन्तमितं शरणम् । जन० ॥ ८ ॥

इति परमेश्वरस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

रखनेवाले और ससारके दुःखोसे दुःखितका उद्धार कीजिये ॥५॥ हे जगत्कर्ता ! हे नारकीय यन्त्रणाओका अपहरण करनेवाले ! हे संसारका उद्धार करनेवाले ! हे पापराशिको विदीर्ण करनेवाले ! हे शंकर ! इस दासकी कर्मराशिका हरण कीजिये और हे जीवोका निस्तार करनेवाले ! इस ससारसतत जनका उद्धार कीजिये ॥ ६ ॥ हे अच्युत ! हे चिन्मय ! हे उदारचूडामणि ! हे कल्याणस्वरूप । मैं अत्यन्त तृषित हूँ, मुझे ज्ञानरूप अमृतका पान कराइये । मैं अत्यन्त मोहके वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ । हे जीवोका उद्धार करनेवाले ! मुझ ससारसततको पार लगाइये ॥ ७ ॥ ससारमें जन्मप्राप्तिके कारणभूत कर्मोंका नाश करनेवाले आपको मैं वारवार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ । हे जीवोका उद्धार करनेवाले ! आप निर्गुण और अनन्तकी शरणको प्राप्त हुए इस ससारसतत जनका उद्धार कीजिये ॥ ८ ॥

# शिवस्तोत्राणि

## ७—शिवमानसपूजा

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं  
 नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् ।  
 जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा  
 दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥ १ ॥  
 सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं  
 भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् ।  
 शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं  
 ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २ ॥

हे दयानिधे ! हे पशुपते ! हे देव ! यह रत्ननिर्मित सिंहासन, शीतल जलसे स्नान, नाना रत्नावलीविभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरिकागन्धसमन्वित चन्दन, जुही, चम्पा और बिल्वपत्रसे रचित पुष्पाञ्जलि तथा धूप और दीप यह सब मानसिक (पूजापहार) ग्रहण कीजिये ॥ १ ॥ मैंने नवीन रत्नखण्डोसे खचित सुवर्णपात्रमें घृतयुक्त खीर, दूध और दधिसहित पाँच प्रकारका व्यञ्जन, कटलीफल, शर्वत, अनेको शाक, कपूरसे सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और ताम्बूल—ये सब मनके द्वारा बनाकर प्रस्तुत किये हैं; प्रभो ! कृपया इन्हें स्वीकार कीजिये ॥ २ ॥

छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं  
 वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा ।  
 साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया  
 सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ ३ ॥  
 आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं  
 पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।  
 सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो  
 यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥ ४ ॥  
 करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् ।

विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व

छत्र, दो चँवर, पखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदङ्ग, दुन्दुभीके वाद्य,  
 गान और नृत्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, नानाविधि स्तुति—ये सब मैं सङ्कल्पसे ही  
 आपको समर्पण करता हूँ । प्रभो ! मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिये ॥ ३ ॥  
 हे शम्भो ! मेरा आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वतीजी हैं, प्राण आपके गण हैं,  
 शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषय-भोगकी रचना आपकी पूजा है,  
 निद्रा समाधि है, मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण  
 शब्द आपके स्तोत्र हैं, इस प्रकार मैं जो-जो भी कर्म करता हूँ, वह  
 सब आपकी आराधना ही है ॥ ४ ॥ प्रभो ! मैंने हाथ, पैर, वाणी,  
 शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मनसे जो भी अपराध किये हो, वे विहित हैं

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ५ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता ।

## ८—शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्

आदौ कर्मप्रसङ्गात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां  
 विष्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः ।  
 यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं  
 क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥ १ ॥  
 बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा  
 नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति ।

अथवा अविहित, उन सबको आप क्षमा कीजिये । हे करुणासागर  
 श्रीमहादेव शंकर ! आपकी जय हो ॥ ५ ॥

पहले कर्मप्रसङ्गसे किया हुआ पाप मुझे माताकी कुक्षिमें ल  
 बिठाता है, फिर उस अपवित्र विष्ठा-मूत्रके बीच जठराग्नि खूब संतप्त  
 करता है । वहाँ जो-जो दुःख निरन्तर व्यथित करते रहते हैं उन्हें कौन  
 कह सकता है ? हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो !  
 अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो !! ॥ १ ॥ बाल्यावस्थामे दुःखकी  
 अधिकता रहती थी, शरीर मल-मूत्रसे लिथड़ा रहता था और निरन्तर  
 स्तनपानकी लालसा रहती थी, इन्द्रियोमे कोई कार्य करनेकी सामर्थ्य  
 न थी, शैवी मायासे उत्पन्न हुए नाना जन्तु मुझे काटते थे,

नानारोगादिदुःखाद्बुद्धनपरवशः शङ्करं न स्मरामि । क्षन्तव्यो ० । २ ।

प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ

दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्णः ।

शैवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं । क्षन्तव्यो ० । ३ ।

बार्द्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवादितापैः

पापै रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम् ।

मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जटेऽर्ह्यानशून्यम् । क्षन्तव्यो ० ४

नाना रोगादि दुःखोके कारण मैं रोता ही रहता था, ( उस समय भी )

पुरुषसे शंकरका स्मरण नहीं बना, इसलिये हे शिव । हे शिव ! हे शंकर ।

हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ २ ॥

जब मैं युवा-अवस्थामें आकर प्रौढ हुआ तो पाँच विषयरूपी सपोंने मेरे

मर्मस्थानोंमें डँसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री

और सतानके सुख भोगनेमे लग गया । उस समय भी आपके चिन्तनको

भूलकर मेरा हृदय बड़े घमण्ड और अभिमानसे भर गया । अतः हे

शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध

क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ३ ॥ वृद्धावस्थामें भी जब इन्द्रियोकी गति

क्षिणिक हो गयी है, बुद्धि मन्द पड़ गयी है और आधिदैविकादि तापो,

पापों, रोगों और वियोगोंसे शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या

मोह और अभिलाषाओसे दुर्बल और दीन होकर ( आप ) श्रीमहादेवजीके

चिन्तनसे शून्य ही भ्रम रहा है । अतः हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे

महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ४ ॥



नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलारख्यं  
 श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे ।  
 नास्थाधर्मे विचारःश्रवणमननयोःकिं निदिध्यासितव्यम् ।<sup>क्षन्तव्यो०५</sup>  
 स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं  
 पूजार्थं वा कदाचिद्बहुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि ।  
 नानीतापद्ममालासरसिकसितागन्धपुष्पे त्वदर्थम् ।<sup>क्षन्तव्यो०६</sup>  
 दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं  
 नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसन्नैः ।

पद-पदपर अतिगहन प्रायश्चित्तोसे व्याप्त होनेके कारण मुझसे तो स्मार्तकर्म भी नहीं हो सकते, फिर जो द्विजकुलके लिये विहित हैं, उन ब्रह्मप्राप्तिके मार्गस्वरूप श्रौतकर्मोंकी तो बात ही क्या है ? धर्ममें आस्था नहीं है और श्रवण-मननके विषयमें विचार ही नहीं होता, निदिध्यासन ( ध्यान ) भी कैसे किया जाय ? अतः हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ५ ॥ प्रातःकाल स्नान करके आपका अभिषेक करनेके लिये मैं गङ्गाजल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजाके लिये वनसे बिल्वपत्र ही लाया और न आपके लिये तालावमें खिले हुए कमलोकी माला तथा गन्ध-पुष्प ही लाकर अर्पण किये । अतः हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ६ ॥ मधु, घृत, दधि और शर्करायुक्त दूध ( पञ्चामृत ) से मैंने आपके लिङ्गको स्नान नहीं कराया, चन्दन आदिसे अनुलेपन नहीं किया, धतूरेके फूल,

धूपैः कपूरदीपैर्विधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः । क्षन्तव्यो० ॥७॥  
 ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो  
 हव्यं ते लक्षसंख्यैर्हुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः ।  
 नो तप्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यैर्न वेदैः । क्षन्तव्यो० ॥८॥  
 स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे  
 शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये ।  
 लिङ्गज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि । क्षन्तव्यो० ॥९॥

धूप, दीप, कपूर तथा नाना रत्नोंसे युक्त नैवेद्योद्वारा पूजन भी नहीं किया । हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरे अपराधको क्षमा करो । क्षमा करो । ॥ ७ ॥ मैंने चित्तमे शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणोंको प्रचुर धन नहीं दिया; न आपके एक लक्ष बीजमन्त्रोद्वारा अग्निमे आहुतियों दीं और न व्रत एव जपके नियमसे तथा रुद्रजाप और वेदविधिसे गङ्गातटपर कोई साधना ही की । अतः हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो ! क्षमा करो । ॥ ८ ॥ जिस सूक्ष्ममार्गप्राप्य सहस्रदल-कमलमे पहुँचकर प्राणसमूह प्रणवनादमे लीन हो जाते हैं और जहाँ जाकर वेदके वाक्यार्थ तथा तात्पर्य-भूत पूर्णतया आविर्भूत ज्योतिरूप शान्त परमतत्त्वमे लीन हो जाता है, उस कमलमे स्थित होकर मैं सर्वान्तर्यामी कल्याणकारी आपका स्मरण नहीं करता हूँ । अतः हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो ! क्षमा करो । ॥ ९ ॥

नग्नो निःसङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो  
 नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभ्रगुणो नैव दृष्टः कदाचित् ।  
 उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलमलं शंकरं न स्मरामि । क्षन्तव्यो० १०  
 चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शंकरे  
 सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे ।  
 दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे  
 मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥ ११ ॥  
 किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं  
 किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् ।

नग्न, निःसङ्ग, शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर, मोहान्धकारका ध्वंस कर तथा  
 नासिकाग्रमे दृष्टि स्थिर कर मैंने ( आप ) शंकरके गुणोंको जानकर कभी  
 आपका दर्शन नहीं किया और न उन्मनी-अवस्थासे कलमलरहित  
 आप कल्याणस्वरूपका स्मरण ही करता हूँ । अतः हे शिव ! हे शिव !  
 हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो !  
 क्षमा करो ! ॥ १० ॥ चन्द्रकलासे जिनका ललाट-प्रदेश भाषित हो रहा  
 है, जो कन्दर्पदर्पहारी हैं, गङ्गाधर हैं, कल्याणस्वरूप हैं, सर्पोंसे जिनके  
 कण्ठ और कर्ण भूषित है, नेत्रोंसे अग्नि प्रकट हो रहा है, हस्तिचर्मकी  
 जिनकी कन्या है तथा जो त्रिलोकीके सार हैं, उन शिवमे मोक्षके  
 लिये अपनी सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोंको लगा दे, और कर्मोंसे क्या  
 प्रयोजन है ? ॥ ११ ॥ इस धन, बोड़े, हाथी और राच्यादिकी  
 प्राप्तिसे क्या ? पुत्र, स्त्री, मित्र, पशु, देह और घरसे क्या !

ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः  
 स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम् ॥१२॥  
 आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं  
 प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः ।  
 लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं  
 तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥१३॥  
 करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा  
 श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् ।  
 विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व  
 जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥१४॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित शिवापराधक्षमापनस्तोत्र सम्पूर्णम् ।



इनको क्षणभङ्गुर जानकर रे मन ! दूरहीसे त्याग दे और आत्मानुभवके लिये गुरुवचनानुसार पार्वतीवल्लभ श्रीगणेशका भजन कर ॥ १२ ॥ देखते-देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौटकर नहीं आते, काल सम्पूर्ण जगत्को खा रहा है । लक्ष्मी जलकी तरङ्गमालाके समान चपल है, जीवन विजलीके समान चञ्चल है, अतः मुझ शरणागतकी हे शरणागतवत्सल शकर ! अब रक्षा करो । रक्षा करो । ॥ १३ ॥ हाथसे, पैरोसे, वाणीसे, शरीरसे, कर्मसे, कर्णसे, नेत्रोंसे अथवा मनसे भी जो अपराध किये हो, वे विहित हों अथवा अविहित—उन सबको हे करुणासागर महादेव शम्भो । क्षमा कीजिये । आपकी जय हो, जय हो ॥१४॥



## ६—वेदसारशिवस्तवः

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं  
 गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम् ।  
 जटाजूटमध्ये स्फुरद्वाङ्गचारिं  
 महादेवमेकं सरामि सरारिम् ॥ १ ॥  
 महेशं सुरेशं सुरारतिनाशं  
 विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् ।  
 विरूपाक्षमिन्द्रकवह्नित्रिनेत्रं  
 सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥  
 गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं  
 गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम् ।  
 भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं

जो सम्पूर्ण प्राणियोके रक्षक हैं, पापका ध्वंस करनेवाले हैं, परमेश्वर हैं, गजराजका चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं और जिनके जटाजूटमें श्रीगङ्गाजी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारि श्रीमहादेवजीका मैं स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ चन्द्र, सूर्य और अग्नि—तीनों जिनके नेत्र हैं, उन विरूपनयन महेश्वर, देवेश्वर, देवदुःखदलन, विभु, विश्वनाथ, विभूति-भूषण, नित्यानन्दस्वरूप, पञ्चमुख—भगवान् महादेवकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ जो कैलाशनाथ हैं, गणनाथ हैं, नीलकण्ठ हैं, बैलपर चढ़े हुए हैं, अगणित रूपवाले हैं, संसारके आदिकारण हैं, प्रकाशस्वरूप हैं, शरीरमे भस्म ल्याये हुए हैं और श्रीपार्वतीजी जिनकी अर्द्धाङ्गिनी हैं,

भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥  
 शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले  
 महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् ।  
 त्वमेको जगद्रचापको विश्वरूप  
 प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ ४ ॥  
 परात्मानमेकं जगद्धीजमाद्यं  
 निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् ।  
 यतो जायते पाल्यते येन विश्वं  
 तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ॥ ५ ॥  
 न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु-  
 न् चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा ।  
 न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो

उन पञ्चमुख महादेवजीको मैं भजता हूँ ॥ ३ ॥ हे पार्वतीवल्लभ  
 महादेव ! हे चन्द्रशेखर । हे महेश्वर ! हे त्रिशूलिन् ! हे जटाजूटधारिन् !  
 हे विश्वरूप ! एकमात्र आप ही जगत्मे व्यापक हैं, हे पूर्णरूप प्रभो !  
 प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥ ४ ॥ जो परमात्मा हैं, एक हैं, जगत्के  
 आदिकारण हैं, इच्छारहित हैं, निराकार हैं, और प्रणवद्वारा जानने-  
 योग्य हैं तथा जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति और पालन होता है और  
 फिर जिनमें उसका लय हो जाता है, उन प्रभुको मैं भजता हूँ ॥ ५ ॥  
 जो न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न आकाश  
 हैं; न तन्द्रा हैं, न निद्रा हैं, न ग्रीष्म हैं, और न शीत हैं तथा जिनका न

न यस्यास्ति मूर्तिंस्त्रिमूर्तिं तमीडे ॥ ६ ॥  
 अजं शाश्वतं कारणं कारणानां  
 शिवं केवलं भासकं भासकानाम् ।  
 तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं  
 प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ ७ ॥  
 नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते  
 नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते ।  
 नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य  
 नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥  
 प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ  
 महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र ।  
 शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे

कोई देश है, न वेप है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्तिकी मैं स्तुति करता हूँ ॥६॥  
 जो अजन्मा हैं, नित्य हैं, कारणके भी कारण हैं, कल्याणस्वरूप हैं,  
 एक हैं, प्रकाशकोके भी प्रकाशक हैं, अवस्थात्रयसे विलक्षण हैं, अज्ञानसे  
 परे हैं, अनादि और अनन्त हैं, उन परमपावन अद्वैतस्वरूपको मैं प्रणाम  
 करता हूँ ॥ ७ ॥ हे विश्वमूर्ते ! हे विभो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार  
 है । हे चिदानन्दमूर्ते ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है । हे तप तथा  
 योगसे प्राप्तव्य प्रभो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है । वेदवेद्य  
 भगवन् ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! हे विशूल-  
 पाणे ! हे विभो ! हे विश्वनाथ ! हे महादेव ! हे शम्भो ! हे महेश्वर ! हे  
 त्रिनेत्र ! हे पार्वतीप्राणवल्लभ ! हे शान्त ! हे कामारे ! हे त्रिपुरारे !

त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९ ॥

शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे

गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् ।

काशीपते करुणया जगदेतदेक-

स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥१०॥

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे

त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ ।

त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश

लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन् ॥११॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यवृतो वेदसारशिवस्तवः सम्पूर्णः ।

तुम्हारे अतिरिक्त न कोई श्रेष्ठ है, न माननीय है और न गणनीय है ॥९॥

हे शम्भो ! हे महेश्वर ! हे करुणामय ! हे त्रिशूलिन् ! हे गौरीपते ! हे पशुपते !

हे पशुबन्धमोचन ! हे काशीश्वर ! एक तुम्हीं करुणावश इस जगत्की

उत्पत्ति, पालन और सहार करते हो; प्रभो ! तुम ही इसके एकमात्र

स्वामी हो ॥ १० ॥ हे देव ! हे शकर ! हे कन्दर्पदलन ! हे शिव !

हे विश्वनाथ ! हे ईश्वर ! हे हर ! हे चराचरजगद्रूप प्रभो ! यह लिङ्गस्वरूप

समस्त जगत् तुम्हींसे उत्पन्न होता है, तुम्हींमें स्थित रहता है और

तुम्हींमें लय हो जाता है ॥ ११ ॥



## १०—शिवाष्टकम्

तस्मै नमः परमकारणकारणाय

दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय ।

नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय

ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय ॥ १ ॥

श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय

शैलेन्द्रजावदनचुम्बितलोचनाय ।

कैलाशमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय

लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय ॥ २ ॥

पद्मावदात्मणिकुण्डलगोवृषाय

कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय ।

जो कारणके भी परम कारण हैं, ( अग्निशिखाके समान ) अति देदीप्यमान उज्ज्वल और पिङ्गल नेत्रोवाले हैं, सर्पराजोके हार-कुण्डलादिसे भूषित हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादिको भी वर देनेवाले हैं उन श्रीशंकरको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ शोभायमान एवं निर्मल चन्द्रकला तथा सर्प ही जिनके भूषण हैं, गिरिराजकुमारी अपने मुखसे जिनके लोचनोंका चुम्बन करती हैं, कैलाश और महेन्द्रगिरि जिनके निवासस्थान हैं तथा जो त्रिलोकीके दुःखको दूर करनेवाले हैं उन श्रीशंकरको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो स्वच्छ पद्मरागमणिके कुण्डलोसे किरणोकी वर्षा करनेवाले,

भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय

नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

लम्बत्सपिङ्गलजटामुकुटोत्कटाय

दंष्ट्राकरालविकटोत्कटभैरवाय ।

व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय

त्रैलोक्यनाथनमिताय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

दक्षप्रजापतिमहामखनाशनाय

क्षिप्रं महात्रिपुरदानवघातनाय ।

ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटिनिकृन्तनाय

योगाय योगनमिताय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय

अगरु और बहुत-से चन्दनसे चर्चित तथा भस्म, प्रफुल्लित कमल और जूहीसे सुशोभित हैं, ऐसे नीलकमलसदृश कण्ठवाले शिवको नमस्कार है ॥ ३ ॥

लटकती हुई पिङ्गलवर्ण जटाओंके सहित मुकुट धारण करनेसे जो उत्कट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण दाढीके कारण जो अति विकट और भयानक प्रतीत होते हैं, व्याघ्रचर्म धारण किये हुए हैं, अति मनोहर हैं तथा तीनों लोकोके अधीश्वर भी जिनके चरणोमे झुकते हैं, उन श्रीगंकरको प्रणाम है ॥ ४ ॥ दक्षप्रजापतिके महायज्ञको ध्वंस करनेवाले महान् त्रिपुरासुरको शीघ्र मार डालनेवाले, दर्पयुक्त ब्रह्माके ऊर्ध्वमुख पञ्चम सिरका छेदन करनेवाले, योगस्वरूप, योगसे नमस्कृत शिवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ जो कल्प-कल्पमे संसाररचनाका परिवर्तन करनेवाले

रक्षःपिशाचगणसिद्धसमाकुलाय ।

सिद्धोरगग्रहगणेन्द्रनिषेविताय

शार्दूलचर्मवसनाय नमः शिवाय ॥ ६ ॥

भस्माङ्गरागकृतरूपमनोहराय

सौम्यावदातवनमाश्रितमाश्रिताय ।

गौरीकटाक्षनयनार्धनिरीक्षणाय

गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय ॥ ७ ॥

आदित्यसोमवरुणानिलसेविताय

यज्ञाग्निहोत्रवरधूमनिकेतनाय ।

ऋक्सामवेदमुनिभिः स्तुतिसंयुताय

हैं, राक्षस, पिशाच और सिद्धगणोंसे घिरे रहते हैं, सिद्ध, सर्प, ग्रहगण तथा इन्द्रादिसे सेवित हैं तथा जो व्याघ्रचर्म धारण किये हुए हैं, उन श्रीशंकरको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

भस्मरूपी अङ्गरागसे जिन्होंने अपने रूपको अत्यन्त मनोहर बनाया है, जो अति शान्त और सुन्दर वनका आश्रय करनेवालोंके आश्रित हैं, श्रीपार्वतीजीके कटाक्षकी ओर जो बाँकी चितवनसे निहार रहे हैं और गोदुग्धकी धाराके समान जिनका श्वेतवर्ण है, उन श्रीशंकरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ सूर्य, चन्द्र, वरुण और पवनसे जो सेवित हैं, यज्ञ और अग्निहोत्रके धूममें जिनका निवास है, ऋक्-सामादि वेद और मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उन नन्दीश्वर-

गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय ॥ ८ ॥  
 शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।  
 शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ९ ॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित शिवाष्टक सम्पूर्णम् ।

## ११ — श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय  
 भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।  
 नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय  
 तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥ १ ॥  
 मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय

पूजित गौओका पालन करनेवाले महादेवजीको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ जो इस पवित्र शिवाष्टकको श्रीमहादेवजीके समीप पढ़ता है, वह शिवलोकको प्राप्त होता है और श्रीगणेशजीके साथ आनन्द प्राप्त करता है ॥ ९ ॥

जिनके कण्ठमे साँपोंका हार है, जिनके तीन नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अङ्गराग ( अनुलेपन ) है, दिशाएँ ही जिनका वस्त्र हैं [ अर्थात् जो नग्न हैं ], उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर 'न' कारस्वरूप शिवको नमस्कार है ॥ १ ॥ गङ्गाजल और चन्दनसे जिनकी अर्चा हुई है, मन्दार-पुष्प तथा अन्यान्य

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय

तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय ॥ २ ॥

शिवाय

गौरीवदनाब्जवृन्द-

सूर्याय

दक्षाध्वरनाशकाय ।

श्रीनीलकण्ठाय

वृषध्वजाय

तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य-

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय

तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

यक्षस्वरूपाय

जटाधराय

कुसुमोसे जिनकी सुन्दर पूजा हुई है, उन नन्दीके अधिपति प्रमथ-  
गणोंके स्वामी महेश्वर 'म' कारस्वरूप शिवको नमस्कार है ॥२॥ जो कल्याण-  
स्वरूप हैं, पार्वतीजीके मुखकमलको विकसित ( प्रसन्न ) करनेके लिये  
जो सूर्यस्वरूप हैं, जो दक्षके यज्ञका नाश करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजामे  
वैलका चिह्न है, उन शोभाशाली नीलकण्ठ 'शि' कारस्वरूप शिवको  
नमस्कार है ॥ ३ ॥ वसिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियोने तथा  
इन्द्र आदि देवताओने जिनके मस्तककी पूजा की है, चन्द्रमा, सूर्य और  
अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन 'व' कारस्वरूप शिवको नमस्कार है ॥४॥ जिन्होंने  
यक्षरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथमे पिनाक है, जो

पिनाकहस्ताय सनातनाय ।  
 दिव्याय देवाय दिगम्बराय  
 तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥  
 पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।  
 शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ६ ॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित शिवपञ्चाक्षरस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

## १२ — द्वादशज्योतिर्लिङ्गानि

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।  
 उज्जयिन्यां महाकालमोङ्गारममलेश्वरम् ॥ १ ॥

दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगम्बर देव 'य' कारस्वरूप शिवको नमस्कार है ॥ ५ ॥ जो शिवके समीप इस पवित्र पञ्चाक्षरका पाठ करता है, वह शिवलोकको प्राप्त करता और वहाँ शिवजीके साथ आनन्दित होता है ॥ ६ ॥

( १ ) सौराष्ट्रप्रदेश ( काठियावाड़ ) मे श्रीसोमनाथ, ( २ ) श्री-शैलेपर श्रीमल्लिकार्जुन, ( ३ ) उज्जयिनी ( उज्जैन ) मे श्रीमहाकाल,

१. श्रीसोमनाथ काठियावाड प्रदेशके अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रमें विराजमान है । २. यह पर्वत मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेमें कृष्णा नदीके तटपर है, इसे दक्षिणका कैलास कहते हैं । ३. श्रीमहाकालेश्वर मालवा प्रदेशमें क्षिप्रा नदीके तटपर उज्जैननगरमें विराजमान है, उज्जैनको अवन्तिकापुरी भी कहते हैं ।

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् ।

सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २ ॥

( ४ ) ओकारेश्वर अथवा अमलेश्वर ॥ १ ॥ ( ५ ) परलीमे वैद्यनाथ, ( ६ ) डाकिनी नामक स्थानमे श्रीभीमशंकर, ( ७ ) सेतुबन्धपर श्रीरामेश्वर, ( ८ ) दारुकावनमे श्रीनागेश्वर ॥ २ ॥ ( ९ ) वाराणसी (काशी)मे

१. ओकारेश्वरका स्थान मालवा प्रान्तमें नर्मदा नदीके तटपर है। उज्जैनसे खण्डवा जानेवाली वी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवेकी छोटी लाइनपर मोरटका नामक स्टेशन है, वहाँसे यह स्थान ७ मील दूर है। यहाँ ओकारेश्वर और अमलेश्वरके दो पृथक्-पृथक् लिङ्ग हैं, परन्तु ये एक ही लिङ्गके दो स्वरूप हैं।

२. निजामराज्यके हैदराबाद नगरसे निकट परभनी नामक एक जकशन है, वहाँसे परलीतक एक ब्राच लाइन गयी है, इस परली स्टेशनसे थोड़ी दूरपर परली ग्रामके निकट श्रीवैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिङ्ग है। शिवपुराणमे 'वैद्यनाथ-चिताभूमौ' ऐसा पाठ है, इसके अनुसार संथाल परगनेमें ई० आई० रेलवेके जैसीडीह स्टेशनके पासवाला वैद्यनाथ-शिवलिङ्ग भी वास्तविक वैद्यनाथज्योतिर्लिङ्ग सिद्ध होता है; क्योंकि यही चिताभूमि है।

३. श्रीभीमशंकरका स्थान वन्वईसे पूर्व और पूनासे उत्तर भूमानदीके किनारे सह्यपर्वतपर है। यह स्थान लारीके रास्तेसे नासिकसे लगभग १२० मील दूर है। सह्यपर्वतके एक शिखरका नाम डाकिनी है। इससे अनुमान होता है, कभी यहाँ डाकिनी और भूतोंका निवास था। शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग आसामके कामरूप जिलेमें ए० वी० रेलवेपर गोहाटीके पास ब्रह्मपुर पहाडीपर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिलेके उज्जनक नामक स्थानमें एक विशाल शिवमन्दिर है, वही भीमशंकरका स्थान है।

४. श्रीरामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है, यह मद्रास प्रान्तके रामनद जिलेमें रामनदके राजाकी जमादारीमें है।

५. यह स्थान बडौदा राज्यान्तर्गत गोमतीद्वारकासे ईशानकोणमें वारह-

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ।  
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये ॥ ३ ॥  
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।  
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ४ ॥



श्रीविश्वनाथ, ( १० ) गौतमी ( गोदावरी ) के तटपर श्रीत्र्यम्बकेश्वर, ( ११ ) हिमालयपर केदारखण्डमे श्रीकेदारनाथ और ( १२ ) शिवालयेमें श्री-घुश्मेश्वरको स्मरण करे ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या-समय इन वारह ज्योतिर्लिङ्गोका नाम लेता है, उसके सात जन्मोका क्रिया हुआ पाप इन लिङ्गोंके स्मरणमात्रसे मिट जाता है ॥ ४ ॥



तेरह मीलकी दूरीपर है । कोई-कोई निजाम हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत औढाग्राममें स्थित शिवलिङ्गको ही 'नागेश्वर' ज्योतिर्लिङ्ग मानते हैं । कुछ लोगोंके मतसे अल्मोडासे १७ मील उत्तर-पूर्वमें यागेग ( जागेश्वर ) शिवलिङ्ग ही नागेश ज्योतिर्लिङ्ग है । १. काशीके श्रीविश्वनाथजी प्रसिद्ध ही हैं । २ यह ज्योतिर्लिङ्ग बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें नासिक-पञ्चवटीसे ( यहाँ शूर्पणखाकी नाक कटी थी ) १८ मीलकी दूरीपर ब्रह्मगिरिके निकट गोदावरीके किनारे है । ३. श्रीकेदारनाथ हिमालयके केदार नामक शृङ्गपर स्थित हैं । शिखरके पूर्वकी ओर अलकनन्दाके तटपर श्रीवदरीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिममें मन्दाकिनीके किनारे श्रीकेदारनाथ विराजमान हैं । यह स्थान हरद्वारसे ८५० मील और ऋषिकेशसे १३२ मील दूर है । ४. श्रीघुश्मेश्वरको घुस्मणेश्वर या धृष्णेश्वर भी कहते हैं । इनका स्थान निजाम राज्यके अन्तर्गत दौलताबाद स्टेशनसे वारह मील दूर वेरुल गाँवके पास है ।



## १३ — द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये  
 ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।  
 भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं  
 तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥  
 श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे  
 तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् ।  
 तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं  
 नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥ २ ॥  
 अवन्तिक्रायां विहितावतारं  
 मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।

जो अपनी भक्ति प्रदान करनेके लिये अत्यन्त रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश ( काठियावाड़ ) में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चन्द्रमा जिनके मस्तकका आभूषण है, उन ज्योतिर्लिङ्गस्वरूप भगवान् श्रीसोमनाथकी शरणमे जाता हूँ ॥ १ ॥ जो ऊँचाईके आदर्शभूत पर्वतोसे भी बढ़कर ऊँचे श्रीशैलके शिखरपर, जहाँ देवताओका अत्यन्त समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसारसागरसे पार करानेके लिये पुलके समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ संतजनोंको मोक्ष देनेके लिये जिन्होंने अवन्तिपुरी ( उज्जैन ) में अवतार धारण किया है, उन महाकाल

अकालमृत्योः                      परिरक्षणार्थं  
 वन्दे                                      महाकालमहासुरेशम् ॥ ३ ॥

कावेरिकानर्मदयोः                      पवित्रे  
 समागमे                                  सज्जनतारणाय ।  
 सदैव                      मान्धातृपुरे                      वसन्त-  
 मोङ्गारमीशं                      शिवमेकमीडे ॥ ४ ॥

पूर्वोत्तरे                                  प्रज्वलिकानिधाने  
 सदा वसन्तं                      गिरिजासमेतम् ।

सुरासुराराधितपादपद्मं  
 श्रीवैद्यनाथं                      तमहं                      नमामि ॥ ५ ॥

याम्ये                      सदङ्गे                      नगरेऽतिरम्ये  
 विभूषिताङ्गं                      विविधैश्च                      भोगैः ।

नामसे विख्यात महादेवजीको मैं अकालमृत्युसे बचनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो सत्पुरुषोको संसारसागरसे पार उतारनेके लिये कावेरी और नर्मदाके पवित्र संगमके निकट मान्धाताके पुरमे सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान् ॐकारेश्वरका मैं स्तवन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो पूर्वोत्तर दिशामे चिताभूमि ( वैद्यनाथ धाम ) के भीतर सदा ही गिरिजाके साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण-कमलोकी आराधना करते हैं, उन श्रीवैद्यनाथको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ जो दक्षिणके अत्यन्त रमणीय सदङ्ग नगरमे विविध भोगोसे सम्पन्न होकर सुन्दर आभूषणोसे भूषित हो रहे हैं, एकमात्र जो ही

सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं

श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ६ ॥

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं

सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः ।

सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः

केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥ ७ ॥

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं

गोदावरीतीरपवित्रदेशे ।

यद्दर्शनात्पातकमाशु नाशं

प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥ ८ ॥

सुताम्रपर्णीजलराशियोगे

निबध्य सेतुं विशिखरैः संख्यैः ।

सद्भक्ति और मुक्तिको देनेवाले हैं, उन प्रभु श्रीनागनाथकी मैं शरणमे जाता हूँ ॥ ६ ॥ जो महागिरि हिमालयके पास केदारशृङ्गके तटपर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरोंद्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान् सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान् केदारनाथका मैं स्तवन करता हूँ ॥ ७ ॥

जो गोदावरीतटके पवित्र देशमे सह्यपर्वतके विमल शिखरपर वास करते हैं, जिनके दर्शनसे तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्रीत्र्यम्बकेश्वरका मैं स्तवन करता हूँ ॥ ८ ॥ जो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा ताम्रपर्णी और

श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं  
रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ ९ ॥

यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे  
निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।

सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं  
तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥ १० ॥

सानन्दमानन्दवने वसन्त-  
मानन्दकन्दं हतपापवृन्दम् ।

वाराणसीनाथमनाथनाथं  
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ११ ॥

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्  
समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् ।

सागरके संगममे अनेक बाणोद्वारा पुल बाँधकर स्थापित किये गये, उन श्रीरामेश्वरको मैं नियमसे प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ जो डाकिनी और शाकिनीवृन्दमे प्रेतोंद्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्तहितकारी भगवान् भीमशंकरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ जो स्वयं आनन्दकन्द हैं और आनन्दपूर्वक आनन्दवन ( काशी ) मे वास करते हैं, जो पाप-समूहके नाश करनेवाले हैं, उन अनाथोंके नाथ काशीपति विश्वनाथकी शरणमें मैं जाता हूँ ॥ ११ ॥ जो इलापुरके सुरम्य मन्दिरमे विराजमान होकर समस्त जगत्के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव

वन्दे

महोदारतरस्वभावं

घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥१२॥

ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां

शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण ।

स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या

फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥१३॥

इति श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

## १४—शिवताण्डवस्तोत्रम्

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं

बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान् शिवकी मैं शरणमें जाता हूँ ॥ १२ ॥ यदि मनुष्य क्रमशः कहे गये इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिङ्गोके स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो इनके दर्शनसे होनेवाला फल प्राप्त कर सकता है ॥ १३ ॥

जिन्होंने जटारूप अटवी ( वन ) से निकलती हुई गङ्गाजीके गिरते हुए प्रवाहोसे पवित्र किये गये गलेमे सर्पोंकी लटकती हुई विशाल मालाको धारणकर, डमरूके डम-डम शब्दोसे मण्डित प्रचण्ड ताण्डव

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥ १ ॥

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-

विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि ।

धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके

किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २ ॥

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-

स्फुरदिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।

कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि

क्वचिदिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३ ॥

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा-

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।

( नृत्य ) किया, वे शिवजी हमारे कल्याणका विस्तार करे ॥ १ ॥

जिनका मस्तक जटारूपी कडाहमें वेगसे घूमती हुई गङ्गाकी चञ्चल तरङ्ग-लताओसे मुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक्-धक् जल रही है, सिर-

पर बाल चन्द्रमा विराजमान है, उन ( भगवान् शिव ) मे मेरा निरन्तर अनुराग हो ॥ २ ॥ गिरिजकिशोरी पार्वतीके विलासकालेप-

योगी शिरोभूषणसे समस्त दिशाओको प्रकाशित होते देख जिनका मन आनन्दित हो रहा है, जिनकी निरन्तर कृपादृष्टिसे कठिन आपत्तिका भी निवारण हो जाता है; ऐसे किसी दिगम्बर तत्त्वमे मेरा मन विनोद

करे ॥ ३ ॥ जिनके जटाजूटवर्ती भुजङ्गमोके फणोकी मणियोंका फैलता हुआ पिङ्गल प्रभापुञ्ज दिशारूपिणी अङ्गनाओके मुखपर कुङ्कुमरागका

मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे

मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तारि ॥ ४ ॥

सहस्रलोचनप्रभृत्यंशेषलेखशेखर-

प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।

भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः

श्रियैचिराय जायतां चकोरवन्धुशेखरः ॥ ५ ॥

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-

निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।

सुधामयूरवलेखया विराजमानशेखरं

महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तुनः ॥ ६ ॥

करालभालपट्टिकाधगद्गद्गज्ज्वल-

अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथीके हिलते हुए चमड़ेका उत्तरीय वस्त्र ( चादर ) धारण करनेसे स्निग्धवर्ण हुए उन भूतनाथमें मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे ॥ ४ ॥ जिनकी चरणपादुकाएँ इन्द्र आदि समस्त देवताओंके ( प्रणाम करते समय ) मस्तकवर्ती कुसुमोकी धूलिसे धूसरित हो रही हैं, नागराज ( शेष ) के हारसे बँधी हुई जटावाले वे भगवान् चन्द्रशेखर मेरे लिये चिरस्थायिनी सम्पत्तिके साधक हो ॥ ५ ॥ जिसने ललाट-वेदीपर प्रज्वलित हुई अग्निके स्फुलिङ्गोंके तेजसे कामदेवको नष्ट कर डाला था, जिसे इन्द्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकरकी कलासे सुशोभित मुकुटवाला वह ( श्रीमहादेवजीका ) उन्नत विशाल ललाटवाला जटिल मस्तक हमारी संपत्तिका साधक हो ॥ ६ ॥ जिन्होंने अपने विकराल भालपट्टपर

द्वनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।  
 धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाप्रचित्रपत्रक-  
 प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७ ॥  
 नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फुर-  
 त्कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।  
 निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः  
 कलानिधानबन्धुरः श्रियंजगद्घुरन्धरः ॥ ८ ॥  
 प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-  
 वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।  
 स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं सखच्छिदं  
 राजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ ९ ॥

धक्-धक् जलती हुई अग्निमे प्रचण्ड कामदेवको हवन कर दिया था,  
 गिरिराजकिशोरीके स्तनोपर पत्रभङ्ग-रचना करनेके एकमात्र कारीगर उन  
 भगवान् त्रिलोचनमे मेरी धारणा लगी रहे ॥ ७ ॥ जिनके कण्ठमे नवीन मेघ-  
 मालासे घिरी हुई अमावस्याकी आधी रातके समय फैलते हुए दुरूह अन्धकार-  
 के समान श्यामता अङ्कित है, जो गंजचर्म लपेटे हुए हैं, वे संसारभारको धारण  
 करनेवाले चन्द्रमा [ के सम्पर्क ] से मनोहर कान्तिवाले भगवान् गगाधर  
 मेरी सम्पत्तिका विस्तार करें ॥ ८ ॥ जिनका कण्ठदेश खिले हुए नील कमल-  
 समूहकी श्याम-प्रभाका अनुकरण करनेवाली हरिणीकी-सी छविवाले चिह्नसे  
 सुशोभित है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव ( संसार ), दक्ष-यज्ञ, हाथी,  
 अन्धकासुर और यमराजका भी उच्छेदन करनेवाले हैं उन्हें मैं भजता हूँ ॥ ९ ॥



अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी-

रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।

स्सरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं

गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥

जयत्वद्भ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-

द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।

धिमिद्विमिद्विमिद्भ्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल-

ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गसौक्तिकस्रजो-

र्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।

तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः

जो अभिमानरहित पार्वतीकी कलारूप कदम्बमञ्जरीके मकरन्दस्रोतकी बढती हुई माधुरीके पान करनेवाले मधुप है तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष-यश, हाथी, अन्धकासुर और यमराजका भी अन्त करनेवाले हैं, उन्हे मैं भजता हूँ ॥ १० ॥ जिनके मस्तकपर बड़े वेगके साथ घूमते हुए भुजङ्गके फुफकारनेसे ललाटकी भयकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धिमि-धिमि बजते हुए मृदङ्गके गम्भीर मङ्गल घोषके क्रमानुसार जिनका प्रचण्ड ताण्डव हो रहा है, उन भगवान् शंकरकी जय हो ॥ ११ ॥ पत्थर और सुन्दर बिलौनोमे, साँप और मुक्ताकी मालामे, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टीके ढेलेमे, मित्र या शत्रुपक्षमे, तृण अथवा कमललोचना तरुणीमे, प्रजा और पृथ्वीके महाराजमे समान भाव रखता

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥  
 कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्  
 विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन् ।  
 विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः  
 शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥  
 इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं  
 पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् ।  
 हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं  
 विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥१४॥  
 पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं  
 यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।

हुआ मैं कब सदाशिवको भजूंगा ॥ १२ ॥ सुन्दर ललाटवाले भगवान् चन्द्रशेखरमे दत्तचित्त हो अपने कुविचारोंको त्यागकर गङ्गाजीके तटवर्ती निकुञ्जके भीतर रहता हुआ सिरपर हाथ जोड़ डबडबायी हुई विह्वल आँखोंसे 'शिव' मन्त्रका उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊँगा ? ॥ १३ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्रका नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्रीशंकरजीकी भक्ति प्राप्त कर लेता है, वह विरुद्धगतिको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि श्रीशिवजीका अच्छी प्रकार चिन्तन प्राणिवर्गके मोहका नाश करनेवाला है ॥ १४ ॥ सायंकालमे पूजा समाप्त होनेपर रावणके गाये हुए इस शम्भुपूजनसम्बन्धी स्तोत्रका जो पाठ करता है, शंकरजी उस

तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां  
लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१५॥

इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

## १५—श्रीरुद्राष्टकम्

नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं

विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं ।

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं

चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ १ ॥

निराकारमोकारमूलं तुरीयं

गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ।

करालं महाकाल कालं कृपालं

मनुष्यको रथ, हाथी, घोड़ोसे युक्त सदा स्थिर रहनेवाली अनुकूल सम्पत्ति देते हैं ॥ १५ ॥



हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निजस्वरूपमे स्थित ( अर्थात् मायादिरहित ), [ मायिक ] गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमे धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी आच्छादित करनेवाले ], आपको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ निराकार, ओङ्कारके मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोंसे परे, कैलाशपति, विकराल, महाकालके भी काल

गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २ ॥  
 तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं  
 मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरं ।  
 स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा  
 लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ ३ ॥  
 चलत्कुंडलं भ्रु सुनेत्रं विशालं  
 प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं ।  
 मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं  
 प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४ ॥  
 प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं  
 अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।  
 त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं

कृपालु, गुणोंके धाम, ससारसे परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥  
 जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों  
 कामदेवोंकी ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी  
 विराजमान हैं, जिनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित  
 हैं ॥ ३ ॥ जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भ्रुकुटी और विशाल  
 नेत्र है, जो प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और दयालु हैं, सिंहचर्मका वस्त्र धारण  
 किये और मुण्डमाला पहने है, उन सबके प्यारे और सबके  
 नाथ [ कल्याण करनेवाले ] श्रीशंकरजीको मैं भजता हूँ ॥ ४ ॥  
 प्रचण्ड ( रुद्ररूप ) श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा,  
 करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों ( दुःखों ) को

भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ ५ ॥  
 कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी  
 सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ।  
 चिदानन्द संदोह मोहापहारी  
 प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६ ॥  
 न यावद् उमानाथ पादारविन्दं  
 भजंतीह लोके परे वा नराणां ।  
 न तावत्सुखं शान्तिं सन्तापनाशं  
 प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥ ७ ॥  
 न जानामि योगं जपं नैव पूजां  
 नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं ।

निर्मूल करनेवाले, हाथमे त्रिशूल धारण किये हुए, भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशंकरजीको मैं भजता हूँ ॥ ५ ॥  
 कलाओसे परे, कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सञ्जनोको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले, कामदेवके शत्रु; हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥ जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहलोक और परलोकमे सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापोका नाश होता है । अतः हे समस्त जीवोंके अन्दर ( हृदयमें ) निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हूजिये ॥ ७ ॥ मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे शंभो ! मैं तो सदा-सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ ।

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं

प्रभो पाहि आपन्नमांसीश शंभो ॥ ८ ॥

श्लोक—रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥

इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ।

## १६—श्रीपशुपत्यष्टकम्

ध्यानम्

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंस

रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।

हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [ मृत्यु ] के दुःखसमूहोसे जलते हुए मुझ दुखीकी दुःखमे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

भगवान् रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि (प्रसन्नता) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया । जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढते हैं, उनपर भगवान् शम्भु प्रसन्न होते हैं ॥ ९ ॥

चाँदीके पर्वतसमान जिनकी श्वेत कान्ति है, जो सुन्दर चन्द्रमाको आभूषणरूपसे धारण करते हैं, रत्नमय अलङ्कारोसे जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथोमे परशु, मृग, वर और अमय हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्मके आसनपर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारो ओर खड़े होकर स्तुति

पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं  
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

## स्तोत्रम्

पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिम् ।  
प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ १ ॥  
न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिवलं कुलम् ।  
अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ २ ॥  
मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदम् ।  
प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ३ ॥

करते हैं, जो बाघकी खाल पहनते हैं, जो विश्वके आदि, जगत्की उत्पत्तिके बीज और समस्त भयोको हरनेवाले हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र है, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करे ।

अरे मनुष्यो ! जो समस्त प्राणियो, स्वर्ग, पृथ्वी और नागलोकके पति है, दक्षकन्या सतीके स्वामी हैं, शरणागत प्राणियो और भक्तजनोंकी पीड़ा दूर करनेवाले है, उन परमपुरुष पार्वती-वल्लभ शंकरजीको भजो ॥ १ ॥ ऐ मनुष्यो ! कालके वशमें पड़े हुए जीवको पिता, माता, भाई, बेटा, अत्यन्त बल और कुल—इनमेसे कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिये तुम गिरिजापतिको भजो ॥ २ ॥ रे मनुष्यो ! जो मृदङ्ग और डमरू बजानेमे निपुण हैं, मधुर पञ्चम स्वरके गानमें कुशल है, प्रमथ और भूतगण जिनकी सेवामे रहते है, उन गिरिजापतिको भजो ॥ ३ ॥

शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् ।  
 अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ४ ॥  
 नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् ।  
 चित्तिरजोधवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ५ ॥  
 मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजि फलप्रदम् ।  
 प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ६ ॥  
 मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितम् ।  
 जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ७ ॥  
 हरिविरञ्चिसुराधिपपूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम् ।

हे मनुष्यो ! 'शिव ! शिव ! शिव !' कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करता है, जो शरणागतोको शरण, सुख और अभय देनेवाले हैं, उन दयासागर गिरिजापतिका भजन करो ॥ ४ ॥ अरे मनुष्यो ! जो नरमुण्डरूपी मणियोंका कुण्डल और साँपोंका हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिताकी धूलिसे धूसर है, उन वृषभध्वज गिरिजापतिको भजो ॥ ५ ॥ रे मनुष्यो ! जिन्होंने दक्ष-यज्ञका विध्वंस किया था, जिनके मस्तकपर चन्द्रमा सुशोभित हैं, जो यज्ञ करनेवालोको सदा ही फल देनेवाले हैं और जो प्रलयकी अग्निमें देवता, दानव और मानवोंको दग्ध करनेवाले हैं, उन गिरिजापतिको भजो ॥ ६ ॥ अरे मनुष्यो ! जगत्को जन्म, जरा और मरणके भयसे पीड़ित, सामने उपस्थित भयसे व्याकुल देखकर बहुत दिनोंसे हृदयमें संचित मदका त्याग कर उन गिरिजापतिको भजो ॥ ७ ॥ रे मनुष्यो ! विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं; यम



त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ८ ॥

पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा ।

पठति संश्रुणुते मनुजः सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम् ॥ ९ ॥

इति श्रीपृथिवीपतिमूरिविरचितं श्रीपशुपत्यष्टकं सम्पूर्णम् ।

## १७—श्रीविश्वनाथाष्टकम्

गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं

गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् ।

नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥ १ ॥

वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं

और कुवेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवनके स्वामी हैं, उन गिरिजापतिको भजो ॥ ८ ॥ जो मनुष्य पृथ्वीपति सूरिके बनाये हुए इस अद्भुत पशुपति-अष्टकका सदा ही पाठ और श्रवण करता है, वह शिवपुरीमे निवास करता और आनन्दित होता है ॥ ९ ॥

जिनकी जटाएँ गङ्गाजीकी लहरोंसे सुन्दर प्रतीत होती हैं, जिनका वामभाग सदा पार्वतीजीसे सुशोभित रहता है, जो नारायणके प्रिय और कामदेवके मदका नाश करनेवाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथको भजो ॥ १ ॥ वाणीद्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक

वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् ।

वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् । वाराणसी० ॥ २ ॥

भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं

व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् ।

पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् । वाराणसी० ॥ ३ ॥

शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं

भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् ।

नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् । वाराणसी० ॥ ४ ॥

पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां

नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् ।

स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरणपादुकाका सेवन करते हैं, जो अपने सुन्दर वामाङ्गके द्वारा ही रुपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथको भज ॥ २ ॥ जो भूतोके अधिपति हैं, जिनका शरीर सर्परूपी गहनोंसे विभूषित है, जो बाघर्का खालका वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथोंमे पाश, अङ्कुश, अभय वर और शूल हैं; उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ३ ॥ जो चन्द्रमाद्वारा प्रकाशित किरीटसे शोभित हैं, जिन्होंने अपने भालस्थ नेत्रकी अग्निसे कामदेवको दग्ध कर दिया, जिनके कानोमे बड़े-बड़े साँपोके कुण्डल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ४ ॥ जो पापरूपी मतवाले हाथियोंके मारनेवाले सिंह हैं, दैत्यसमूहरूपी साँपोका नाश करनेवाले गरुड़ हैं तथा जो मरण

दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् । वाराणसी० ॥ ५ ॥

तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय-

मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् ।

नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् । वाराणसी० ॥ ६ ॥

रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं

वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् ।

माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामम् । वाराणसी० ॥ ७ ॥

आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां

पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ ।

आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशम् । वाराणसी० ॥ ८ ॥

शोक और बुढ़ापाखूपी भीषण वनके जलनेवाले दावानल हैं, ऐसे काशी-पति विश्वनाथको भज ॥ ५ ॥ जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्गुण, अद्वितीय, आनन्दकन्द, अपराजित और अतुलनीय हैं, जो अपने शरीरपर साँपोको धारण करते हैं, जिनका रूप हास-वृद्धिरहित है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ६ ॥ जो रागादि दोषोंसे रहित हैं, अपने भक्तोंपर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शान्तिके स्थान हैं, पार्वतीजी सदा जिनके साथ रहती हैं, जो धीरता और मधुर स्वभावसे सुन्दर जान पड़ते हैं, तथा जो कण्ठमें गरलके चिह्नसे सुशोभित हैं, उन काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ७ ॥ सब आशाओंको छोड़कर, दूसरोंकी निन्दा त्यागकर और पापकर्मसे अनुराग हटाकर, चित्तको समाधिमें लगाकर, हृदयकमलमें प्रकाशमान

वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य  
 व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः ।  
 विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं  
 सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् ॥ ९ ॥  
 विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।  
 शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ १० ॥

इति श्रीमहर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टक सम्पूर्णम् ।

परमेश्वर काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ८ ॥ जो मनुष्य काशीपति शिवके  
 इस आठ श्लोकोके स्तवनका पाठ करता है, वह विद्या, धन, प्रचुर सौख्य  
 और अनन्त कीर्ति प्राप्तकर देहावसान होनेपर मोक्ष भी प्राप्त कर  
 लेता है ॥ ९ ॥ जो शिवके समीप इस विश्वनाथाष्टकका पाठ करता है, वह  
 शिवलोक प्राप्त करता और शिवके साथ आनन्दित होता है ॥ १० ॥



# शक्तिस्तोत्राणि



## १८--ललितापञ्चकम्

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं  
 विम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् ।  
 आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं  
 मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम् ॥ १ ॥  
 प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं  
 रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् ।  
 माणिक्यहेमवलयान्नाङ्गदशोभमानां

मैं प्रातःकाल श्रीललितादेवीके' उस मनोहर मुखकमलका स्मरण करता हूँ, जिनके विम्ब-समान रक्तवर्ण अधर, विशाल मौक्तिक ( मोतीके बुलक ) से सुशोभित नासिका और कर्णपर्यन्त फैले हुए विस्तीर्ण नयन हैं, जो मणिमय कुण्डल और मन्द मुस्कानसे युक्त है तथा जिसका ललाट कस्तूरिकातिलकसे सुशोभित है ॥ १ ॥ मैं श्रीललितादेवीकी भुजारूपिणी कल्पलताका प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, जो लाल अँगूठीसे सुशोभित सुकोमल अङ्गुलिरूप पल्लवोवाली तथा रत्नखचित सुवर्णकङ्कण और

पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषुसृणीदधानाम् ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं  
भक्त्येष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् ।

पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं

पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् ॥ ३ ॥

प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं  
त्रयन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् ।

विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां

विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसादिदूराम् ॥ ४ ॥

प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम

कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति ।

अङ्गदादिसे भूषित हैं, एव जिसने पुण्ड्रईखके धनुष, पुष्पमय-त्राण और अङ्कुश धारण किये हैं ॥ २ ॥ मैं श्रीललितादेवीके चरणकमलोको, जो भक्तोको अभीष्ट फल देनेवाले और ससारसागरके लिये सुदृढ़ जहाजरूप हैं तथा कमलासन श्रीब्रह्माजी आदि देवेश्वरोसे पूजित और पद्म, अङ्कुश, ध्वज एव सुदर्शनादि मङ्गलमय चिह्नोसे युक्त हैं, प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ मैं प्रातःकाल परमकल्याणरूपिणी श्रीललिता भवानीकी स्तुति करता हूँ, जिनका वैभव वेदान्तवेद्य है, जो करुणामयी होनेसे शुद्धस्वरूपा हैं, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लयकी मुख्य हेतु हैं, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं तथा वेद, वाणी और मनकी गतिसे अति दूर हैं ॥ ४ ॥ हे ललिते ! मैं तेरे पुण्यनाम कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शाम्भवी, जगज्जनी, परा, वाग्देवी तथा

श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति  
 वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ५ ॥  
 यः श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः  
 सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते ।  
 तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना  
 विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् ॥ ६ ॥

इति श्रीमच्छंकराचार्यकृतं ललितापञ्चकं सम्पूर्णम् ।

## १६—मीनाक्षीपञ्चरत्नम्

उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां  
 विम्बोष्ठीं सितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालंकृताम् ।

त्रिपुरेश्वरी आदिका प्रातःकाल अपनी वाणीद्वारा उच्चारण करता हूँ ॥ ५ ॥  
 माता ललिताके अति सौभाग्यप्रद और सुललित इन पाँच श्लोकोंको जो  
 पुरुष प्रातःकाल पढ़ता है, उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर ललितादेवी विद्या,  
 धन, निर्मल सुख और अनन्त कीर्ति देती हैं ॥ ६ ॥

जो उदय होते हुए सहस्रकोटि सूर्योंके सदृश आभावाली हैं; केयूर  
 और हार आदि आभूषणोंसे भव्य प्रतीत होती हैं; विम्बाफलके समान  
 अरुण ओठोवाली हैं, मधुर मुसकानयुक्त दन्तावलिसे जो सुन्दरी मालूम

विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां  
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥१॥  
मृक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां  
शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम् ।  
सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेविताम् । मीनाक्षीं ० ॥२॥  
श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां हीङ्गारमन्त्रोज्ज्वलां  
श्रीचक्राङ्कितविन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम् ।  
श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमञ्जगन्मोहिनीम् । मीनाक्षीं ० ॥३॥

होती हैं तथा पीताम्बरसे अलङ्कृता हैं; ब्रह्मा, विष्णु आदि देवनायकोंसे सुसेवित चरणोंवाली उन तत्त्वस्वरूपिणी कल्याणकारिणी करुणावरुणालया श्रीमीनाक्षीदेवीका मैं निरन्तर वन्दन करता हूँ ॥ १ ॥ जो मोतीकी लड़ियोंसे सुशोभित मृकुट धारण किये सुन्दरी मालूम होती हैं, जिनके मुखकी प्रभा पूर्णचन्द्रके समान है, जो जनकारते हुए नूपुर (पायजेब), किङ्किणी (करधनी तथा अनेकों मणियाँ धारण किये हुए हैं, कमलकी-सी आभासे भासित होनेवाली, सबको अभीष्ट फल देनेवाली, सरस्वती और लक्ष्मी आदिसे सेविता उन गिरिराजनन्दिनी करुणावरुणालया श्रीमीनाक्षीदेवीका मैं निरन्तर वन्दन करता हूँ ॥ २ ॥ जो श्रीविद्या हैं, भगवान् शंकरके वामभागमें विराजमान हैं, 'ह्रीं' बीजमन्त्रसे सुशोभिता हैं, श्रीचक्राङ्कित विन्दुके मध्यमें निवास करती हैं, तथा देवसभाकी अभिनेत्री हैं, उन श्रीस्वामी कार्तिकेय और गणेशजीकी माता जगन्मोहिनी करुणावरुणालया श्रीमीनाक्षीदेवीका मैं निरन्तर वन्दन करता हूँ ॥ ३ ॥ जो अति सुन्दर स्वामिनी हैं, भयहारिणी



श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां  
 श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्थानुजाम् ।  
 वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकाम् । मीनाक्षीं ० ॥४॥  
 नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सुवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां  
 नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगलां नारायणेनार्चिताम् ।  
 नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकाम् । मीनाक्षीं ० ॥५॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं मीनाक्षीपञ्चरत्न सम्पूर्णम् ।

हैं, ज्ञानप्रदायिनी हैं, निर्मला और श्यामला हैं, कमलासन श्रीब्रह्माजीद्वारा  
 जिनके चरणकमल पूजे गये हैं; तथा श्रीनारायण ( कृष्णचन्द्र ) की  
 जो अनुजा ( छोटी वहन ) हैं; वीणा, वेणु, मृदङ्गादि वाद्योंकी रसिक  
 उन विचित्र लीलाविहारिणी करुणावरुणालया भीमीनाक्षीदेवीका मैं  
 निरन्तर वन्दन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो अनेकों योगिजन और मुनीश्वरोंके  
 हृदयमे निवास करनेवाली तथा नाना प्रकारके पदार्थोंकी प्राप्ति कराने-  
 वाली हैं, जिनके चरण-युगल विचित्र पुष्पोंसे सुशोभित हो रहे हैं, जो  
 श्रीनागयणसे पूजिता हैं तथा जो नादब्रह्ममयी, परसे भी परे और नाना  
 पदार्थोंकी तत्त्वस्वरूपा हैं, उन करुणावरुणालया श्रीमीनाक्षीदेवीका मैं  
 निरन्तर वन्दन करता हूँ ॥ ५ ॥

२०—देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो  
 न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः ।  
 न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं  
 परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥  
 विघ्नैरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया  
 विघ्नेयाशक्यत्वात्तत्र चरणयोर्या च्युतिरभूत् ।  
 तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे  
 कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥  
 पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः  
 परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तत्र सुतः ।

हे मातः ! मैं तुम्हारा मन्त्र, यन्त्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुतिकथा, मुद्रा तथा विलाप कुछ भी नहीं जानता; परंतु सब प्रकारके क्लेशोंको दूर करनेवाला आपका अनुसरण करना ( पीछे चलना ) ही जानता हूँ ॥ १ ॥ सबका उद्धार करनेवाली हे कल्याणमयी माता ! तुम्हारी पूजाकी विधि न जाननेके कारण, धनके अभावमें, आलस्यसे और उन विधियोंको अच्छी तरह न कर सकनेके कारण, तुम्हारे चरणोंकी सेवा करनेमें जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो; क्योंकि पूत तो कुपूत हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती ॥ २ ॥ मा ! भूमण्डलमें तुम्हारे सरल पुत्र अनेक हैं, पर उनमें एक मैं विरला ही बड़ा चञ्चल हूँ, तो भी हे शिवे ! मुझे

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे  
 कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३ ॥  
 जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता  
 न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ।  
 तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे  
 कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ॥  
 परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया  
 मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि ।  
 इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता  
 निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ५ ॥  
 श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा  
 निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः ।

त्याग देना तुम्हें उचित नहीं, क्योंकि पूत तो कुपूत हो जाता है, पर  
 माता कुमाता नहीं होती ॥ ३ ॥ हे जगदम्ब ! मातः ! मैंने तुम्हारे  
 चरणोंकी सेवा नहीं की अथवा तुम्हारे लिये प्रचुर धन भी समर्पण  
 नहीं किया; तो भी मेरे ऊपर यदि तुम ऐसा अनुपम स्नेह रखती हो  
 तो यह सच ही है कि पूत तो कुपूत हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं  
 होती ॥ ४ ॥ हे गणेशजननि ! मैंने अपनी पचासी वर्षसे अधिक आयु  
 बीत जानेपर विविध विधियोंद्वारा पूजा करनेसे घबड़ाकर सब देवोंको  
 छोड़ दिया है, यदि इस समय तुम्हारी कृपा न हो तो मैं निराधार होकर  
 किसकी शरणमें जाऊँ ! ॥ ५ ॥ हे माता अपर्णे ! यदि तुम्हारे मन्त्राक्षरोंके

तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं  
 जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥  
 चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो  
 जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ।  
 कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं  
 भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥ ७ ॥  
 न मोक्षस्याकाङ्क्षं भवविभववाञ्छापि च न मे  
 न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः ।  
 अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै  
 मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥

कानमे पड़ते ही चाण्डाल भी मिठाईके समान सुमधुर वाणीसे युक्त बड़ा भारी  
 वक्ता बन जाता है और महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकालतक  
 निर्भय विचरता है, तो उसके जपका अनुष्ठान करनेपर जपनेसे जो फल  
 होता है, उसे कौन जान सकता है ? ॥ ६ ॥ जो चिताका भस्म रमाये हैं, बिप  
 खाते हैं, नंगे रहते हैं, जटाजूट बाँधे हैं, गलेमें सर्पमाला पहने हैं, हाथमें  
 खप्पर लिये हैं, पशुपति और भूतोंके स्वामी हैं, ऐसे शिवजीने भी जो  
 एकमात्र जगदीश्वरकी पदवी प्राप्त की है, वह हे भवानि ! तुम्हारे साथ  
 विवाह होनेका ही फल है ॥ ७ ॥ हे चन्द्रमुखी माता ! मुझे मोक्षकी इच्छा  
 नहीं है, सासारिक वैभवकी भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुखकी भी  
 अभिलाषा नहीं है इसलिये मैं तुमसे यही माँगता हूँ कि मेरी सारी आयु  
 मृडानी, रुद्राणी, शिव-शिव, भवानी आदि नामोंके जपते-जपते ही बीते ॥ ८ ॥

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः

किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः ।

श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ९ ॥

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं

करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ।

नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः

क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥१०॥

जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि ।

अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥११॥

मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ।

हे श्यामे ! मैंने अनेकों उपचारोंसे तुम्हारी सेवा नहीं की ( यही नहीं, इसके विपरीत ) अनिष्ट-चिन्तनमे तत्पर अपने वचनोंसे मैंने क्या नहीं किया ! ( अर्थात् अनेको बुराइयाँ की हैं ) फिर भी मुझ अनाथपर यदि तुम कुछ भी कृपा रखती हो तो यह तुम्हे बहुत ही उचित है, क्योंकि तुम मेरी माता हो ॥ ९ ॥ हे दुर्गे ! हे दयासागर महेश्वरी ! जब मैं किसी विपत्तिमे पड़ता हूँ तो तुम्हारा ही स्मरण करता हूँ, इसे तुम मेरी दुष्टता मत समझना; क्योंकि भूखे-प्यासे बालक अपनी माँको ही याद किया करते हैं ॥ १० ॥ हे जगज्जननी ! मुझपर तुम्हारी पूर्ण कृपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? क्योंकि अनेक अपराधोंसे युक्त पुत्रको भी माता त्याग नहीं देती ॥ ११ ॥ हे महादेवि ! मेरे समान

एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुरु ॥१२॥



२१—भवान्यष्टकम्

न तातो न माता न बन्धुर्न दाता

न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता ।

न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव

गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ १ ॥

भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः

पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः ।

कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम् । गतिस्त्वं० ॥ २ ॥

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं

कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप नाश करनेवाली नहीं है, यह जानकर जैसा उचित समझो, करो ॥ १२ ॥



हे भवानि ! पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति—इनमेसे कोई भी मेरा नहीं है, हे देवि ! एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥ १ ॥ मैं अपार भवसागरमे पड़ा हुआ हूँ, महान् दुःखोंसे भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा घृणायोग्य ससारके बन्धनोमे बँधा हुआ हूँ; हे भवानि ! अब एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥ २ ॥ हे देवि ! मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानमार्गका ही मुझे पता है,

न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् ।

न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् । गतिस्त्वं० ॥ ३ ॥

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं

न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् ।

न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं० ॥ ४ ॥

कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः

कुलाचारहीनः कदाचारलीनः ।

कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहम् । गतिस्त्वं० ॥ ५ ॥

प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं

दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् ।

न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये । गतिस्त्वं० ॥ ६ ॥

तन्त्र और स्तोत्र-मन्त्रोका भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदिकी क्रियाओसे तो मैं एकदम कोरा हूँ, अब एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥३॥ न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, न मुक्तिका पता है न लयका । हे मातः ! भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है, हे भवानि ! अब केवल तुम्हीं मेरा सहारा हो ॥ ४ ॥ मैं कुकर्मी, बुरी संगतिमे रहनेवाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित सदाचारसे हीन, दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि रखनेवाला और सदा दुर्वचन बोलनेवाला हूँ, हे भवानि ! मुझ अधमकी एकमात्र तुम्हीं गति हो ॥ ५ ॥ मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य किसी भी देवताको नहीं जानता, हे शरण देनेवाली भवानि ! एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥६॥

विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे

जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये ।


अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि । गतिस्त्वं० ॥७॥

अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो

महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः ।

विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम् । गतिस्त्वं० ॥८॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत भवान्यष्टकं सम्पूर्णम् ।



## २२—आनन्दलहरी

भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्न वदनैः

प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि ।

हे शरण्ये ! तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओके मध्यमें सदा ही मेरी रक्षा करो । हे भवानि ! एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥ ७ ॥ हे भवानि ! मैं सदासे ही अनाथ, दरिद्र, जरा-जीर्ण, रोगी, अत्यन्त दुर्बल, दीन, गूंगा, विपद्ग्रस्त और नष्ट हूँ, अब तुम्हीं एकमात्र मेरी गति हो ॥ ८ ॥



हे भवानि ! प्रजापति ब्रह्माजी अपने चार मुखोंसे भी तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, त्रिपुरविनाशक महादेवजी पाँच मुखोंसे भी तुम्हारा स्तवन नहीं कर सकते, कार्तिकेयजी तो छः मुखोंके रहते हुए भी



न पद्भिः सेनानीर्दशशतमुखैरप्यहिपति-

स्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः ॥ १ ॥

घृतक्षीरद्राक्षामधुमधुरिमा कैरपि पदै-

र्विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः ।

तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृग्मात्रविषयः

कथङ्कारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरगुणे ॥ २ ॥

मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला

ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता ।

स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी

असमर्थ हैं, इन इने-गिने मुखवालोंकी तो बात ही क्या है, नागराज शेष हजार मुन्त्रोंसे भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते, फिर तुम्हीं बताओ, जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसीको और किस प्रकार तुम्हारी स्तुतिका अवसर प्राप्त हो सकता है ? ॥ १ ॥ घी, दूध, दाख और मधुकी मधुरताको किसी भी शब्दसे विशेषरूपसे नहीं बताया जा सकता, उसे तो केवल रसना ( जिह्वा ) ही जानती है । इसी प्रकार तुम्हारा सौन्दर्य केवल महादेवजीके नेत्रोंका ही विषय है, उसे हम क्योंकर बतावें ? हे देवि ! तुम्हारे गुणोंका वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते ॥ २ ॥ तुम्हारे मुखमें पान है, नेत्रोंमें काजलकी रेखा है, ललाटेमें केशरकी वेंदी है, गलेमें मोतीका हार सुशोभित हो रहा है, कटिके निम्नभागमें सुनहली साड़ी है, जिसपर रत्नमयी मेखला ( करधनी ) चमक रही है, ऐसी वेष-भूषासे सजी हुई गिरिराज हिमालयकी गौरवर्णा कन्या तुमको मैं सदा ही

भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिश्नोरीमविरतम् ॥ ३ ॥

विराजन्मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी

नदद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा ।

नताङ्गी मातङ्गीरुचिरगतिभङ्गी भगवती

सती शम्भोरम्भोरुहचटुलचक्षुर्विजयते ॥ ४ ॥

नवीनार्कभ्राजन्मणिकनकभूषापरिकरै-

वृताङ्गी सारङ्गीरुचिरनयनाङ्गीकृतशिवा ।

तडित्पीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा

मेमापर्णा पूर्णा निरवधिसुखैरस्तु सुमृखी ॥ ५ ॥

भजता हूँ ॥ ३ ॥ जहाँ पारिजात-पुष्पकी माला सुशोभित हो रही है, उन उरोजोके समीप बजती हुई वीणाका मधुर नाद श्रवण करने हुए जिनके कानोमे कुण्डल शोभा पा रहे हैं, जिनका अङ्ग झुका हुआ है, हथिनीकी भाँति जिनकी मन्द-मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर और चञ्चल हैं, वे शम्भुकी सती भाया भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो रही है ॥ ४ ॥ जिनका अङ्ग नवोदित बाल-रविके समान देदीप्यमान मणि और सोनेके आभूषणोसे अलङ्कृत है, मृगीके समान जिनके विशाल एव सुन्दर नेत्र हैं, जिन्होंने शिवको पतिरूपसे स्वीकार किया है, विजलीके समान जिनकी पीत प्रभा है, जो पीत वस्त्रकी प्रभा पड़नेसे और अधिक सुन्दर प्रतीत होनेवाले मञ्जीरको चरणोमे धारण करके सुशोभित हो रही हैं वे निरतिशय आनन्दसे पूर्ण भगवती अपर्णा सुम्रपर सुप्रसन्न हो ॥ ५ ॥

हिमाद्रेः संभूता सुललितकरैः पल्लवयुता

सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकभरैः ।

कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता झक्तिसरसा

रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका ॥ ६ ॥

सपर्णांमाकीर्णां कृतिपयगुणैः सादरमिह

श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति ।

अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः

पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥७॥

विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नायजननी

समस्त रोगोको नष्ट करनेवाली एक चलती-फिरती चिदानन्दमयी लता ( उमा ) सुशोभित हो रही है, वह हिमालयसे उत्पन्न हुई है, सुन्दर हाथ ही उसके पल्लव हैं, मुक्ताका हार ही सुन्दर फल है, काली-काली अलके भ्रमरोकी भाँति उसे आच्छन्न किये हुई हैं, स्थाणु ( शकरजी अथवा ठूठ वृक्ष ) ही उसके रहनेका आश्रय है, उरोजरूपी फलके भारसे वह झुकी हुई है और सुन्दर वाणीरूपी रससे भरी है ॥ ६ ॥ दूसरे लोग कुछ ही गुणोंसे युक्त सर्पणा ( पत्तेवाली ) लताका आदरपूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत्मे सभी लोगोको एकमात्र अपर्णा ( पार्वती या विना पत्तेकी लता ) का ही सेवन करना चाहिये, जिससे आवृत होकर पुराना स्थाणु ( ठूठ वृक्ष अथवा शिव ) भी कैवल्यपदवी ( मोक्ष ) रूप फल देता है ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण धर्मोंकी सृष्टि करनेवाली और समस्त आगमोंको जन्म देनेवाली तुम्हीं हो । हे देवि ! कुबेर भी तुम्हारे

त्वमर्थानां मूलं धनदनमनीयाङ्घ्रिकमले ।  
 त्वमादिः कामानां जननि कृतकल्दर्पविजये  
 सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि परमब्रह्ममहिषी ॥ ८ ॥  
 प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोलमनस-  
 स्त्वयातु श्रीमत्या सद्यमवलोक्योऽहमधुना ।  
 पयोदः पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे  
 भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः ॥ ९ ॥  
 कृपापाङ्गालोकं वितर तरसा साधुचरिते  
 न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते ।  
 न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका

चरणोकी वन्दना करते हैं, तुम्हीं समस्त वैभवका मूल हो । हे कामदेवपर  
 विजय पानेवाली मा ! कामनाओंकी आदि कारण भी तुम्हीं हो । तुम  
 परब्रह्मस्वरूप महेश्वरकी पटरानी हो । अतः तुम्हीं संतोंके मोक्षका बीज  
 हो ॥ ८ ॥ मेरा मन चञ्चल है, इसलिये यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति  
 नहीं की है तथापि आप श्रीमतीको इस समय मुझपर अवश्य ही दया-दृष्टि  
 करनी चाहिये । चातक चाहे प्रेम करे या न करे, पर मेघ तो उसके मुखमें  
 मधुर जल गिरता ही है अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन  
 विधियोसे आपमे अनुनीत हो, आपकी ओर लगे ॥ ९ ॥ हे साधु-चरित्रोंवाली  
 मा ! तुम बहुत शीघ्र अपनी कृपाकटाक्षयुक्त दृष्टिसे मुझे निहारो । मैं तुम्हारी  
 शरणकी दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है । यदि

विशेषः सामान्यैः कथमितरवल्लीपरिकरैः ॥१०॥

महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे

निधायान्यन्नैवाश्रितमिह मया दैवतमुमे ।

तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सद्यं

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥११॥

वयः स्पर्शं लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं

यथा रथ्यापाथः शुचि भवति गङ्गावमिलितम् ।

तथा तत्तत्पापैरतिमलिनमन्तर्मम यदि

त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् ॥१२॥

त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफललाभे न नियम-

स्त्वमर्थानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे ।

कल्पलता पग-पगपर अभीष्ट कामनाओकी पूर्ति न कर सके तो अन्य साधारण रत्नाओसे उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है ? ॥ १० ॥ हे लम्बोदर गणेशको जन्म देनेवाली उमे ! मैंने तुम्हारे युगल चरणारविन्दोंमें बहुत बड़ा विश्वास रखकर किसी अन्य देवताका आश्रय नहीं लिया, तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझपर सद्य न हो तो अब मैं किसकी शरण जाऊँगा ? ॥ ११ ॥ जिस प्रकार लोहा पारससे छू जानेपर तत्काल सोना बन जाता है और गलियों [ के नाले ] का जल गङ्गाजीमें पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पापोंसे मलिन हुआ मेरा अन्तःकरण यदि प्रेमपूर्वक तुममें आसक्त हो गया तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा ? ॥ १२ ॥ हे ईशानी ! तुमसे अन्य किसी देवतासे मनोवाञ्छित फल प्राप्त हो ही जाय,

इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मन-

स्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरु तत् ॥१३॥

स्फुरन्नानारत्नस्फटिकमयभित्तिप्रतिफल-

त्वदाकारं चञ्चच्छशधरकलासौधशिखरम् ।

मुकुन्दब्रह्मेन्द्रप्रभृतिपरिवारं विजयते

तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणी ॥१४॥

निवासः कैलासे विधिशतमखाद्याःस्तुतिकराः

कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः ।

महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये

ऐसा नियम नहीं है, परतु तुम तो पुरुषोको उनकी इच्छासे अधिक वस्तु भी देनेमें समर्थ हो—इस प्रकार ब्रह्मादि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं । इसलिये अब मेरा मन रात-दिन तुमसे ही लगा रहता है, अब तुम जो उचित समझो करो ॥ १३ ॥ हे त्रिभुवनमहाराज शिवकी गृहिणी शिवे ! जहाँ नाना प्रकारके रत्न और स्फटिकमणिकी भीतपर तुम्हारा आकार प्रतिबिम्बित हो रहा है, जिसकी अट्टालिकाके शिखरपर प्रतिबिम्बित होकर चन्द्रमाकी कला सुशोभित हो रही है, विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवता जिसे घेरकर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है ॥ १४ ॥ हे गिरिराजनन्दिनि ! तुम्हारा कैलासमे निवास है, ब्रह्मा और इन्द्र आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैं, समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुम्ब है, आठों सिद्धियोका समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ हैं, तुम्हारे सौभाग्यकी कहीं अल्प भी तुलना नहीं

न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना ॥१५॥  
 वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं  
 श्मशानं क्रीडाभूर्भुजगनिब्रह्मो भूषणविधिः ।  
 समग्रा सामग्री जगति विदितैवं स्मररिपो-  
 र्यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥१६॥  
 अशेषब्रह्माण्डप्रलयविधिनैसर्गिकमतिः  
 श्मशानेष्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः ।  
 दधौ कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया  
 भवत्याः संगत्याः फलमिति च कल्याणि कलये ॥१७॥  
 त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया  
 भियैवासीद्भङ्गा जलमयतनुः शैलतनये ।

हो सकती ॥ १५ ॥ हे जननि ! कामारि शिवका बूढ़ा बैल ही वाहन है, विष ही भोजन है, दिशाएँ ही वस्त्र हैं, श्मशान ही रङ्गभूमि है और सौंप ही आभूषणका काम देते हैं, उनकी यह सारी सामग्री संसारमें प्रसिद्ध ही है, फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है, वह तुम्हारे ही सौभाग्यकी महिमा है ॥ १६ ॥ हे कल्याणि ! जिनकी बुद्धि स्वभावतः समस्त ब्रह्माण्डका संहार करनेमें ही प्रवृत्त होती है, जो अङ्गोंमें राख पोतकर श्मशानमें बैठे रहते हैं, [ ऐसे निडुर स्वभाववाले ] पशुपतिने जो समस्त भूमण्डलपर दया करके कण्ठमें हालाहल विष धारण कर लिया, उसे मैं आपके सत्संगका ही फल समझता हूँ ॥ १७ ॥ हे शैलनन्दिनि ! आपके सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्यको देखकर अत्यन्त

तदेतस्यास्तस्माद्बदनकमलं वीक्ष्य कृपया  
 प्रतिष्ठामातन्वन्निजशिरसिवासेन गिरिञ्चः ॥१८॥  
 विशालश्रीखण्डद्रवमृगमदाकीर्णघुसृण-  
 प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलम् ।  
 समादाय स्रष्टा चलितपदपांसूनिजकरैः  
 समाधत्ते सृष्टिं विबुधपुरपंकेरुहदृशाम् ॥१९॥  
 वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते  
 स्फुरन्नानापद्मे सरसि कलहंसारिसुभगे ।  
 सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले  
 सरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति ॥२०॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता आनन्दलहरी सम्पूर्णा ।

भयके कारण ही गङ्गाजीने जलमय शरीर धारण कर लिया, इससे गङ्गाजीके दीन मुखकमलको देखकर दयावश शंकरजी उन्हें अपने सिरपर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं ॥ १८ ॥ हे भगवती ! जिसमें विशाल चन्दनके रस, कस्तूरी और केसरके फूल मिले हुए हैं ऐसे तुम्हारे अनुलेपनके जलको और चलते हुए तुम्हारे चरणोंकी धूलिको ही लेकर ब्रह्माजी सुरपुरकी कमलनयनी वनिताओं ( अप्सराओं ) की सृष्टि करते हैं ॥ १९ ॥ हे देवि । वसन्त-ऋतुमें खिली हुई लताओसे मण्डित, नाना कमलोंसे सुशोभित एवं हंसोंकी मण्डलीसे अलंकृत सरोवरके भीतर जहाँका जल मलयानिलसे आन्दोलित हो रहा है, [ उसमें ] सखियोंके साथ क्रीडा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है, उसकी ज्वर-रोगजनित पीडा दूर हो जाती है ॥ २० ॥



## २३—श्रीभगवतीस्तोत्रम्

जय भगवति देवि नमो वरदे, जय पापविनाशिनि बहुफलदे ।

जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे, प्रणमामि तु देवि नरातिं हरे ॥ १ ॥

जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे, जय पावकभूषितवक्त्रधरे ।

जय भैरवदेहनिलीनधरे, जय अन्धकदैत्यविशोषकरे ॥ २ ॥

जय महिषविमर्दिनि शूलकरे, जय लोकसमस्तकपापहरे ।

जय देवि पितामहविष्णुनते, जय भास्करशक्रशिरोऽवनते ॥ ३ ॥

जय पण्मुखसायुधैश्चनुते, जय सागरगामिनि शम्भुनुते ।

हे वरदायिनी देवि ! हे भगवती ! तुम्हारी जय हो । हे पापोंको नष्ट करने-  
वाली और अनन्त फल देनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । हे शुम्भ-निशुम्भ-  
के मुण्डोंको धारण करनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो ! हे मनुष्योंकी पीड़ा  
हरनेवाली देवि ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ हे सूर्य-चन्द्रमारूपी नेत्रों-  
को धारण करनेवाली ! तुम्हारी जय हो ! हे अग्निके समान देदीप्यमान  
मुखसे शोभित होनेवाली ! तुम्हारी जय हो ! हे भैरव-शरीरमे लीन रहने-  
वाली और अन्धकासुरका शोषण करनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो, जय  
हो ॥ २ ॥ हे महिषासुरका मर्दन करनेवाली, शूलधारिणी और लोकके  
समस्त पापोंको दूर करनेवाली भगवती ! तुम्हारी जय हो ! ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य  
और इन्द्रसे नमस्कृत होनेवाली भगवती ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ॥ ३ ॥  
सद्यस्त्र शंकर और कार्तिकेयजीके द्वारा वन्दित होनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो ।  
शिवके द्वारा प्रशंसित एवं सागरमें मिलनेवाली गङ्गारूपिणी देवि ! तुम्हारी  
जय हो । दुःख और दरिद्रताका नाश तथा पुत्र-कलत्रकी वृद्धि करनेवाली

जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे ॥ ४ ॥

जय देवि समस्तशरीरधरे, जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे ।

जय व्याधिविनाशिनि मोक्षकरे, जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिवरे ५

एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचिः ।

गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा ॥ ६ ॥

इति व्यासकृतं श्रीभगवतीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।




## २४—महालक्ष्म्यष्टकम्

इन्द्र उवाच

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।

हे देवि ! तुम्हारी जय हो, जय हो ॥ ४ ॥ हे देवि ! तुम्हारी जय हो । तुम समस्त शरीरको धारण करनेवाली, स्वर्गलोकका दर्शन करनेवाली और दुःखहारिणी हो । हे व्याधिविनाशिनी देवि ! तुम्हारी जय हो । मोक्ष तुम्हारे करतलगत है, हे मनोवाञ्छित फल देनेवाली अष्ट सिद्धियोंसे सम्पन्न परा देवि ! तुम्हारी जय हो ॥ ५ ॥ जो कहीं भी रहकर पवित्र भावसे नियमपूर्वक इस व्यासकृत स्तोत्रका पाठ करता है अथवा शुद्धभावसे घर-पर ही पाठ करता है, उसके ऊपर भगवती सदा ही प्रसन्न रहती हैं ॥ ६ ॥



इन्द्र बोले—श्रीपीठपर स्थित और देवताओंसे पूजित होनेवाली हे महामाये ! तुम्हे नमस्कार है । हाथमें शङ्ख, चक्र और गदा धारण

शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥  
 नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।  
 सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥  
 सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।  
 सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥  
 सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।  
 मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥  
 आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।  
 योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥  
 स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।  
 महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥

करनेवाली हे महालक्ष्मि ! तुम्हे प्रणाम है ॥ १ ॥ गरुड़पर आरूढ हो कोलासुरको  
 भय देनेवाली और समस्त पापोंको हरनेवाली हे भगवती महालक्ष्मि !  
 तुम्हे प्रणाम है ॥ २ ॥ सब कुछ जाननेवाली, सबको वर देनेवाली, समस्त  
 दुष्टोंको भय देनेवाली और सबके दुःखोंको दूर करनेवाली, हे देवि,  
 महालक्ष्मी ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ३ ॥ सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने-  
 वाली हे मन्त्रपूत भगवति महालक्ष्मि ! तुम्हे सदा प्रणाम है ॥ ४ ॥ हे  
 देवि ! हे आदि-अन्तरहित आदिशक्ते ! हे महेश्वरि ! हे योगसे प्रकट हुई  
 भगवति महालक्ष्मि ! तुम्हे नमस्कार है ॥ ५ ॥ हे देवि ! तुम स्थूल, सूक्ष्म  
 एवं महारौद्ररूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े-बड़े पापोंका  
 नाश करनेवाली हो । हे देवि ! महालक्ष्मि ! तुम्हे नमस्कार है ॥ ६ ॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।  
 परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥  
 श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।  
 जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥  
 महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्तरः ।  
 सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥ ९ ॥  
 एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।  
 द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ १० ॥  
 त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।  
 महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥ ११ ॥

इतीन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं सम्पूर्णम् ।

हे कमलके आसनपर विराजमान परब्रह्मस्वरूपिणि देवि ! हे परमेश्वरि ! हे  
 जगदम्ब ! हे महालक्ष्मि ! तुम्हे मेरा प्रणाम है ॥ ७ ॥ हे देवि ! तुम श्वेत  
 वस्त्र धारण करनेवाली और नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषिता हो ! सम्पूर्ण  
 जगत्में व्याप्त एव अखिल लोकको जन्म देनेवाली हो । हे महालक्ष्मि ! तुम्हें  
 मेरा प्रणाम है ॥ ८ ॥ जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस महालक्ष्म्यष्टक  
 स्तोत्रका सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्यवैभवको प्राप्त कर  
 सकता है ॥ ९ ॥ जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े  
 पापोंका नाश हो जाता है । जो दो समय पाठ करता है, वह धन-धान्यसे  
 सम्पन्न होता है ॥ १० ॥ जो प्रतिदिन तीन काल पाठ करता है, उसके महान्  
 शत्रुओंका नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी  
 महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं ॥ ११ ॥

## २५—श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्

या कुन्देन्दुतुपारहारध्वला या शुभ्रवस्त्रावृता  
 या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।  
 या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता  
 सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १ ॥

आशासु राशीभवदङ्गचल्ली

भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम् ।

मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं

वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि त्वाम् ॥ २ ॥

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे ।

सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् ॥ ३ ॥

जो कुन्दके फूल, चन्द्रमा, वर्ष और हारके समान श्वेत हैं, जो शुभ्र कपडे पहनती हैं, जिनके हाथ उचम वीणासे सुशोभित हैं, जो श्वेत कमलासनपर बैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकारकी जड़ता हर लेती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करें ॥ १ ॥ हे कमलपर बैठनेवाली सुन्दरी सरस्वति! तुम सब दिशाओंमें पुञ्जीभूत हुई, अपनी देहलताकी आभासे ही क्षीर-समुद्रको दास बनानेवाली और मन्द मुसकानसे शरद्-ऋतुके चन्द्रमाको तिरस्कृत करनेवाली हो, तुमको मैं प्रगाम करता हूँ ॥ २ ॥ शरत्कालमें उत्पन्न कमलके समान मुखवाली और सब मनोरथोंको देनेवाली शारदा सब सम्पत्तियोंके साथ मेरे मुक्तमें सदा निवास करें ॥ ३ ॥ उन वचनकी

सरस्वतीं च तां नौमि वाग्धिष्ठातृदेवताम् ।  
 देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः ॥ ४ ॥  
 पातु नो निकषग्रावा मतिहेमनः सरस्वती ।  
 प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या ॥ ५ ॥  
 शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं  
 वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाडयान्धकारापहाम् ।  
 हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां  
 वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॥ ६ ॥  
 वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले

भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चिहरीशवन्द्ये ।

अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपासे मनुष्य देवता बन जाता है ॥ ४ ॥ बुद्धिरूपी सोनेके लिये कसौटीके समान सरस्वतीजी, जो केवल वचनसे ही विद्वान् और मूर्खोंकी परीक्षा कर देती हैं, हमलोगोंका पालन करें ॥ ५ ॥ जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म-विचारकी परम तत्त्व हैं, जो सब संसारमें फँस रही हैं, जो हाथोंमें वीणा और पुस्तक धारण किये रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खतारूपी अन्धकारको दूर करती हैं, हाथमें स्फटिकमणिकी माला लिये रहती हैं, कमलके आसनपर विराजमान होती हैं और बुद्धि देनेवाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वतीकी वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ हे वीणा धारण करनेवाली, अपार मङ्गल देनेवाली, भक्तोंके दुःख छुड़ानेवाली, ब्रह्मा, विष्णु और शिवसे वन्दित होनेवाली, कीर्ति तथा मनोरथ देनेवाली,

कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महाहै  
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥ ७ ॥

श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे  
श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुक्षेत्रे ।

उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये  
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥ ८ ॥

मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता  
ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय ।  
ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण  
भूवह्निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ॥ ९ ॥

मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये  
मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे ।

पूज्यवरा और विद्या देनेवाली सरस्वति ! तुमको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ हे श्वेत कमलोंसे भरे हुए निर्मल आसनपर विराजनेवाली, श्वेत वस्त्रोंसे ढके सुन्दर शरीरवाली, खिले हुए सुन्दर श्वेत कमलके समान मञ्जुल मुखवाली और विद्या देनेवाली सरस्वति ! तुमको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ हे मातः ! जो मनुष्य तुम्हारे चरण-कमलोंमें भक्ति रखकर और सब देवताओंको छोड़कर तुम्हारा भजन करते हैं, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल—इन पाँच तत्त्वोंके बने शरीरसे ही देवता बन जाते हैं ॥ ९ ॥ हे उदार बुद्धिवाली मा ! मोह-रूपी अन्धकारसे भरे मेरे हृदयमें सदा निवास करो और अपने सब अङ्गों-

स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः

शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ॥१०॥

ब्रह्मा जगत् सृजति पालयतीन्द्रेशः

शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः ।

न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे

न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः ॥११॥

लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः ।

एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति ॥१२॥

सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः ।

वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च ॥१३॥

सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने ।

की निर्मल कान्तिसे मेरे मनके अन्धकारका शीघ्र नाश करो ॥ १० ॥  
हे देवि ! तुम्हारे ही प्रभावसे ब्रह्मा जगत्को बनाते हैं, विष्णु पालते हैं  
और शिव विनाश करते हैं; हे प्रकट प्रभाववाली ! यदि इन तीनोंपर  
तुम्हारी कृपा न हो तो वे किसी प्रकार अपना काम नहीं कर सकते  
॥ ११ ॥ हे सरस्वती ! लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति—  
इन आठ मूर्तियोंसे मेरी रक्षा करो ॥ १२ ॥ सरस्वतीको नित्य नमस्कार  
है, भद्रकालीको नमस्कार है और वेद, वेदान्त, वेदाङ्ग तथा विद्याओंके  
स्थानोंको प्रणाम है ॥ १३ ॥ हे महाभाग्यवती ज्ञानस्वरूपा कमलके  
समान विशाल नेत्रवाली ! ज्ञानदात्री सरस्वती ! मुझको विद्या दो, मैं तुमको



विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते ॥१४॥

यदक्षरं पदं अष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥१५॥

इति भीसरस्वनीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

## २६—देव्या आरात्रिकम्

प्रवरातीरनिवासिनि निगमप्रतिपाद्ये

पारावारविहारिणि नारायणि हृद्ये ।

प्रपञ्चसारे जगदाधारे श्रीविद्ये

प्रपन्नपालननिरते मुनिवृन्दाराध्ये ॥ १ ॥

जय देवि जय देवि जय मोहनरूपे ।

प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥ हे देवि । जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गयी हो, उसके लिये क्षमा करो और हे परमेश्वरि । प्रसन्न रहो ॥ १५ ॥

हे प्रवरानदीतीरवासिनी, वेदोंसे प्रतिपादित, क्षीरसागरविहारिणी, नारायणप्रिया, मनोहारिणी, संसारकी सार और आवाररूपिणी, लक्ष्मी और विद्यास्वरूपिणी, गरणागतकी रक्षामे नम्पर, मुनिगणोंसे आराधित हे देवि ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! हे मनोहर रूपवाली । तुम्हारी जय हो ! हे मातः ! इस संसारकूपमें पड़े हुए मेरा उद्धार करो ॥ १ ॥ पूर्णचन्द्रके

मामिह जननि समुद्धर पतितं भवकूपे । ध्रुवपदम् ॥

दिव्यसुधाकरवदने कुन्दोज्ज्वलरदने

पदनखनिर्जितमदने मधुकैटभकदने ।

विकसितपङ्कजनयने पन्नगपतिशयने

खगपतिवहने गहने संकटवनदहने ॥ जय देवि० ॥ २ ॥

मञ्जीराङ्कितचरणे मणिमुक्ताभरणे

कञ्चुकिवस्त्रावरणे वक्त्राम्बुजधरणे ।

शक्रामयभयहरणे भूसुरसुखकरणे

करुणां कुरु मे शरणे गजनक्रोद्धरणे ॥ जय देवि० ॥ ३ ॥

समान दिव्य मुखवाली कुन्दपुष्पके-से स्वच्छ दाँतोवाली, अपने पैरोंकी नख-ज्योतिसे मदनको पराजित करनेवाली, मधुकैटभका सहार करनेवाली, प्रफुल्लित कमल-समान नेत्रोवाली, शेषशायिनी, गरुड़वाहिनी, दुराराध्या, सकट-वनको भस्म करनेवाली ( हे देवि ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! ) ॥ २ ॥ चरणोमे नूपुर धारण करनेवाली, मणि और मोतियोंके आभूषण धारण करनेवाली, चोली और वस्त्रोंसे सुसज्जित, कमलमुखी, इन्द्रके विघ्न-बाधाओको दूर करनेवाली, ब्राह्मणोंके लिये आनन्ददायिनी, गज और ग्राहका उद्धार करनेवाली हे देवि ! मुझ शरणागतपर कृपा करो । ( हे

छिन्वा राहुग्रीवां पासि त्वं विबुधान्

ददासि मृत्युमनिष्टं पीयूषं विबुधान् ।


विहरसि दानव ऋद्धान् समरे संसिद्धान्

मध्वमुनीश्वरवरदे पालय संसिद्धान् ॥ जय देवि० ॥ ४ ॥

इति देव्या आरात्रिक समाप्तम् ।



देवि ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! ) ॥ ३ ॥ तुम राहुकी ग्रीवा काटकर देवोंकी रक्षा करती हो, अमुरोको उनकी इच्छाके विपरीत मृत्यु और देवताओको अमृत देती हो, युद्धकुशल और वीर दैत्योसे रणक्रीड़ा करनेवाली हो । हे मध्वमुनीश्वरको वर देनेवाली ! भक्तोका पालन करो । ( हे देवि ! तुम्हारी जय हो ! ) ॥ ४ ॥



## विष्णुस्तोत्राणि

### २७—श्रीनारायणाष्टकम्

वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तातिनिर्वापणा-  
 दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयःपदप्रापणात् ।  
 सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवन्साक्षिणः  
 प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः ॥ १ ॥  
 प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय  
 स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः ।

अति वात्सल्यमय होनेके कारण, भयभीतोको अभयदान देनेका स्वभाव होनेके कारण, दुखी पुरुषोका दुःख हरनेके कारण, अति उदार और पापनाशक होनेके कारण और अन्य अगणित कल्याणमय पदो ( श्रेयों ) की प्राप्ति करा देनेके कारण सारे जगत्के लिये भगवान् लक्ष्मीपति ही सेवनीय हैं; क्योंकि प्रह्लाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहल्या और ध्रुव—ये ( क्रमसे ) इन कार्योंमें साक्षी हैं ॥ १ ॥ अरे प्रह्लाद ! यदि तू कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है तो मुझे स्वम्भेमें दिखा—दैत्य हिरण्यकशिपुके ऐसा कहते ही वहाँ भगवान् आविर्भूत हो गये और अपने नखोंसे उसके वक्षःस्थलको

वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय-  
 न्नार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः ॥ २ ॥  
 श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः  
 सुग्रीवानय पालयैनमधुना पौलस्त्यमेवागतम् ।  
 इत्युक्त्वाभयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानार्तं ॥ ३ ॥  
 नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भो सुराः ।  
 पालयन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः  
 मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधर आर्तं ॥ ४ ॥  
 भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे

विदीर्ण करके अपना वात्सल्य प्रकट किया । ऐसे दीनरक्षक भगवान् नारायण  
 ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ २ ॥ हे श्रीरामजी ! यह निष्पाप विभीषण  
 राक्षस रावणके भयसे आया है—यह सुनते ही 'सुग्रीव ! उस पुलस्त्य-  
 ऋषिके पौत्रको तुरत ले आओ और उसकी रक्षा करो'—ऐसा कहकर  
 जैसा अभयदान श्रीरघुनाथजीने उसे दिया, वह सबको विदित ही है; वे  
 ही दीनरक्षक भगवान् नारायण मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ३ ॥ ग्राहद्वारा  
 पाँव पकड़ लिये जानेपर सँड़ उठाकर 'हे ब्रह्मा आदि देवगण ! मेरी  
 रक्षा करो !'—इस प्रकार दीनवाणीसे 'पुकारते हुए गजेन्द्रकी रक्षामें  
 देवताओंको असमर्थ देखकर 'मत डर' ऐसा कहकर जिन श्रीधरने ग्राहका  
 वध करनेके लिये सुदर्शनचक्र उठा लिया, वे ही दीनरक्षक भगवान् नारायण  
 मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ४ ॥ हे कृष्ण ! हे अच्युत ! हे कृपालो !

क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मामातुराम् ।

इत्युक्तोऽक्षयवस्त्रसंभृततनुं योऽपालयद्द्रौपदीमार्तं ॥५॥

यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां षषौषधिध्वंसनं

यन्नामामृतपूरकं च पिवतां संसारसंतारकम् ।

पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचित आर्तं ॥६॥

पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो

दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधृतो मात्रावमानं गतः ।

यं गत्वा शरणं यदाप तपसा हेमाद्रिसिंहासनमार्तं ॥७॥

हे हरे ! हे पाण्डवसखे ! तুম कहाँ हो ! कहाँ हो ! दुर्योधनद्वारा लूटी गयी मुझ आतुरीकी रक्षा करो ! रक्षा करो !!' इस प्रकार प्रार्थना करनेपर जिसने अक्षयवस्त्रसे द्रौपदीका शरीर ढककर उसकी रक्षा की, वह दुखियोंका उद्धार करनेमें तत्पर भगवान् नारायण मेरी गति हैं ॥ ५ ॥ जिनके चरणकमलोंके नखोंकी धोवन श्रीगङ्गाजी त्रिलोकीके पापसमूहको ध्वंस करनेवाली हैं, जिसका नामामृतसमूह पान करनेवालोको ससार-सागरसे पार करनेवाला है तथा जिनके पादपद्मोंकी रजसे पाषाण भी मुनिशापसे मुक्त हो गया, वे दीनरक्षक भगवान् नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ६ ॥ अपने भाईको पिताके साथ उत्तम राजसिंहासनपर बैठा देख उत्तानपादके पुत्र ध्रुवने जब स्वयं ही उसपर चढ़ना चाहा तो पिताने उसे अङ्गमें नहीं लिया और विमाताने भी उसका अनादर किया, उस समय जिनकी शरण जाकर उसने तपके द्वारा सुमेरुगिरिके राजसिंहासनकी प्राप्ति की, वे ही दीनरक्षक भगवान् नारायण मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ७ ॥

आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता  
घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः ।

सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं  
विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ॥ ८ ॥

इति श्रीकूरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम् ।

## २८—श्रीकमलापत्यष्टकम्

भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनम् ।  
नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ १ ॥  
अलिकुलासितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरम् ।  
जलधिजाङ्कितवामकलेवरं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ २ ॥

जो पीड़ित हैं, विषादयुक्त हैं, शिथिल ( निराश ) हैं, भयभीत हैं अथवा किसी भी घोर आपत्तिमें पड़े हुए हैं, वे 'नारायण' शब्दके संकीर्तनमात्रसे दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं ॥ ८ ॥

रे मनुष्यो ! जो शेषशय्यापर पौटे हुए हैं, नीलमेघ सदृश श्याम-सुन्दर हैं, गरुड़ जिनका वाहन है और जिनके कमल-जैसे नेत्र हैं, उन शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी अव्यय श्रीकमलापतिको भजो ॥ १ ॥ भौरोंके समान जिनकी काली-काली कोमल अलकें हैं, अति निर्मल सुन्दर पीताम्बर है और जिनके वामाङ्गमे श्रीलक्ष्मीजी सुशोभित हैं, रे मनुष्यो ! उन श्रीकमलापतिको भजो ॥ २ ॥ जप, तप, यज्ञ अथवा उत्तम-उत्तम तीर्थोंके

किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणैः ।  
 किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनैर्मजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ३ ॥  
 मनुजदेहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् ।  
 विषयलम्पटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ४ ॥  
 न वनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवः ।  
 व्रजति साकमनेन जनेन वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ५ ॥  
 सकलमेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतरां धनयौवनम् ।  
 समवलोक्य विवेकदृशा द्रुतं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ६ ॥  
 विविधरोगयुतं क्षणभङ्गुरं परवशं नवमार्गमलाकुलम् ।  
 परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ७ ॥

सेवनमें क्या रक्खा है ? अथवा अधिक शास्त्रावलोकनके पचड़ेमें पड़नेसे ही क्या होना है ? रे मनुष्यो ! बस, श्रीकमलापतिको ही भजो ॥ ३ ॥ इस संसारमें यह मनुष्य-शरीर अति दुर्लभ और देवगणोंसे वाञ्छित है—ऐसा जानकर विषय-लम्पटताको त्यागकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ४ ॥ इस जीवके साथ स्त्री, पुत्र, भाई, पिता, माता और बन्धुजन कोई भी नहीं जाता, अतः रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ५ ॥ यह सचराचर जगत्, धन और यौवन सभी अत्यन्त अस्थिर हैं—ऐसा विवेक-दृष्टिसे देखकर रे मनुष्यो ! शीघ्र ही श्रीकमलापतिको भजो ॥ ६ ॥ यह शरीर नाना प्रकारके रोगोंका आश्रय, क्षणिक, परवश तथा मलसे भरे हुए नौ मार्गोंवाला है—ऐसा देखकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ७ ॥



मुनिवरैरनिशं हृदि भावितं शिवविरिञ्चिमहेन्द्रनुतं सदा ।  
 मरणजन्मजराभयमोचनं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ८ ॥  
 हरिपदाष्टकमेतदनुत्तमं परमहंसजनेन समीरितम् ।  
 पठति यस्तु समाहितचेतसा व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवम् ॥ ९ ॥  
 इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीकमलापत्यष्टकं सम्पूर्णम् ॥

## २६—श्रीदीनबन्ध्वष्टकम्

यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं  
 यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले ।  
 यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते

मुनिजन जिनका अहर्निश हृदयमें ध्यान करते हैं, शिव, ब्रह्मा तथा इन्द्रादि समस्त देवगण जिनकी सर्वदा वन्दना करते हैं तथा जो जरा, जन्म और मरणादिके भयको दूर करनेवाले हैं, रे मनुष्यो ! उन श्रीकमलापतिको भजो ॥ ८ ॥ दास परमहंसद्वारा कहे गये इस अत्युत्तम भगवान् हरिके अष्टकको जो मनुष्य समाहितचित्तसे पढ़ता है, वह अवश्य ही भगवान् विष्णुके परमधामको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

जिन परमात्मासे यह ब्रह्मा आदिरूप जगत् प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत जिस परमेश्वरमें यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत् जिनमें लीन हो जाता है—वे दीनबन्धु

दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥

चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे

गुर्वी गदा दरवरश्च विधाति यस्य ।

पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो० ॥ २ ॥

येनोद्भृता वसुमती सलिले निमग्ना

नग्ना च पाण्डववधूः स्थगिता दुकूलैः ।

सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद्गजेन्द्रो दृग्गोचरो० ॥ ३ ॥

यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुरा समृद्धिं

कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति ।

भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्या दृग्गोचरो० ॥ ४ ॥

भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें ॥ १ ॥ जिनके करकमलमें सूर्यके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शङ्ख शोभित हो रहा है, जो पक्षिराज ( गरुड़ ) की पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें ॥ २ ॥ जिन्होंने जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नग्न की जाती हुई पाण्डववधू ( द्रौपदी ) को वस्त्रोंसे ढक लिया और ग्राहके मुखसे गजराजको बचा लिया—वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष हो जायें ॥ ३ ॥ जिनकी स्नेह-दृष्टिसे देखे जानेके कारण देवतालोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोपदृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानवलोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके भयसे भीत होकर अपने-अपने कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके सामने हो जायें ॥ ४ ॥ सामवेदके गानमें चतुरलोग

गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषु

ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते ।

पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो० ॥ ५ ॥

आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि

भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्तिः ।

यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो० ॥ ६ ॥

यस्याङ्घ्रिपङ्कजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दै-

राराध्यते भवदवानलदाहशान्त्यै ।

सर्वापराधमविचिन्त्य ममांखिलात्मा दृग्गोचरो० ॥ ७ ॥

यश्चमें जिन अजन्मा भगवान्के गुणोंको गाते हैं, धीर बुद्धिवाले संन्यासीलोग एकान्तमें जिनका ध्यान करते हैं और योगीजन अपने शरीरके भीतर पुरुषरूपसे जिनका साक्षात्कार करते हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके सामने हों ॥ ५ ॥ जो भगवान् आकार, रूप और गुणके सम्बन्धसे रहित होकर भी भक्तोंके ऊपर दया करनेके निमित्त अवतार धारण करते हैं और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जेष्ठनागके शरीरको अपनी शय्या बनाये हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके प्रत्यक्ष हो ॥ ६ ॥ आलस्यहीन मुनिवरोंका समूह संसारके दुःखरूपी दावानलकी जलन शान्त करनेके लिये जिन भगवान्के चरणकमलकी आराधना करता है, वे समस्त जगत्के आत्मभूत दीनबन्धु मेरे सब अपराधोंको भूलकर आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें ॥ ७ ॥

यन्नामकीर्तनपरः श्वपचोऽपि नूनं  
 हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति ।  
 दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणक्षणेन दृग्गोचरो ॥ ८ ॥  
 दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितम् ।  
 यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ ९ ॥

इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टक सम्पूर्णम् ।



३०—परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्  
 त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्या मलमयं  
 प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः ।

जिन भगवान्के नामकीर्तनमें तत्पर चाण्डाल भी निश्चय ही सम्पूर्ण कलिमल  
 ( पाप ) को त्यागकर जगत्को पवित्र कर देता है, वे दीनबन्धु भगवान्  
 मेरे समस्त पापको अपनी करुणादृष्टिसे जलाकर आज मेरे नेत्रोको प्रत्यक्ष  
 दर्शन दें ॥ ८ ॥ जो लोग ब्रह्मानन्दके कहे हुए इस दीनबन्ध्वष्टक नामक  
 पवित्र स्तोत्रका नित्य संयतचित्तसे पाठ करेंगे, उनके ऊपर विष्णुभगवान्  
 प्रसन्न रहेंगे ॥ ९ ॥



हे शरण देनेवाले परमात्मन् ! तुम एक और शुद्ध हो, किंतु वेदके  
 विरुद्ध बुद्धि रखनेवाले भ्रान्त और पापपरायणजन तुम्हारे ऐसे स्वरूपमें भी  
 विकाररूप प्रपञ्च ( संसार ) देखने हैं । हे सर्वव्यापी भगवन् ! मुझे उन लोगों-

बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानय विभो

गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम् ॥ १ ॥

न सृष्टेस्ते हानिर्यदि हि कृपयातोऽवसि च मां  
त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति तेऽस्ति श्रुतिपथे ।

अतो मामुद्धतुं घटय मयि दृष्टिं सुविमलां  
न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरत कर्तुं भव हरे ॥ २ ॥

कदाहं भो स्वामिन्नियतमनसा त्वां हृदि भज-  
न्नभद्रे संसारे ह्यनवरतदुःखेऽतिविरसः ।

लभेयं तां शान्तिं परममुनिभिर्या ह्यधिगता

से अलग करके अपने चरणोंकी शरणमें ले लो । [ अपनी शरणमें लेनेकी ]  
तुम्हारी उदारता गजेन्द्रके विषयमें देखी गयी है कि तुमने उसकी रक्षा  
करके उसे अपना धाम दे दिया ॥ १ ॥ हे भगवन् ! यदि तुम कृपाकर  
मेरी रक्षा करते हो तो इससे तुम्हारी सृष्टिमर्यादाकी कोई हानि नहीं है । तुमने  
अनेकोंकी रक्षा की है, हमारे कानोंमें यह बात पड़ चुकी है कि तुम्हें  
शरणागतोंकी रक्षा करनेका व्यसन है, अतः मेरा उद्धार करनेके लिये तुम  
सुझपर भी अपनी निर्मल दृष्टि डालो ! अपने भक्तजनोंकी रक्षामे तत्पर रहने-  
वाले हे भगवन् ! मेरी प्रार्थनाको असफल न करो ॥ २ ॥ हे प्रभो ! मैं कब तुमको  
अपने हृदयमें संयतमनसे भजता हुआ अमङ्गलमय एवं सर्वदा दुःखयुक्त इस  
संसारसे विरक्त होकर उस शान्तिको प्राप्त करूँगा जिसको कि महामुनियोंने  
पाया है । भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाले भगवन् ! तुम दया करके मुझे

दयां कृत्वा मे त्वं वितर परशान्तिं भवहर ॥ ३ ॥

विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं

विधुश्चेत्पाता मावतु जनिमृतेर्दुःखजलधेः ।

हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं

यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम् ॥ ४ ॥

अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदित-

स्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवत्तः श्रुतिदृशा ।

तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं

स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुम् ॥ ५ ॥

कदाहं हे स्वामिञ्जनिमृतिमयं दुःखनिबिडं

भवं हित्वा सत्येऽनवरतसुखे स्वात्मवपुषि ।

वही पराशान्ति दो ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! ब्रह्मा यदि संसारकी सृष्टि करते हैं तो मेरे शुभकर्मोंकी सृष्टि करें, विष्णुभगवान् यदि संसारकी रक्षा करते हैं

तो जन्म-मरणके दुःखरूपी सागरसे मेरी रक्षा करें और शिवजी यदि संसारका संहार करते हैं तो मेरे शोकोंका उनके कारणभूत अशुभ कर्मोंसहित संहार करें । जिस प्रकार मेरी मुक्ति हो सके वैसा कोई उपाय वे लोग करें ॥ ४ ॥

हे भगवन् ! मेरा नाम ब्रह्मानन्द है और तुम्हारा भी यही नाम प्रसिद्ध है । इसलिये श्रुतिदृष्ट्या ( सुननेमें ) मैं तुमसे किसी प्रकार भिन्न नहीं हूँ । ऐसी स्थितिमें तुम उस समय अपने और मेरेमें भेदको प्रकट करनेवाली अपनी माया दूर कर भिन्नताको निकाल दो ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मैं कश्च जन्म-मरणमय

रमे तस्मिन्नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका

रमन्ते यस्मिंस्ते कृतसकलकृत्या यतिवराः ॥ ६ ॥

पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया

यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान् ।

अहं तु स्वामिंस्ते शरणस्रगमं संसृतिभया-

द्यथा ते प्रीतिः स्याद्भितकर तथा त्वंकुरु विभो ॥७॥

अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः

श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विधुतः ।

इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया-

दतस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया ॥ ८ ॥

बोर दुःखबाले संसारको छाड़कर निरन्तर आनन्दमय सत्य आत्मस्वरूपमें नित्य रमण करूंगा, जिसमें कि ब्रह्मास्वादके रसिक तथा कृतकृत्य योगीश्वर महामुनि रमण करते हैं ॥ ६ ॥ हे भगवन् ! तुमको प्रसन्न करनेके लिये कोई शास्त्र पढ़ते हैं और कोई तत्पर होकर वेद पढ़ते हैं तथा दूसरे लोग यज्ञके द्वारा तुम्हारी आराधना करते हैं और तुम्हें रुचिकर वस्तु अर्पण करते हैं, किंतु हे प्रभो ! मैं ता संसारके दुःखोंके डरसे तुम्हारी शरणमें आया हूँ । हे हित करनेवाले व्यापक परमात्मन् ! जिस प्रकार मुझपर तुम्हारी प्रसन्नता हो सके वैसा करो ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! मैं प्रकाशरूप, नित्य, आकाशके समान व्यापक, पूर्णकाम, आनन्दमय और श्रुतिविद्ध अद्वैतरूप हूँ, किसी प्रकार ब्रह्मसे भिन्न नहीं हूँ, इस प्रकार तत्त्वज्ञान हो जानेपर विवेक-दृष्टिसे जगत्का लय हो जानेके कारण ज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है, इसलिये

अनादौ संसारे जनिमृतिमये दुःखितमना

मुमुक्षुः सन्कश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम् ।

ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै-

र्भजेऽहं तं देवं भवति च परो यस्य भजनात् ॥ ९ ॥

विवेको वैराग्ये न च शमदमाद्याः षडपरे

मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम् ।

अतः संसाराब्धेस्तरणसरणिं मामुपदिशन्

स्वबुद्धिं श्रौतीं मे वितर भगवंस्त्वं हि कृपया ॥१०॥

कदाहं भो स्वामिन्निगममतिषेदं शिवमयं

चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम् ।

तुम कृपा करके मुझमें तत्त्वज्ञान भर दो ॥ ८ ॥ जन्म-मरणरूप भवसे युक्त इस अनादि-संसारमे मन-ही-मन सदा दुखी रहनेवाला कोई पुरुष इससे मुक्त होनेकी इच्छासे परम ज्ञानी गुरुकी सेवा करता है और उससे जिस भगवान्को जानकर फिर सांसारिक क्लेशसमूहोंसे पीड़ित नहीं होता उस देवको मैं भजता हूँ, जिसके भजनसे भक्त परब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ ९ ॥ हे भगवन् ! मुझमें न विवेक है, न वैराग्य और न शम, दम आदि ज्ञानके अन्य छः साधन ही हैं; मुझमें मुक्त होनेकी सुदृढ़ इच्छा भी नहीं है; फिर कैसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? इसलिये संसार-सागरको पार करनेके मार्गका उपदेश देते हुए तुम कृपाकर मुझको अपनी वैदिक बुद्धि ( ब्रह्मविद्या ) प्रदान करो ॥ १० ॥ हे स्वामिन् ! श्रुतिने जिनके त्रिविध परिच्छेद ( इयत्ता ) का बाध किया है;



त्वमर्थाभिन्नं त्वामभिरम इहात्मन्यविरतं

मनीषामेवं मे सफल्य वदान्य स्वकृपया ॥११॥

यदर्थं सर्वं वै प्रियमसुधनादि प्रभवति

स्वयं नान्यार्थो हि प्रिय इति च वेदे प्रविदितम् ।

स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित-

स्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम् ॥१२॥

मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत्स्वात्मनि मति-

स्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती ।

ततोऽहं किं कुर्यां न हि मम मतिः कापि चरति

जो वैदिक बुद्धिसे ही जाननेयोग्य हैं, जो नित्य, चिदानन्दघन एवं कल्याणस्वरूप हैं तथा जो 'त्वम्' पदके अर्थभूत जीवात्मासे अभिन्न हैं ऐसे आपका निरन्तर अपने हृदयदेशमें मैं कब ध्यान करूँगा, हे उदार परमेश्वर ! आप अपनी कृपासे मेरे इस विचारको सफल करें ॥ ११ ॥ हे भगवन् ! जिसके लिये प्रिय होनेके कारण ही ये प्राण, धन आदि समस्त वस्तु प्रिय प्रतीत होते हैं; और जो किसी दूसरेके लिये प्रिय होनेके कारण प्रिय नहीं है अपितु स्वतः प्रिय है, यह बात वेदमें प्रसिद्ध है, वही जन्मने-मरनेवाले समस्त प्राणियोंका आत्मा है और उसीका वेदोंमें वर्णन किया गया है, अतः मैं उसीके जानने योग्य निर्मल आत्मदेवकी सदा ही शरण लेता हूँ ॥ १२ ॥ हे नाथ ! मेरी मति किसी प्रकार आत्मस्वरूप तुममे लगी रहे, इसी उद्देश्यसे मैंने अपना सब कुछ परित्याग कर दिया, किंतु तुम्हारी मायाने तो मेरे प्रति विपरीत

दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदम् ॥१३॥

नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमिता-

स्त्वया चान्ये स्वामिन्किमिति समयेऽस्मिञ्छयितवान् ।

न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहितसर्वे मयि विभो

न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम् ॥१४॥

अनन्ताद्या विज्ञा न गुणजलधेस्त्वेऽन्तमगम-

न्नतः पारं यायात्तत्र गुणगणानां कथमयम् ।

गुणन्यावद्धि त्वा जनिमृतिहरं याति परमां

गतिं योगिप्राप्त्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमनवम् ॥१५॥

इति श्रीमन्मौक्तिकरामोदासीनशिष्यब्रह्मानन्दविरचितं

परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



ही कार्य किया, अतः अब मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, अब तुम्हीं दया करके मुझे कल्याण देनेवाले अपने चरणोंकी शरण दो ॥ १३ ॥ हे प्रभो ! तुमने पर्वत-वृक्षादि स्थावरों, दैत्यो, वानरों और दूसरोंको भी संसारसागरसे पार कर दिया । इस समय क्यों सो गये ? हे अन्तर्यामिन् ! तुम्हारे विराट् स्वरूपमें समस्त ससार है, इसलिये तुम मेरा अनादर न करो, तुमको छोड़कर मैंने दूसरेकी शरण नहीं ली ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! विशेष ज्ञान रखनेवाले शेष, शारदा आदि भी यदि तुम्हारे गुणरूपी सागरके पार न जा सके, तो मुझ-जैसा साधारण जन तुम्हारे गुणसमूहका पार कैसे पा सकता है ? परतु जन्म-मरणरूप कष्टको हरनेवाले तुम परमेश्वरका जितना ही हो सके उतना ही गुणगान करके मनुष्य गोगी-जनोंके प्राप्त होनेयोग्य परमगतिको प्राप्त कर लेता है, ऐसा मनमे जानकर मैंने आपकी स्तुति की है ॥ १५ ॥



## ३१—श्रीभगवच्छरणस्तोत्रम्

सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे ।  
 मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः ॥ १ ॥  
 रोगा हरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं  
 कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम् ।  
 मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि  
 तस्माच्चमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ २ ॥  
 देहो विनश्यति सदा परिणामशील-  
 श्चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुगमि ।  
 बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्तस्मात् ० ॥ ३ ॥  
 आयुर्विनश्यति यथामघटस्थतोयं

भक्तोंपर दया करनेवाले और माय मे संसारकी रचना करनेवाले  
 सच्चिदानन्दरूप महेश्वरको वारवार नमस्कार है ॥ १ ॥ हे भगवन् !  
 इस संसारमें प्रबल रोग सर्वदा शरीरको क्षीण करते रहते हैं, काम  
 आदि भी प्रतिदिन हृदयको जलाते रहते हैं और मृत्यु भी दिनोको गिनती  
 हुई पास ही नृत्य करती रहती है । इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये  
 आप ही शरण हैं ॥ २ ॥ सदा ही परिवर्तनशील यह शरीर नष्ट होता जा  
 रहा है और विषयोंमें आमक्त रहनेवाला चित्त सदा ही खिन्न रहा करता है ।  
 मेरी बुद्धि भी सदा विषयोंमें रमती है, अन्तरात्मामे नहीं । इसलिये  
 हे दीनबन्धो ! अब मेरी आप ही शरण हैं ॥ ३ ॥ कष्टकी बात है कि

विद्युत्प्रभेव चपला बत यौवनश्रीः

वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी । तस्मात्० ॥ ४ ॥

आयाद् व्यथो मम भवत्यधिकोऽविनीते

कामादयो हि बलिनो निबलाः शमाद्याः ।

मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् । तस्मात्० ॥ ५ ॥

तप्तं तपो न हि कदापि मयेह तन्वा

वाण्या तथा न हि कदापि तपश्च तप्तम् ।

मिथ्याभिभाषणपरेण न मानसं हि । तस्मात्० ॥ ६ ॥

स्तब्धं मनो मम सदा न हि याति सौम्यं

कन्चे घड़ेमें रक्ते हुए जलकी तरह आयुका नाश हो रहा है; यौवनकी शोभा बिजलीकी चमक-सी क्षणभङ्गुर है और वृद्धावस्था सिंहनीकी भाँति ( खानेके लिये ) दौड़ी चली आ रही है, इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ ४ ॥ हे भगवन् ! मेरे पास आयसे व्यय ही अधिक है, क्योंकि मुझ अविनीतपर कामादि ही बली होते हैं ( उन्हींका मुझपर प्रभाव है ) और शम आदि निर्वल रहते हैं ( इनका मुझपर वश नहीं चलता ) । खेद है कि जब मुझे मृत्यु पीड़ित करेगी, उस समय मैं क्या कह सकूँगा ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! मैंने इस जीवनमे कभी शरीरसे तप नहीं किया, सदा असत्य-भाषणमें लगे रहकर कभी वाणीसे भी तप नहीं किया और मानस तप तो कभी किया ही नहीं, अतः हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ ६ ॥ हे भगवन् ! मेरा मन सदा ही स्तब्ध—जडवत् शानश्चर्य

चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम् ।  
 वाचा तथैव न वदेन्मम सौम्यवाणीं । तस्मात्० ॥ ७ ॥  
 सत्त्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां  
 विद्धे तथा कथमहो शुभकर्मवार्ता ।  
 साक्षात्परम्परतया सुखसाधनं तत्तस्मात्० ॥ ८ ॥  
 पूजा कृता न हि कदापि मया त्वदीया  
 मन्त्रं त्वदीयमपि मे न जपेद्रसज्ञा ।  
 चित्तं न मे स्मरति ते चरणौ ह्यवाप्य । तस्मात्० ॥ ९ ॥

रहा है, इस कारण सौम्य ( विशुद्ध एवं विनम्र ) नहीं हो रहा है और  
 मेरी आँखें आपके विश्वरूपका दर्शन नहीं कर पाती, \* इसी प्रकार  
 मेरी जिह्वा भी मीठी वाणी नहीं बोलती । अतः हे दीनबन्धो ! अब मेरे  
 लिये आप ही शरण हैं ॥ ७ ॥ रजोगुण और तमोगुणसे विद्ध हुए  
 मेरे हृदयमे सत्त्वगुण नहीं आने पाता । अहो ! ऐसी स्थितिमे शुभ कर्मोंका  
 करना तो दूर रहा, उनकी बात भी कैसे की जा सकती है और साक्षात्  
 अथवा परम्परासे वह ( शुभ कर्म ) ही सुखका साधन है, ( सो मुझमें  
 नहीं है ) इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ ८ ॥  
 हे भगवन् ! मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की, मेरी जिह्वा आपके  
 मन्त्रको भी नहीं जपती और न मेरा चित्त आपके चरणोंको पाकर  
 उनका चिन्तन ही करता है, इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये

\* अर्थात् 'जगत्' रूपमें भगवान् ही विराजमान हैं, ऐसी प्रतीति इन  
 आँखोंको नहीं हो रही है ।

यज्ञो न मेऽस्ति हुतिदानदयादियुक्तो

ज्ञानस्य साधनगणो न विवेकमुख्यः ।

ज्ञानं क्व साधनगणेन विना क्व मोक्षस्तस्मात् ॥१०॥

सत्सङ्गतिर्हि विदिता तव भक्तिहेतुः

साप्यद्य नास्ति वत पण्डितमानिनो मे ।

तामन्तरेण न हि सा क्व च बोधवार्ता । तस्मात् ॥११॥

दृष्टिर्न भूतविषया समताभिधाना

वैषम्यमेव तदियं विषयीकरोति ।

शान्तिः कुतो मम भवेत्समता न चेत्स्यात्तस्मात् ॥१२॥

आप ही शरण हैं ॥ ९ ॥ हे भगवन् ! मैंने हवन, दान, दया आदिसे युक्त यज्ञ नहीं किया और न ज्ञानके साधनसमूह विवेक आदिको ही प्राप्त किया । साधनसमूहके बिना ज्ञान कैसे हो सकता है ? और बिना ज्ञानके मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १० ॥ हे भगवन् ! यह प्रसिद्ध है कि आपकी भक्तिका कारण सत्सङ्ग है, पर खेद है कि अपनेको पण्डित माननेवाले मुझमें वह ( सत्सङ्ग ) भी नहीं है । सत्सङ्गके बिना भगवद्भक्ति नहीं होती; फिर ज्ञानकी तो बात ही कहाँ हो सकती है ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ ११ ॥ हे भगवन् ! मेरी दृष्टि प्राणियोंमें समान नहीं रहती है, अपि तु यह प्राणियोंमें विषम भावनाको ही अपनाती है । यदि मेरी दृष्टिमें समता नहीं हुई तो मुझमें शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १२ ॥

मैत्री समेषु न च मैऽस्ति कदापि नाथ

दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्ये ।

पापेऽनुपेक्षणवतो मम मुत्कथं स्यात्तस्मात् ॥१३॥

नेत्रादिकं मम बहिर्विषयेषु सक्तं

नान्तर्मुखं भवति तानविहाय तस्य ।

कान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता । तस्मात् ॥१४॥

त्यक्तं गृहाद्यपि मया भवतापशान्त्यै

नासीदसौ हृतहृदो मम मायया ते ।

सा चाधुना किमु विधास्यति नेति जाने । तस्मात् ॥१५॥

हे नाथ ! अपने बराबरखालोंमे मेरी मित्रता नहीं है और मैंने न तो कभी दीनोपर दया दिखायी और न कभी पुण्यके विषयमे प्रसन्नता ही प्रकट की । जब मैंने पापमे उपेक्षा नहीं दिखायी तो मुझे प्रसन्नता कैसे मिले ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! मेरी नेत्रादि इन्द्रियों बाह्य विषयोमे ही आसक्त हैं । इनकी वृत्ति अन्तर्मुख नहीं होती । भला, विषयोंको त्यागे विना ही इन्द्रियोंमें अन्तर्मुखता कहाँसे होगी ? और इन्द्रियोंके अन्तर्मुख हुए विना सुखकी वार्ता कहाँ ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! मैंने सांसारिक दुःखोंकी शान्तिके लिये स्त्री-गृह आदि सबका परित्याग कर दिया, किंतु आपकी मायाने मेरे मनको हर लिया, इससे दुःखोंकी शान्ति नहीं हुई । अब समक्षमे नहीं आता इस समय आपकी माया और क्या-क्या करेगी ? इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १५ ॥ हे प्रभो ! प्राप्त हुए धन,

प्राप्ता धनं गृहकुटुम्बगजाश्वदारा

राज्यं यदैहिकमठेन्द्रपुरश्च नाथ ।

सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै । तस्मात् ० ॥१६॥

प्राणान्निरुध्य विधिना न कृतो हि योगो

योगं विनास्ति मनसः स्थिरता कुतो मे ।

तां वै विना मम न चेतसि शान्तिवार्ता । तस्मात् ० ॥१७॥

ज्ञानं यथा मम भवेत्कृपया गुरुणां

सेवां तथा न विधिनाकरवं हि तेषाम् ।

सेवापि साधनतयाविदितास्ति चित्ते । तस्मात् ० ॥१८॥

तीर्थादिसेवनमहो विधिना हि नाथ

गृह, परिवार, हाथी एवं घोड़े, स्त्री आदि तथा इस पृथ्वी अथवा इन्द्रपुरीका राज्य—ये सब वस्तुएँ नश्वर हैं, किसी भी अच्छे फलको देनेवाली नहीं हैं; इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १६ ॥ हे भगवन् ! मैंने प्राणायामके द्वारा योग (ध्यान) नहीं किया । बिना योगके मेरा मन स्थिर कैसे हो सकता है और स्थिरताके बिना चित्तमे शान्ति कथनमात्रके लिये भी नहीं हो सकती, इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १७ ॥ हे भगवन् ! मैंने गुरुजनोंकी ऐसी सेवा भी कभी नहीं की, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होकर उसके द्वारा मुझमें यथावत् ज्ञान होता, गुरुजनोंकी सेवा भी ज्ञानका साधन है ऐसा मैंने कभी मनमे जाना ही नहीं, इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १८ ॥ हे नाथ ! यह दुःखकी



नाकारि येन मनसो मम शोधनं स्यात् ।

शुद्धिं विना न मनसोऽवगमापवर्गौ । तस्मात् ० ॥१९॥

वेदान्तशीलनमपि प्रमितिं करोति

ब्रह्मात्मनः प्रमितिसाधनसंयुतस्य ।

नैवास्ति साधनलवो मयि नाथ तस्यास्तस्मात् ० ॥२०॥

गोविन्द शङ्कर हरे गिरिजेश मेश

शम्भो जनार्दन गिरीश मुकुन्द साम्ब ।

नान्या गतिर्मम कथञ्चन वां विहाय

तस्मात्प्रभो मम गतिः कृपया विधेया ॥२१॥

एवं स्तवं भगवदाश्रयणाभिधानं

न्वात है कि मैंने विधिसे तीर्थ आदिका सेवन नहीं किया, जिससे मेरे मनकी शुद्धि हो, मनकी शुद्धिके बिना ज्ञान और मोक्ष नहीं होते । इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १९ ॥ हे प्रभो ! आत्मा ही ब्रह्म है, इसके यथार्थ ज्ञानके साधनमें लगे हुए पुरुषको वेदान्त ब्रह्मतत्त्वका यथावत् ज्ञान करा देता है, परंतु मुझमें तो उस सत्य ज्ञानके साधनका अंशमात्र भी नहीं है, इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ २० ॥ हे गोविन्द ! हे शंकर ! हे हरे ! हे गिरिजापते ! हे लक्ष्मीपते ! हे शम्भो ! हे जनार्दन ! हे पार्वती-माताके सहित गिरीश ! हे मुकुन्द ! मेरे लिये आप दोनों ( इष्टदेवों )-के अतिरिक्त किसी प्रकार कोई भी दूसरा सहारा नहीं है, इसलिये हे प्रभो ! कृपा करके मुझे सद्गति प्रदान कीजिये ॥ २१ ॥ जो मनुष्य विनीत भाव-

ये मानवाः प्रतिदिनं प्रणताः पठन्ति ।  
 ते मानवा भवरतिं परिभूय शान्तिं  
 गच्छन्ति किं च परमात्मनि भक्तिमद्धा ॥२२॥  
 इति श्रीब्रह्मानन्दविरचितं भगवच्छरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

### ३२—मङ्गलगीतम्

श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए ।  
 कलितललितवनमाल जय जय देव हरे ॥ १ ॥  
 दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए ।  
 मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे ॥ २ ॥  
 कालियविषधरगञ्जन जनरञ्जन ए ।  
 यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे ॥ ३ ॥

से इस भगवच्छरण नामक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करेंगे, वे संसारकी आसक्ति-  
 त्यागकर परमशान्ति और परमात्माकी साक्षात् भक्ति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥

लक्ष्मीजीके कुचकुम्भोंका आश्रय करनेवाले, कुण्डलधारी और अति  
 मनोहर वनमालाधारी हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ १ ॥  
 सूर्यमण्डलको सुशोभित करनेवाले, भवभयके नाशक और मुनियोंके  
 मनरूप सरोवरके हंस हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ २ ॥  
 कालियनागका दमन करनेवाले, भक्तोंको आनन्दित करनेवाले एवं यदुकुल-  
 कमलदिवाकर हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ३ ॥

मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए ।  
 सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे ॥ ४ ॥  
 अमलकमलदललोचन भवमोचन ए ।  
 त्रिभुवनभवननिधान जय जय देव हरे ॥ ५ ॥  
 जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए ।  
 समरशमितदशकण्ठ जय जय देव हरे ॥ ६ ॥  
 अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए ।  
 श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥ ७ ॥  
 तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए ।  
 कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ ८ ॥

मधु, मुर और नरकासुरके सहारकर्ता, गरुडवाहन, देवताओंकी कीडाके आश्रय हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ४ ॥ निर्मल कमलदलके समान नेत्रोवाले, भवबन्धनको काटनेवाले एवं त्रिभुवनके आश्रयभूत हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ५ ॥ सीताके साथ शोभा पानेवाले, दूषण दैत्यको जीतनेवाले और युद्धमें रावणको मारनेवाले हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ६ ॥ नवीन मेघके समान श्यामसुन्दर, मन्दराचलको धारण करनेवाले और लक्ष्मीजीके मुखचन्द्रके लिये चकोररूप हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ७ ॥ आपके चरणोकी हम शरण लेते है, आप भी इधर दयादृष्टि कीजिये और हम शरणागतोका कल्याण कीजिये । हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीजयदेव कविका बनाया

श्रीजयदेवकवेरुदितमिदं कुरुते मुदम् ।  
 मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे ॥ ९ ॥  
 इति श्रीजयदेवविरचितं मङ्गलगीत सम्पूर्णम् ।

### ३३—श्रीदशावतारस्तोत्रम्

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् ।  
 विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ॥  
 केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे ॥ १ ॥  
 क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे ।  
 धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे ॥  
 केशव धृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे ॥ २ ॥  
 वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना ।

हुआ यह मङ्गलमय मधुर गीत भक्तोंको आनन्द देनेवाला है । हे देव ! हे हरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ ९ ॥

हे मीनावतारधारी केशव ! हे जगदीश्वर ! हे हरे ! प्रलयकालमें वढ़े हुए समुद्रजलमें बिना क्लेश नौका चलानेकी लीला करते हुए आपने वेदोंकी रक्षा की थी, आपकी जय हो ॥ १ ॥ हे केशव ! पृथ्वीके धारण करनेके चिह्नसे फठोर और अत्यन्त विशाल तुम्हारी पीठपर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छपरूपधारी जगत्पति आप हरिकी जय हो ॥ २ ॥ चन्द्रमामे निमग्न हुई

शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना ॥

केशव धृतस्रकररूप जय जगदीश हरे ॥ ३ ॥

तव करकमलवरे नखमद्भुतशृङ्गम् ।

दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् ॥

केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे ॥ ४ ॥

छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन ।

पदनखनीरजनितजनपावन ॥

केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे ॥ ५ ॥

क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापम् ।

स्नपयसि पयसि शमितभवतापम् ॥

केशव धृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ ६ ॥

वितरसि दिक्षु रणे दिक्पतिकमनीयम् ।

कलङ्करेखाके समान यह पृथ्वी आपके दाँतकी नोकपर अटकी हुई सुशोभित हो रही है, ऐसे सूकररूपधारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो ॥ ३ ॥

हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भृङ्गको चीर डालनेवाले विचित्र नुकीले नख आपके कर-कमलमे हैं, ऐसे नृसिंहरूपधारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो ॥ ४ ॥

हे आश्चर्यमय वामनरूपधारी केशव ! आपने पैर बढाकर राजा बलिको छला तथा अपने चरण-नखोंके जलसे लोगोंको पवित्र किया, ऐसे आप जगत्पति हरिकी जय हो ॥ ५ ॥ हे केशव ! आप जगत्के ताप और पापोंका

नाश करते हुए, उसे क्षत्रियके रुधिररूप जलसे स्नान कराते हैं, ऐसे आप परशुरामरूपधारी जगत्पति हरिकी जय हो ॥ ६ ॥ जो युद्धमें सब

दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् ॥

केशव धृतरघुपतिवेष जय जगदीश हरे ॥ ७ ॥

वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम् ।

हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम् ॥

केशव धृतहलधररूप जय जगदीश हरे ॥ ८ ॥

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम् ।

सदयहृदयदर्शितपशुघातम् ॥

केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥ ९ ॥

म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम् ।

धूमकेतुमिव किमपि करालम् ॥

केशव धृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे ॥ १० ॥

श्रीजयदेवकवेरिदमुदितमुदारम् ।

दिशाओंमें लोकपालोंको प्रसन्न करनेवाली रावणके शिरकी सुन्दर बलि देते हैं, ऐसे श्रीरामावतारधारी आप जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ७ ॥ जो अपने गौर शरीरमें हलके भयसे आकर मिली हुई यमुना और मेघके सदृश नीलाम्बर धारण किये रहते हैं, ऐसे आप बलरामरूपधारी जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ८ ॥ सदय हृदयसे पशुहत्याकी कठोरता दिखाते हुए यज्ञविधानसम्बन्धी श्रुतियोंकी निन्दा करनेवाले आप बुद्धरूपधारी जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ९ ॥ जो म्लेच्छसमूहका नाश करनेके लिये धूमकेतुके समान अत्यन्त भयकर तलवार चलाते हैं, ऐसे कल्किरूपधारी आप जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ १० ॥ ( ! हे भक्तो ! ) इस

शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् ॥

केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे ॥११॥

इति श्रीजयदेवविरचित दशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

## ३४—ध्रुवकृतभगवत्स्तुतिः

ध्रुव उवाच

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां  
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना ।

अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्  
प्राणान्निमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥ १ ॥

एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या  
मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् ।

जयदेव कविकी कही हुई मनोहर, आनन्ददायक, कल्याणमय तत्त्वरूप स्तुति-  
को सुनो, हे दशावतारधारी ! जगत्पति, हरि ! आपकी जय हो ॥ ११ ॥

ध्रुवजीने कहा—प्रभो ! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं । आप ही मेरे  
अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीव  
करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं  
प्राणोंको भी चेतनता देते हैं । मैं आप अन्तर्यामी भगवान्को प्रणाम करता  
हूँ ॥ १ ॥ भगवन् ! आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनन्त गुणमयी माया-

सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु  
 नानेव दारुषु विभावसुवद् विश्वासि ॥ २ ॥  
 त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं  
 सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः ।  
 तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं  
 विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥ ३ ॥  
 नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते  
 ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।  
 अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य-  
 मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥ ४ ॥

शक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इन्द्रियादि असत् गुणोमे उनके अधिष्ठातृ देवताओंके रूपमे स्थित होकर अनेकरूप भासते हैं—ठीक वैसे ही जैसे तरह-तरहकी लकड़ियोंमें प्रकट हुई आग अपनी उपाधियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपोंमें भासती है ॥ २ ॥ नाथ ! सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीने भी आपकी शरण लेकर आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे ही इस जगत्को सोकर उठे हुए पुरुषके समान देखा था । दीनबन्धो ! उन्हीं आपके चरणतलका मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है ? ॥ ३ ॥ प्रभो ! इन शवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है । जो लोग इस विषयसुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा देनेवाले कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है ॥ ४ ॥



या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म-  
 ध्यानाद् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।  
 सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्  
 किं त्वन्तकासिलुलितात् पततां विमानात् ॥ ५ ॥  
 भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो  
 भूयादनन्त महताममलाशयानाम् ।  
 येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धि  
 नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥ ६ ॥  
 ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मर्त्यं  
 ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ।  
 ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द-  
 सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥ ७ ॥

नाथ ! आपके चरणकमलोंका ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता । फिर जिन्हें कालकी तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है ॥ ५ ॥ अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्तिभाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसारसागरके उस पार पहुँच जाऊँगा ॥ ६ ॥ कमलनाभ प्रभो ! जिनका चित्त आपके चरण-कमलकी सुगन्धमें लुभाया हुआ है, उन महानुभावोंका जो लोग सङ्ग करते हैं—वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र,

तिर्यङ्गनगद्विजसरीसृपदैवदैत्य-

मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् ।

रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं

नातः परं परम वेद्मि न यत्र वादः ॥ ८ ॥

कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन्

शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के ।

यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्म-

गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ ९ ॥

त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा

कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः ।

यद् बुद्धयवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या

गृह और स्त्री आदिकी सुधि भी नहीं करते ॥ ७ ॥ अजन्मा परमेश्वर ! मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप ( सर्पादि रेगनेवाले जन्तु ), देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा महदादि अनेको कारणोंसे सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थूल विश्वरूपको ही जानता हूँ; इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमे वाणीकी गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है ॥ ८ ॥ भगवन् ! कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामें स्थित जो परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमे लीन करके शेषजीके साथ उन्हींकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके नाभिसमुद्रसे प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान् आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टिसे बुद्धिकी सभी अवस्थाओंके साक्षी हैं तथा नित्य-

द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥१०॥

यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति

विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् ।

तद् ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य-

मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥११॥

सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म-

माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः ।

अप्येवमर्थं भगवान् परिपाति दीनान्

मुक्त, शुद्धसत्त्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप निर्विकार, आदिपुरुष, षडैश्वर्यसम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अधीश्वर हैं। आप जीवसे सर्वथा भिन्न हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाधिष्ठाता विष्णुरूपसे विराजमान हैं ॥ १० ॥ आपसे ही विद्या-अविद्या आदि विरुद्ध गतियोंवाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत्के कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार, ब्रह्म-स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ ॥ ११ ॥ भगवन् ! आप परमानन्दमूर्ति हैं—जो लोग ऐसा समझकर निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके लिये राच्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन् ! यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंतके जन्मे हुए बछड़ेको दूध पिलाती और व्याघ्रादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर विंकल

वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् ॥१२॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे नवमेऽध्याये ध्रुवकृता  
भगवत्स्तुतिः सम्पूर्णा ।

### ३५—श्रीलक्ष्मीनृसिहस्तोत्रम्

श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे  
भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते ।  
योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत  
लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ १ ॥  
ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि-  
सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त ।

रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोकी भी कामना पूर्ण करके उनकी  
संसार-भयसे रक्षा करते रहते हैं ॥ १२ ॥

हे अति शोभायमान क्षीर समुद्रमें निवास करनेवाले, हाथमें चक्र  
धारण करनेवाले, नागनाथ ( शेषजी ) के फणोंकी मणियोंसे देदीप्यमान  
मनोहर मूर्तिवाले ! हे योगीश ! हे सनातन ! हे शरणागतवत्सल ! हे  
संसारसागरके लिये नौकास्वरूप ! श्रीलक्ष्मीनृसिंह ! मुझे अपने करकमलका  
सहारा दीजिये ॥ १ ॥ आपके अमल चरणकमल ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, मरुत्  
और सूर्य आदिके किरीटोंकी कोटियोंके समूहसे अति देदीप्यमान हो रहे हैं ।  
हे श्रीलक्ष्मीजीके कुचकमलके राजहंस श्रीलक्ष्मीनृसिंह ! मुझे अपने कर-

लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस । लक्ष्मी० ॥ २ ॥  
संसारघोरगहने चरतो मुरारे

मारोग्रभीकरमृगप्रवरार्दितस्य ।

आर्तस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य । लक्ष्मी० ॥ ३ ॥

संसारकूपमतिघोरमगाधमूलं

सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य ।

दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य । लक्ष्मी० ॥ ४ ॥

संसारसागरविशालकरालकाल-

नक्रग्रहग्रसननिग्रहविग्रहस्य ।

व्यग्रस्य रागरसनोर्मिनिपीडितस्य । लक्ष्मी० ॥ ५ ॥

कमलका सहारा दीजिये ॥ २ ॥ हे मुरारे ! संसाररूप गहन वनमें विचरते हुए कामदेवरूप अति उग्र और भयानक मृगराजसे पीड़ित तथा मत्सररूप घामसे सन्तप्त अति आर्तको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ३ ॥ संसाररूप अति भयानक और अगाध कूपके मूलमें पहुँचकर जो सैकड़ों प्रकारके दुःखरूप सर्पोंसे व्याकुल और अत्यन्त दीन हो रहा है, उस अति कृपण और आपत्ति-ग्रस्त मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह देव ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ४ ॥ संसारसागरमें अति कराल और महान् कालरूप नक्रों और ग्राहोंके ग्रसनेसे जिसका शरीर निगृहीत हो रहा है तथा आसक्ति और रसनारूप अन्तरङ्गमालासे जो अति पीड़ित है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ५ ॥ हे दयालो ! पाप जिसका बीज है,

संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्म-

शाखाशतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् ।

आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो । लक्ष्मी० ॥ ६ ॥

संसारसर्पघनवक्त्रभयोग्रतीव्र-

दंष्ट्राकरालविषदग्धविनष्टमूर्तेः ।

नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शौरे । लक्ष्मी० ॥ ७ ॥

संसारदावदहनातुरभीकरोरु-

ज्वालावलीभिरति दग्धतनूरुहस्य ।

त्वत्पादपद्मसरसीशरणागतस्य । लक्ष्मी० ॥ ८ ॥

संसारजालपतितस्य

जगन्निवास

सर्वेन्द्रियार्तवडिशार्थझषोपमस्य ।

अनन्त कर्म सैकड़ों शाखाएँ है, इन्द्रियों पत्ते हैं, कामदेव पुष्प है तथा दुःख ही जिसका फल है, ऐसे संसाररूप वृक्षपर चढ़कर मैं नीचे गिर रहा हूँ; ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ६ ॥ इस संसारसर्पके विकट मुख की भयरूप उग्र दाढ़ोंके कराल-विषसे दग्ध होकर नष्ट हुए मुझको हे गरुडवाहन, क्षीरसागरशायी शौरि श्रीलक्ष्मीनृसिंह ! आप अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ७ ॥ संसाररूप दावानलके दाहसे अति आवुर और उसकी भयंकर तथा विशाल ज्वालामालाओंसे जिसके रोम दग्ध हो रहे हैं तथा जिसने आपके चरणकमल-रूप सरोवरकी शरण ली है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ८ ॥ हे जगन्निवास ! सकल इन्द्रियोंके विषयरूप वंशी [उसमें

प्रोत्खण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य । लक्ष्मी० ॥ ९ ॥

संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात-

निष्पिष्टमर्मवपुषः सकलार्तिनाश ।

प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य । लक्ष्मी० ॥ १० ॥

अन्धस्य मे हतविवेकमहाधनस्य

चौरैः प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः ।

मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य । लक्ष्मी० ॥ ११ ॥

लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो

वैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ।

ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव

फँसने ] के लिये मत्स्यके समान संसारपाशमें पड़कर जिसके तालु और मस्तक खण्डित हो गये हैं ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ हे सकलार्तिनाशन ! संसाररूप भयानक गजराजकी सूँड़के आघातसे जिसके मर्मस्थान कुचल गये हैं तथा जो प्राणप्रयाणके सदृश संसार ( जन्म-मरण ) के भयसे अति व्याकुल है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ १० ॥ हे प्रभो ! इन्द्रियनामक प्रबल चोरोंने जिसके विवेकरूप परमधनको हर लिया है तथा मोहरूप अन्धकूपके गड्ढेमें जो गिरा दिया गया है ऐसे मुझ अन्धको हे लक्ष्मीनृसिंह ! आप अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ११ ॥ हे लक्ष्मीपते ! हे कमलनाभ ! हे देवेश्वर ! हे विष्णो ! हे वैकुण्ठ ! हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! हे कमलनयन ! हे ब्रह्मण्य ! हे केशव ! हे जनार्दन ! हे वासुदेव ! हे देवेश ! मुझ दीनको

देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् ॥१२॥  
 यन्माययोजितवपुःप्रचुरप्रवाह-  
 मग्नार्थमत्र निवहोरुकरावलम्बम् ।  
 लक्ष्मीनृसिंहचरणाब्जमधुव्रतेन  
 स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण ॥१३॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

### ३६—प्रह्लादकृतनृसिंहस्तोत्रम्

प्रह्लाद उवाच

ब्रह्मादयः सुरगगा मुनयोऽथ सिद्धाः  
 सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः ।  
 नाराधितुं पुरुगुणैश्धुनापि पिप्रुः  
 किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ १ ॥

आम अपने करकमलका सशरा दीजिये ॥ १२ ॥ जिसका स्वरूप मायासे ही प्रकट हुआ है, उस प्रचुर ससारप्रवाहमे डूबे हुए पुरुषोंके लिये जो इस लोकमें अति बलवान् करावलम्बरूप है, ऐसा यह मुखप्रद स्तोत्र हस पृथ्वीतलपर लक्ष्मीनृसिंहके चरणकमलके लिये मधुकररूप शंकर ( शंकराचार्यजी ) ने रचा है ॥ १३ ॥

प्रह्लादजीने कहा—ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मुनि और सिद्ध पुरुषोंकी बुद्धि निरन्तर सत्त्वगुणमें ही स्थित रहती है। फिर भो वे अमनो धारा-प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणोंसे आपको अवतक भी संतुष्ट नहीं



मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतौज-  
 स्तेजःप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः ।  
 नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो  
 भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय ॥ २ ॥  
 विप्राद्द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ-  
 पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् ।  
 मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ-  
 प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ ३ ॥  
 नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो

कर सके । फिर मैं तो घोर असुर जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ ! क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं ? ॥ १ ॥ मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—ये सभी गुण परमपुरुष भगवान्को संतुष्ट करनेमें समर्थ नहीं हैं ! परंतु भक्तिसे तो भगवान् गजेन्द्रपर भी संतुष्ट हो गये थे ॥ २ ॥ मेरी समझसे इन बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान् प्रभु अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही परिपूर्ण हैं । उन्हें अपने लिये क्षुद्र पुरुषोंसे पूजा

मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते ।  
 यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं  
 तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ४ ॥  
 तस्मादहं विगतविकलव ईश्वरस्य  
 सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम् ।  
 नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः  
 पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥ ५ ॥  
 सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो  
 ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः ।

ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । वे करुणावश ही भोले भक्तोंके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं । जैसे अपने मुखका सौन्दर्य दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिविम्बको भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान्‌के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ इसलिये सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होनेपर भी मैं बिना किसी शङ्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब प्रकारसे भगवान्‌की महिमाको वर्णन कर रहा हूँ । इस महिमाके गानका ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्या-वश संसार-चक्रमें पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥ ५ ॥ भगवन् ! आप सत्त्वगुणके आश्रय हैं । ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं । ये हम दैत्योंकी तरह आपसे द्वेष नहीं करते ।

क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य  
 विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥ ६ ॥  
 तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य  
 मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या ।  
 लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे  
 रूपं नृसिंह विभवाय जनाः स्मरन्ति ॥ ७ ॥  
 नाहं विभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य-  
 जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् ।  
 आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा-  
 निर्हादभीतदिग्भिभादरिभिन्नखाग्रात् ॥ ८ ॥

प्रभो ! आप बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार ग्रहण करके इस जगत्के कल्याण एवं अभ्युदयके लिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं ॥ ६ ॥ जिस असुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका । अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । जैसे बिच्छू और साँपकी मृत्युसे सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्यके संहारसे सभी लोगोंको बड़ा सुख मिला है । अब सब आपके शान्त स्वरूपके दर्शनकी बाट जोह रहे हैं । नृसिंहदेव ! भयसे मुक्त होनेके लिये भक्तजन आपके इस रूपका स्मरण करेंगे ॥ ७ ॥ परमात्मन् ! आपका मुख बड़ा भयावना है । आपकी जीभ लपलपा रही है । आँखें सूर्यके समान हैं । भौंहे चढ़ी हुई है । बड़ी पैनी दाढ़ें हैं । आँतोंकी माला, खूनसे लथपथ गरदनके बाल, बर्छेकी तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजोंको भी भयभीत कर देनेवाला सिंहनाद एवं शत्रुओंको फाड़ डालनेवाले आपके इन नखोंको देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं

त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र-  
 संसारचक्रकदनाद् प्रसतां प्रणीतः ।  
 बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं  
 प्रीतोऽपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु ॥ ९ ॥  
 यस्मात्प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म-  
 शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः ।  
 दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्वियाहं  
 भूमन् भ्रमाप्ति वद मे तव दास्ययोगम् ॥ १० ॥  
 सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया  
 लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः ।

हुआ हूँ ॥ ८ ॥ दीनबन्धो ! मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और  
 उग्र संसारचक्रमे पिसनेसे ! मैं अपने कर्मपाशसे बँधकर इन भयकर  
 जन्तुओंके बीचमे डाल दिया गया हूँ । मेरे स्वामी ! आप प्रसन्न होकर  
 मुझे कब अपने उन चरणकमलोंमें बुलायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकमात्र  
 शरण और मोक्षस्वरूप है ? ॥ ९ ॥ अनन्त ! मैं जिन-जिन योनियोंमें  
 गया, उन सभी योनियोंमें प्रियके वियोग और अप्रियके संयोगसे होनेवाले  
 शोककी आगमे छुल्लसता रहा । उन दुःखोंको मिटानेकी जो दवा है, वह  
 भी दुःखरूप ही है । मैं न जाने कबमे अपनेसे अतिरिक्त वस्तुओंको  
 आत्मा समझकर इधर-उधर भटक रहा हूँ । अब आप ऐसा साधन  
 बतलाइये जिससे कि आपकी सेवा—भक्ति प्राप्त कर सकूँ ॥ १० ॥ प्रभो !  
 आप हमारे प्रिय हैं । अहैतुक हितैषी सुहृद् है । आप ही वास्तवमें सबके  
 परमाराध्य है । मैं ब्रह्माजीके द्वारा गायी हुई आपकी लीला-कथाओंका

अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो  
 दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥११॥  
 बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह  
 नार्तस्य चागदमुदन्वति मञ्जतो नौः ।  
 तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्ट-  
 स्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् ॥१२॥  
 यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद्  
 यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा ।  
 भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः  
 सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् ॥१३॥

गान करता हुआ बड़ी सुगमतासे रागादि प्राकृत गुणोंसे मुक्त होकर इस  
 संसारकी कठिनाइयोंको पार कर जाऊँगा; क्योंकि आपके चरणयुगलोंमें  
 रहनेवाले भक्त परमहंस महात्माओका सङ्ग तो मुझे मिलता ही रहेगा  
 ॥ ११ ॥ भगवान् नृसिंह ! इस लोकमें दुखी जीवोंका दुःख मिटानेके  
 लिये जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर एक क्षणके  
 लिये ही होता है ! यहाँतक कि माँ-बाप बालकको रक्षा नहीं कर सकते,  
 ओषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्रमें डूबते हुएको नौका नहीं  
 बचा सकती ॥ १२ ॥ सत्त्वादि गुणोंके कारण भिन्न-भिन्न स्वभावके  
 जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको प्रेरित करनेवाले  
 आप ही हैं । वे आपकी प्रेरणासे जिस आधारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे  
 जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साधनोंके द्वारा जिस अदृष्ट आदि-  
 की सहायतासे, जिस प्रयोजनके उद्देश्यसे जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते  
 हैं या रूपान्तरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है ॥ १३ ॥

माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः  
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः ।  
छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं

संसारचक्रमज कोऽतितरेच्चदन्यः ॥१४॥

स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना  
कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्तिः ।

चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे  
निष्पीडयमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् ॥१५॥

दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना-

मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् ।

पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणोंमें क्षोभ होनेपर माया मनः-  
प्रधान लिङ्गशरीरका निर्माण करती है । यह लिङ्ग-शरीर बलवान्, कर्ममय  
एवं अनेक नामरूपोंमें आसक्त—छन्दोमय है । यही अविद्याके द्वारा  
कल्पित मन, दस इन्द्रिय और पाँच तन्मात्रा—इन सोलह विकाररूप  
अरोंसे युक्त संसार-चक्र है । जन्मरहित प्रभो ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा  
कौन पुरुष है, जो इस मनरूप संसारचक्रको पार कर जाय ? ॥ १४ ॥  
सर्वशक्तिमान् प्रभो ! माया इस सोलह अरोवाले संसारचक्रमे डालकर  
ईखके समान मुझे पेर रही है । आप अपनी चैतन्यशक्तिसे बुद्धिके समस्त  
गुणोको सर्वदा पराजित रखते हैं और कालरूपसे सम्पूर्ण साध्य और साधनो-  
को अपने अधीन रखते हैं । मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे इससे  
बचाकर अपनी सन्निधिमें खींच लीजिये ॥ १५ ॥ भगवन् ! जिनके  
लिये संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्गमें मिलनेवाली समस्त  
भोकपालोंकी वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने त्वूव देख लिये ।

येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्रू-  
 विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥१६॥  
 तस्माद्मूस्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ  
 आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमा विरिञ्चात् ।  
 नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण  
 कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् ॥१७॥  
 कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः  
 क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः ।  
 निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्  
 कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः ॥१८॥

जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हँसते थे और उससे उनकी भौंहें थोड़ी  
 टेढ़ी हो जाती थीं, तब उन स्वर्गकी सम्पत्तियोंके लिये कहीं ठिकाना नहीं  
 रह जाता था, वे लुटती फिरती थी । किंतु आपने मेरे उन पिताको भी मार  
 डाला ॥ १६ ॥ इसलिये मैं ब्रह्मलोकतककी आयु, लक्ष्मी ऐश्वर्य और वे  
 इन्द्रियभोग, जिन्हें संसारके प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता; क्योंकि मैं  
 जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली कालका रूप धारण करके आपने उन्हें  
 ग्रस रक्खा है । इसलिये मुझे आप अपने दासोंकी सन्निधिमें ले चलिये  
 ॥ १७ ॥ विषयभोगकी बातें सुननेमें ही अच्छी लगती हैं, वास्तवमें वे  
 मृगतृष्णाके जलके समान नितान्त असत्य हैं और यह शरीर भी, जिससे  
 वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गमस्थान है । कहाँ वे मिथ्या  
 विषयभोग और कहाँ यह रोगयुक्त शरीर । इन दोनोंकी क्षणभङ्गुरता और  
 असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता । वह कठिनाईसे  
 प्राप्त होनेवाले भोगके नन्हे-नन्हे मधुविन्दुओंसे अपनी कामनाकी आग

क्वाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मि-

ज्ञातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा ।

न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया

यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरप्रसादः ॥१९॥

नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या-

ञ्जन्तोऽर्थथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि ।

संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः

सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् ॥२०॥

एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे

कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्गात् ।

बुझानेकी चेष्टा करता है ! ॥ १८ ॥ प्रभो ! कहाँ तो इस तमोगुणी असुर-  
वंशमें रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं और कहाँ आपकी अनन्त कृपा ! धन्य  
है । आपने अपना परम प्रसादस्वरूप और सकलसंतापहारी वह कर-  
कमल मेरे सिरपर रक्खा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मीजीके  
सिरपर भी कभी नहीं रक्खा ॥ १९ ॥ दूसरे संसारी जीवोंके समान आपमें  
छोटे-बड़ेका भेदभाव नहीं है; क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण  
प्रेमी हैं । फिर भी कल्पवृक्षके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन-भजनसे  
ही प्राप्त होता है । सेवाके अनुसार ही जीवोंपर आपकी कृपाका उदय  
होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है ॥ २० ॥  
भगवन् ! यह संसार एक ऐसा अँधेरा कुआँ है, जिसमें कालरूप  
सर्प इसनेके लिये सदा तैयार रहता है । विषय-भोगोंकी इच्छावाले पुरुष  
उसीमें गिरे हुए हैं । मैं भी सङ्गवश उसके पीछे उसीमें गिरने जा रहा



कृत्वाऽऽत्मसात्सुरर्षिणा भगवन्गृहीतः

सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् ॥२१॥

मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च

मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम् ।

खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु-

स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि ॥२२॥

एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्व-

माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च ।

सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं

नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः ॥२३॥

या । परंतु भगवन् ! देवर्षि नारदने मुझे अपनाकर बचा लिया । तब भला, मैं आपके भक्तजनोंकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ ॥ २१ ॥ अनन्त ! जिस समय मेरे पिताने अन्याय करनेके लिये कमर कसकर हाथमे खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि 'यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ,' उस समय आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वध किया । मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियोंका वचन सत्य करनेके लिये ही वैसा किया था ॥ २२ ॥ भगवन् ! यह सम्पूर्ण जगत् एकमात्र आप ही हैं; क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमें आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें इसकी प्रतीतिके रूपमें भी केवल आप ही हैं । आप अपनी मायासे गुणोंके परिणामस्वरूप इस जगत्की सृष्टि करके इसमें पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और उन गुणोंसे

त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो

माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था ।

यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च

तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः ॥२४॥

न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये

शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः ।

योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्र-

स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे ॥२५॥

युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं ॥ २३ ॥ भगवन् ! यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं । अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी माया है; क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता है—जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं, तो भी गन्धतन्मात्रकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं ॥२४॥ भगवन् ! आप इस सम्पूर्ण विश्वको स्वयं ही अपनेमें समेटकर आत्म-सुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं । उस समय अपने स्वयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बंदकर आप अपने स्वरूपके प्रकाशमें निद्राको विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित रहते हैं । उस समय आप न तो तमोगुणसे ही युक्त होते और न तो विषयोंको ही स्वीकार करते हैं ॥ २५ ॥

तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या -  
सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् ।

अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे-

र्नाभेरभूत्स्वकणिकावटवन्महाब्जम् ॥२६॥

तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान-

स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य ।

नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो

जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् ॥२७॥

स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं

कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः ।

आप अपनी काल-शक्तिसे प्रकृतिके गुणोको प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका ही शरीर है । पहले यह आपमें ही लीन था । जब प्रलयकालीन जलके भीतर शेष-शय्यापर शयन करनेवाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब वटके बीजसे विशाल वृक्षके समान आपकी नाभिसे ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ उसपर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी प्रकट हुए । जब उन्हें कमलके सिवा और कुछ भी दिखायी न पड़ा, तब अपनेमे बीजरूपसे व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपनेसे बाहर समझकर जलके भीतर घुसकर सौ वर्षतक हूँदते रहे । परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला । यह ठीक ही है; क्योंकि अङ्कुर उग आनेपर उसमे व्याप्त बीजको कोई बाहर अल्पा कैसे देख सकता है ॥ २७ ॥ ब्रह्माको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे हारकर कमलपर बैठ गये । बहुत समय बीतनेपर तीव्र तपस्या करनेसे जब उनका हृदय

त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं  
 भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥२८॥  
 एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु-  
 नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् ।  
 मायाम सदुपलक्षितसन्निवेशं  
 दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥२९॥  
 तस्मै भवान् ह्यशिरस्तनुवं च बिभ्रद्  
 वेद्द्रुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ ।  
 हत्वाऽऽनयच्छ्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च  
 सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३०॥  
 इत्थं नृतिर्यगृषिदेवज्ञपावतारै-  
 लोकेभ्यो विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् ।

शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप अपने शरीरमें ही ओतप्रोतरूपसे स्थित आपके सूक्ष्मरूपका साक्षात्कार हुआ—ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गन्धका होता है ॥२८॥ विराट् पुरुष, सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जङ्घा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधोंसे सम्पन्न था । चौदहों लोक उसके विभिन्न अङ्गोंके रूपमें शोभायमान थे । वह भगवान्की एक लीलामयी मूर्ति थी । उसे देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द हुआ ॥२९॥ रजोगुण और तमोगुणरूप मधु और कैटभ नामके दो बड़े बलवान् दैत्य थे । जब वे वेदोंको चुराकर ले गये, तब आपने ह्यग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनोंको मारकर सत्त्वगुणरूप श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दीं । वह सत्त्वगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है—महात्मालोग इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥ ३० ॥ पुरुषोत्तम ! इस प्रकार आप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकोंका पालन तथा

धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तं

छन्नः कलौ यद्भवन्नियुगोऽथ स त्वम् ॥३१॥

नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ

सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् ।

कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तं

तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः ॥३२॥

जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृप्ता

शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् ।

घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् क्व च कर्मशक्ति-

विश्वके द्रोहियोंका संहार करते हैं । इन अवतारोंके द्वारा आप प्रत्येक युगमें उसके धर्मोंकी रक्षा करते हैं । कलियुगमें आप छिपकर गुणरूपसे ही रहते हैं, इसीलिये आपका एक नाम 'त्रियुग' भी है ॥ ३१ ॥ वैकुण्ठनाथ ! मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा है । वह पाप-वासनाओसे तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट है । वह प्रायः ही कामनाओके कारण आतुर रहता है और हर्ष-शोक, भय एवं लोक-परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल रहता है । इसे आपकी लीला-कथाओंमें तो रस ही नहीं मिलता । इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ । ऐसे मनसे मैं आपके स्वरूपका चिन्तन कैसे करूँ ? ॥ ३२ ॥ अच्युत ! यह कभी न अघानेवाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसोंकी ओर खींचती रहती है । जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीकी ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्शकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान मधुर संगीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी ओर और ये चपल नेत्र सौन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते हैं । इसके सिवा कर्मेन्द्रियों भी अपने-अपने विषयोंकी ओर ले जानेको जोर लगाती ही रहती हैं । मेरी तो वह दशा

बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥३३॥  
 एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या-  
 मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् ।  
 पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं  
 हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥३४॥  
 को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास  
 उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः ।  
 मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो  
 किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥३५॥  
 नैवोद्विजे पर दुरत्ययवैतरण्या-

हो रही है, जैसे किसी पुरुषकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे अपने-अपने शयन-  
 गृहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे घसीट रही हों ॥ ३३ ॥ इस प्रकार यह  
 जीव अपने कर्मोंके बन्धनमे पड़कर इस ससाररूप वैतरणी नदीमें गिरा  
 हुआ है । जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोंके द्वारा कर्मभोग करते-  
 करते यह भयभीत हो गया है । यह अपना है, यह पराया है—इस प्रकारके  
 भेद-भावसे युक्त होकर किसीसे मित्रता करता है तो किसीसे शत्रुता । आप  
 इस मूढ़ जीव जातिकी यह दुर्दशा देखकर करुणासे द्रवित हो जाइये । इस  
 भव-नदीसे सर्वदा पार रहनेवाले भगवन् ! इन प्राणियोंको भी अब पार  
 लगा दीजिये ॥ ३४ ॥ जगद्गुरो ! आप इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा  
 पालन करनेवाले हैं । ऐसी अवस्थामें इन जावोंको इस भव-नदीके पार  
 उतार देनेमें आपको क्या प्रयास है ? दीनजनोंके परमहितैषी प्रभो ! भूले-  
 भटके मूढ ही महान् पुरुषोंके विशेष अनुग्रहपात्र होते हैं । हमें उसकी  
 कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हम आपके प्रियजनोंकी सेवामें लगे  
 रहते हैं, इसलिये पार जानेकी हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती ॥ ३५ ॥  
 परमात्मन् ! इस भव-वैतरणीसे पार उतरना दूसरे लोगोंके लिये अवश्य  
 ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा

स्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः ।

शोचै ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ-  
मायासुखाय भरमुद्धततो विमूढान् ॥३६॥

प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा  
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको  
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥३७॥

यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं  
कण्ठयनेन करयोश्चि दुःखदुःखम् ।

तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः

चित्त इस वैतरणीमे नहीं, आपकी उन लीलाओके गानमे मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृतको भी तिरस्कृत करनेवाली—परमामृतस्वरूप हैं । मैं उन मूढ़ प्राणियोंके लिये शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगानसे विमुख रहकर इन्द्रियोंके विषयोका मायामय झूठा सुख प्राप्त करनेके लिये अपने सिरपर सारे ससारका भार ढोते रहते हैं ॥ ३६ ॥ मेरे स्वामी ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी मुक्तिके लिये निर्जन वनमे जाकर मौनव्रत धारण कर लेते हैं । वे दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है । मैं इन भूले हुए असहाय गरीबोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियोंके लिये आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥ ३७ ॥ घरमे फँसे हुए लोगोंको जो मैथुन आदिका सुख मिलता है, वह अत्यन्त तुच्छ एवं दुःखरूप ही है—जैसे कोई दोनों हाथोंसे खुजला रहा हो तो उस खुजलीमें पहले उसे कुछ थोड़ा-सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछेसे दुःख-ही-दुःख होता है । किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर भी इन विषयोंसे अघाते नहीं ।

कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥३८॥  
 मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म-  
 व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः ।  
 प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां  
 वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम् ॥३९॥  
 रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे  
 बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य ।  
 युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां  
 योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् ॥४०॥

इसके विपरीत वीर पुरुष जैसे खुजलाहटको सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगोंको भी सह लेते हैं । सहनेसे ही उनका नाश होता है ॥३८॥ पुरुषोत्तम ! मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध हैं—मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्रश्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मपालन, युक्तियोंसे शास्त्रोकी व्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि, परंतु जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उनके लिये ये सब जीविकाके साधन—व्यापारमात्र रह जाते हैं और दम्भियोंके लिये तो जबतक उनकी पोल खुलती नहीं तभीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते हैं और मंडाफोड़ हो जानेपर वह भी नहीं ॥ ३९ ॥ वेदोंने बीज और अङ्कुरके समान आपके दो रूप बताये हैं—कार्य और कारण । वास्तवमें आप प्राकृतरूपसे रहित हैं । परंतु इन कार्य और कारणरूपोंको छोड़कर आपके शानका कोई और साधन भी नहीं है । काष्ठमन्थनके द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्तियोगकी साधनासे आपको कार्य और कारण दोनोंमें ही ढूँढ़ निकालते हैं; क्योंकि वास्तवमें ये दोनों



त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः  
 प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च ।  
 सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्  
 नान्यत् त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् ॥४१॥  
 नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये  
 सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः ।  
 आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा-  
 मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् ॥४२॥  
 तत् तेऽर्हत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः  
 कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् ।

आपसे पृथक् नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं ॥ ४० ॥ अनन्त प्रभो ! वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, षड् तन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहङ्कार, सम्पूर्ण जातू एव सगुण और निर्गुण—सब कुछ केवल आप ही हैं । और तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे पृथक् नहीं है ॥ ४१ ॥ समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन् ! ये सत्त्वादि गुण और इन गुणोंके परिणाम महत्तत्त्वादि, देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जाननेमें समर्थ नहीं है; क्योंकि ये सब आदि-अन्तवाले हैं और आप अनादि एवं अनन्त हैं । ऐसा विचार करके शानीजन शब्दोंकी मायासे उपरत हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ परम पूज्य ! आपकी सेवाके छः अङ्ग हैं—नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोंका समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकर्मोंका चिन्तन और लीला-कथाका श्रवण ।

संसेवया त्वयि विनेति षडङ्ग्या किं

भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत ॥४३॥

नारद उवाच

एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः ।

प्रहादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥४४॥

श्रीभगवानुवाच

प्रहाद भद्रं भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम ।

वरं वृणीष्वभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् ॥४५॥

मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे ।

इस षडङ्गसेवाके बिना आपके चरणकमलोंकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? और भक्तिके बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी ? प्रभो ! आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनोंके, परमहंसोंके ही सर्वस्व है ॥ ४३ ॥

नारदजी कहते हैं—इस प्रकार भक्त प्रहादने बड़े प्रेमसे प्रकृति और प्राकृत गुणोंसे रहित भगवान्के स्वरूपभूत गुणोंका वर्णन किया । इसके बाद वे भगवान्के चरणोंमें सिर झुकाकर चुप हो गये । नृसिंहभगवान्का क्रोध शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नतासे बोले ॥ ४४ ॥

श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा—परम कल्याणस्वरूप प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । दैत्यश्रेष्ठ ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी ओ अमिलाषा हो, मुझसे माँग लो । मैं जीवोंकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला हूँ ॥ ४५ ॥ आयुष्मन् ! जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन

दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति ॥४६॥  
 प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः ।  
 श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम् ॥४७॥  
 एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः ।  
 एकान्तित्वाद् भगवति नैच्छत् तानसुरोत्तमः ॥४८॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे नवमेऽध्याये प्रह्लादकृतं  
 नृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



मिलना बहुत ही कठिन है । परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब फिर प्राणीके हृदयमें किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती ॥ ४६ ॥ मैं समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ । इसलिये सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान् साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न करनेका ही यत्न करते हैं ॥ ४७ ॥ असुरकुलभूषण प्रह्लादजी भगवान्के अनन्य प्रेमी थे, इसलिये बड़े-बड़े लोगोको प्रलोभनमें डालने-वाले वरोंके द्वारा प्रलोभित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की ॥ ४८ ॥



# रामस्तोत्राणि



## ३७—श्रीरामरक्षास्तोत्रम्

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीता-  
रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान्  
कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थं रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ।

अथ ध्यानम्

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं  
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ।  
वामाङ्गारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं  
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुखजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॥

इस रामरक्षास्तोत्रमन्त्रके बुधकौशिक ऋषि हैं । सीता और रामचन्द्र देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, सीता शक्ति हैं, श्रीमान् हनुमान्जी कीलक हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये रामरक्षास्तोत्रके जपमें विनियोग किया जाता है ।

ध्यान—जो धनुष-बाण धारण किये हुए हैं, बद्धपद्मासनसे विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदलसे स्पर्धा करते तथा वामभागमें विराजमान श्रीसीताजीके मुखकमलसे मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु, मेघश्याम, नाना प्रकारके अलङ्कारोंसे विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करे ।

## स्तोत्रम्

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।  
 एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥ १ ॥  
 ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् ।  
 जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥ २ ॥  
 सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम् ।  
 खलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥ ३ ॥  
 रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।  
 शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ ४ ॥  
 कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।

श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ विस्तारवाला है और उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्योंके महान् पापोंको नष्ट करनेवाला है ॥ १ ॥ जो नील कमलदलके समान श्यामवर्ण, कमलनयन, जटाओंके मुकुटसे सुशोभित, हाथोंमें खड्ग, तूणीर, धनुष और बाण धारण करनेवाले, राक्षसोंके संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी लीलासे ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान् रामका जानकी और लक्ष्मणजीके सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामप्रदा और पापविनाशिनी रामरक्षाका पाठ करे। मेरे सिरकी राघव और ललाटकी दशरथात्मज रक्षा करे ॥ २-४ ॥ कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वामित्रप्रिय कानोंको सुरक्षित रखें तथा यज्ञरक्षक घ्राणकी और सौमित्रिवत्सल मुखकी

घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५ ॥  
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः ।  
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥ ६ ॥  
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।  
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ ७ ॥  
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।  
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् ॥ ८ ॥  
जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः ।  
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ ९ ॥  
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।

रक्षा करें ॥ ५ ॥ मेरी जिह्वाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतवन्दित, कन्धोंकी दिव्यायुध और भुजाओंकी भग्नेशकार्मुक ( महादेवजीका घनुष तोड़नेवाले ) रक्षा करें ॥ ६ ॥ हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित् ( परशुरामजीको जीतनेवाले ), मध्यभागकी खरध्वंसी ( खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नाभिकी जाम्बवदाश्रय ( जाम्बवान्के आश्रयस्वरूप ) रक्षा करें ॥ ७ ॥ कमरकी सुग्रीवेश ( सुग्रीवके स्वामी ), सक्थियोकी हनुमत्प्रभु और ऊरुओंकी राक्षसकुल-विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें ॥ ८ ॥ जानुओंकी सेतुकृत्, जङ्घाओंकी दशमुखान्तक ( रावणको मारनेवाले ), चरणोंकी विभीषणश्रीद ( विभीषण-को ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ) और सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें ॥ ९ ॥ जो पुण्यवान् पुरुष रामबलसे सम्पन्न इस रक्षाका पाठ करता है, वह

स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।

न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।

नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥

जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् ।

यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् ।

अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥१४॥

आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः ।

दीर्घायुः, सुखी, पुत्रवान्, विजयी और विनयसम्पन्न हो जाता है ॥ १० ॥

जो जीव पाताल, पृथ्वी, अथवा आकाशमें विचरते हैं और जो

■अवेशसे घूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित पुरुषको देख भी

नहीं सकते ॥ ११ ॥ 'राम', 'रामभद्र', 'रामचन्द्र' इन नामोंका स्मरण करने-

से मनुष्य पापोंसे लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता

है ॥ १२ ॥ जो पुरुष जगत्को विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र रामनामसे

सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता है ( अर्थात् इसे कण्ठस्थ कर

लेता है ), सम्पूर्ण सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं ॥ १३ ॥ जो

मनुष्य वज्रपञ्जर नामक इस रामकवचका स्मरण करता है, उसकी आज्ञाका

कहीं उल्लङ्घन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मङ्गलकी

प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ श्रीशंकरने रात्रिके समय स्वप्नमें इस रामरक्षाक

तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥  
 आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् ।  
 अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः ॥१६॥  
 तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।  
 पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥  
 फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।  
 पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥  
 शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।  
 रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमां ॥१९॥  
 आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगानिषङ्गसङ्गिनौ ।

जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागनेपर बुध-  
 कौशिकने इसे लिख दिया ॥ १५ ॥ जो मानो कल्पवृक्षोंके वगीचे हैं  
 तथा समस्त आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जा तीनों लोकोंमें  
 परम सुन्दर है वे श्रीमान् राम हमारे प्रभु हैं ॥१६॥ जा तरुण अवस्थावाले  
 रूपवान्, सुकुमार, महाबली, कमलके समान विशाल नेत्रवाले, चीरवस्त्र  
 और कृष्णमृगचर्मधारी, फल-मूल आहार करनेवाले, सयमी, तपस्वी,  
 ब्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, समस्त धनुषारियोंमें श्रेष्ठ  
 और राक्षसकुलका नाश करनेवाले हैं वे रघुश्रेष्ठ दशरथकुमार राम  
 और लक्ष्मण दोनो भाई हमारी रक्षा करे ॥ १७-१९ ॥ जिन्होंने सन्धान  
 किया हुआ धनुष ले रक्खा है, जो वाण ता स्पर्श कर रहे है तथा अश्वय  
 बाणोंसे युक्त तूणीर लिये हुए हैं वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करनेके लिये



रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् । २० ।

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा ।

गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥ २१ ॥

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।

काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥ २२ ॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः ।

जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २३ ॥

इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।

अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४ ॥

रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।

स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः ॥ २५ ॥

मार्गमे सदा ही मेरे आगे चलें ॥ २० ॥ सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथमें खड्ग लिये, धनुष-बाण धारण किये तथा युवा अवस्थावाले भगवान् राम-लक्ष्मणजीके सहित आगे-आगे चलकर हमारे मनोरथोंकी रक्षा करे ॥ २१ ॥ ( भगवान्का कथन है कि ) राम, दाशरथि, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीवल्लभ, श्रीमान् और अप्रमेयपराक्रम—इन नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक जप करनेसे मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञसे भी अधिक फल प्राप्त करता है—इसमे कोई सन्देह नहीं ॥ २२—२४ ॥ जो लोग दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमलनयन, पीताम्बरधारी भगवान् रामका इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते ॥ २५ ॥

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं  
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।  
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं  
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥२६॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम

श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि

लक्ष्मणजीके पूर्वज रघुकुलमे श्रेष्ठ, सीताजीके स्वामी, अति सुन्दर, काकुत्स्थकुलनन्दन, करुणासागर, गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथपुत्र, श्याम और शान्तमूर्ति, सम्पूर्ण लोकोमे सुन्दर, रघुकुलतिलक, राघव और रावणारि भगवान् रामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २६ ॥ राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातृस्वरूप, रघुनाथ प्रभु सीतापतिको नमस्कार है ॥ २७ ॥ हे रघुनन्दन श्रीराम ! हे भरताग्रज भगवान् राम ! हे रणधीर प्रभु राम ! आप मेरे आश्रय होइये ॥ २८ ॥ मैं श्रीरामचन्द्रके चरणोका मनसे स्मरण

श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।  
 श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि  
 श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥  
 माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः  
 स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ।  
 सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-  
 नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥  
 दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ।  
 पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥३१॥  
 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं  
 राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् ।  
 कारुण्यरूपं करुणाकरं तं

करता हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ राम मेरी माता है, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं । दयामय रामचन्द्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसीको मैं नहीं जानता—बिल्कुल नहीं जानता ॥ ३० ॥ जिनकी दायी ओर लक्ष्मणजी, बायी ओर जानकीजी और सामने हनुमान्जी विराजमान हैं, उन रघुनाथजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३१ ॥ जो सम्पूर्ण लोकोंमें सुन्दर, रणक्रीडामें धीर, कमलनयन, रघुवशनायक, करुणामूर्ति और करुणाके भण्डार हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरण

श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥  
 मनोजवं मारुततुल्यवेगं  
 जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।  
 वातात्मजं वानरश्रुथमुख्यं  
 श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥  
 कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।  
 आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥३४॥  
 आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।  
 लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥३५॥  
 भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम् ।  
 तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ॥३६॥

लेता हूँ ॥ ३२ ॥ जिनकी मनके समान गति और वायुके समान वेग है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, उन पवननन्दन वानराग्रगण्य श्रीरामदूतकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ३३ ॥ कवितामयी डालीपर बैठकर मधुर अक्षरोंवाले 'राम-राम' इस मधुर नामको कूजते हुए वाल्मीकिरूप कोकिलकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ आपत्तियोंको हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान् रामको वारवार नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 'राम-राम' ऐसा घोष करना सम्पूर्ण ससार-बीजोंको भून डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति करानेवाला तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है ॥ ३६ ॥ राजाओंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे  
 रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।  
 रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं  
 रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥  
 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।  
 सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥  
 इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

### ३८—ब्रह्मदेवकृता श्रीरामस्तुतिः

वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतुं  
 त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तर्हृदि भाव्यम् ।

विजयको प्राप्त होते हैं । मैं लक्ष्मीपति भगवान् रामका भजन करता हूँ ।  
 जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर दिया था, मैं उनको  
 प्रणाम करता हूँ । रामसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं है । मैं उन  
 रामचन्द्रजीका दास हूँ । मेरा चित्त सदा राममें ही लीन रहे; हे राम ! आप  
 मेरा उद्धार कीजिये ॥ ३७ ॥ ( श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं—) हे  
 सुमुखि ! रामनाम विष्णुसहस्रनामके तुल्य है ! मैं सर्वदा 'राम, राम, राम'  
 इस प्रकार मनोरम राम-नाममे ही रमण करता हूँ ॥ ३८ ॥

ब्रह्माजी बोले—जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी स्थितिके कारण, आत्म-

हेयाहेयद्वन्द्वविहीनं

परमेकं

सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं दृशिरूपम् ॥ १ ॥

प्राणापानौ निश्चयबुद्ध्या हृदि रुद्ध्वा

छित्त्वा सर्वं संशयबन्धं विषयौघान् ।

पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं

वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम् ॥ २ ॥

मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं

मानातीतं मोहविनाशं मुनिबन्धम् ।

योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं

वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम् ॥ ३ ॥

ज्ञानियोंद्वारा हृदयमें ध्यान किये जानेवाले, त्याज्य और ग्राह्यरूप द्वन्द्वसे रहित, सबसे परे, अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमें विराजमान और साक्षीस्वरूप हैं, उन आप भगवान् विष्णुदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने सम्पूर्ण संशयबन्धन और विषय-वासनाओंका छेदन कर जिस ईश्वरका दर्शन करते हैं, उन रत्न-किरीटधारी, सूर्यके समान तेजस्वी भगवान् रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो मायासे परे, लक्ष्मीके पति, सबके आदिकारण, जगत्के उत्पत्तिस्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसे वन्दनीय, योगियोंसे ध्यान किये जाने योग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण संसारको आनन्दित करनेवाले हैं, उन परम सुन्दर भगवान् रामको मैं प्रणाम करता

भावाभावप्रत्ययहीनं भवमुख्यै-

योगासक्तैरचितपादाम्बुजयुग्मम् ।

नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं

वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम् ॥ ४ ॥

त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी

मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी ।

भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी

योगाम्यासैर्भावितचेतःसहचारी ॥ ५ ॥

त्वामाद्यन्तं लोकततीनां परमीशं

लोकानां नो लौकिकमानैरधिगम्यम् ।

ॐ ॥ ३ ॥ जो भाव और अभावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे रहित हैं तथा जिनके युगल चरणकमलोका योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अनन्त है, सम्पूर्ण दानवोंके लिये दावानलके समान उन ओङ्कार नामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥४॥ हे राम ! आप मेरे प्रभु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योंको पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश-कालादि मान (परिमाण) से रहित नारायणस्वरूप, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, भक्तिसे प्राप्य, अपने स्वरूपका ध्यान किये जानेपर संसार-भयको दूर करनेवाले और योगाम्याससे शुद्ध हुए चित्तमें विहार करनेवाले है ॥ ५ ॥ आप इस लोक-परम्पराके आदि और अन्त (अर्थात् उत्पत्ति और प्रलयके स्थान) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं, आप किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने

भक्तिश्रद्धाभावसमेतैर्भजनीयं

वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम् ॥ ६ ॥

को वा ज्ञातुं त्वामतियानं गतमानं

मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम् ।

वृन्दारण्ये

वन्दितवृन्दारकवृन्दं

वन्दे रामं भवमुखवन्द्यं सुखकन्दम् ॥ ७ ॥

नानाशास्त्रैर्वेदकदम्बैः प्रतिपाद्यं

नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनादिम् ।

मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नं

नहीं जा सकते, आप भक्ति और श्रद्धासम्पन्न पुरुषोंद्वारा भजन किये जाने योग्य हैं, ऐसे नीलकमलके समान श्यामसुन्दर आप श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ हे लक्ष्मीपते ! आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तथा सर्वथा निर्मान हैं। मायामे आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमें समर्थ हो सकता है ? आप अनुपम और महर्षियोंके माननीय हैं तथा ( कृष्णावतारके समय ) वृन्दावनमें अखिल देवसमूहकी वन्दना करनेवाले और रामरूपसे शिव आदि देवताओके स्वयं वन्दनीय हैं, ऐसे आप आनन्दघन भगवान् रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ जो नाना शास्त्र और वेदसमूहसे प्रतिपादित, नित्य आनन्दस्वरूप, निर्विकल्प, ज्ञानस्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके लिये मनुष्यरूप धारण किया है, उन मरकतमणिके समान नीलवर्ण मथुरानाथ\* भगवान् रामको प्रणाम

\* यहाँ भगवान् रामको मथुरानाथ कहकर श्रीराम और श्रीकृष्णकी अमित्रता प्रकट की है ।



वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशम् ॥ ८ ॥

श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं

ब्राह्मं ब्रह्मज्ञानविधानं भुवि मर्त्यः ।

रामं श्यामं कामितकामप्रदमीशं

ध्यात्वा ध्याता पातकजालैर्विगतः स्यात् ॥ ९ ॥

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशसर्गे

श्रीब्रह्मदेवकृता श्रीरामस्तुतिः सम्पूर्णा ।

## ३६—जटायुकृतश्रीरामस्तोत्रम्

जटायुरुवाच

अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् ।

उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् ॥ १ ॥

करता हूँ ॥ ८ ॥ इस पृथ्वीपर जो मनुष्य इच्छित कामनाओको पूर्ण करनेवाले श्याममूर्ति भगवान् रामका ध्यान करते हुए ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञानविधायक आद्य स्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष सम्पूर्ण पापजालसे मुक्त हो जायगा ॥ ९ ॥

जटायु बोला—जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय हैं, जगत्के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदिके हेतु हैं, उन परम शान्तस्वरूप परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी मैं निरन्तर वन्दना करता

निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम् ।  
 नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तम् ॥२॥  
 त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्यं रविशतभासुरमीहितप्रदानम् ।  
 शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ ३ ॥  
 भवविपिनदवाग्निनामधेयं भवमुखदैवतदैवतं दयालुम् ।  
 दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं रवितनयासदृशं हरिं प्रपद्ये ॥ ४ ॥  
 अविरतभवभावनातिदूरं भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यम् ।  
 भवजलधिसुतारणाङ्घ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ ५ ॥

हूँ ॥ १ ॥ जो असीम आनन्दमय और श्रीकमलादेवीके कटाक्षके आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवगणोंका दुःख दूर करनेवाले हैं, उन घनुष-त्राणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान् हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी हैं तथा वाञ्छित फल देनेवाले हैं, उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदयमें रहनेवाले श्रीरघुनाथजीको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ जिनका नाम संसाररूप वनके लिये दावानलके समान है, जो महादेव आदि देवताओंके भी पूज्य देव हैं तथा जो सहस्रों करोड़ दानवेन्द्रोंको दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान व्यामवर्ण हैं, उन दयामय श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ जो संसारमे निरन्तर वासना रखनेवालोंसे अत्यन्त दूर है और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) संसारसागरसे पार करनेवाले हैं, उन रघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ५ ॥ जो

गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणीमीहिताभिरामम् ।  
 सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिं सुखदं रघुनायकं प्रपद्ये ॥६॥  
 परधनपरदारवर्जितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम् ।  
 परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुरामञ्चुजलोचनं प्रपद्ये ॥७॥  
 स्मितरुचिरविकासिताननाब्जमतिमुलभं सुरराजनीलनीलम् ।  
 सितजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमोक्षगुरोर्गुरुं प्रपद्ये ॥८॥  
 हरिकमलजम्भुरूपभेदाच्चमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः ।

श्रीमहादेव और पार्वतीजीके मन-मन्दिरमें निवास करते हैं, जिनकी लीलाएँ अति मनोहारिणी हैं तथा देव और अपुरपतिगण जिनके चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनायककी मैं शरण लेता हूँ ॥ ६ ॥ जो परधन और परस्त्रीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और परायी विभूतिको देख कर प्रसन्न होते हैं, उन निरन्तर परोपकारपरायण महात्माओंसे सुसेवित कमलनयन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुखकमल मनोहर, मुखरूपसे विकसित हो रहा है, जो भक्तोंके लिये अति सुष्ठु हैं, जिनके शरीरकी कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेतकमलकी-सी शोभावाले हैं, उन श्रीगुरु महादेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथ-जीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! जलसे भरे हुए पात्रोंमें जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंकी वृत्तिके कारण आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे भासित होते हैं । हे ईश ! आप देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र हैं, मैं आपकी

रविरिव जलपूरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ ९ ॥

रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरम् ।

यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये ॥१०॥

इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघूत्तमः ।

उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदम् ॥११॥

शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत् ।

स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत् ॥१२॥

इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विजः ।

रघुनन्दनसाम्बमास्थितः प्रथयौ ब्रह्मसुपूजितं पदम् ॥१३॥

इति श्रीमद्भ्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डेऽष्टमे सर्गे जटायुकृत श्रीरामस्तोत्र सम्पूर्णम् ।



स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥ आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मार्गोंमें कैसे हुए लोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं और यतीश्वरोंके हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं । ऐसे आप आर्तिहर प्रभु रघुपतिकी मैं शरण लूँगा हूँ ॥ १० ॥ जटायुकें इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी उसपर प्रसन्न होकर बोले—‘जटायो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परमब्राम विष्णुशेकको जाओ’ ॥ ११ ॥ जो पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुने, लिखे अथवा रढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा ॥१२॥ पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन बड़े हर्षसे सुना और उन्हींके समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि लोकपालोंसे पूजित परमधामको चला गया ॥ १३ ॥



## ४०—इन्द्रकृतश्रीरामस्तोत्रम्

इन्द्र उवाच

भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं

भवारण्यदावानलाभाभिधानम् ।

भवानीहृदा भावितानन्दरूपं

भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम् ॥ १ ॥

सुरानीकदुःखौघनाशकहेतुं

नराकारदेहं निराकारमीड्यम् ।

परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं

हरिं राममीशं भजे भारनाशम् ॥ २ ॥

प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं

प्रपन्नार्तिनिःशेषनाशाभिधानम् ।

इन्द्र बोले—जो नीलकमलकी-सी आभावाले हैं, संसाररूप वनके लिये; जिनका नाम दावानलके समान है, श्रीपार्वतीजी जिनके आनन्द-स्वरूपका हृदयमें ध्यान करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुड़ानेवाले हैं और शंकरादि देवोंके आश्रय हैं, उन भगवान् रामको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ जो देवमण्डलके दुःखसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी, आकारहीन और स्तुति किये जाने योग्य हैं, पृथ्वीका भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परमानन्दरूप पूजनीय भगवान् रामको मैं भजता हूँ ॥ २ ॥ जो शरणागतोंको सब

तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं

कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम् ॥ ३ ॥

सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं

सदा योगभाजामदूरे विभान्तम् ।

चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं

विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये ॥ ४ ॥

महायोगमायाविशेषानुयुक्तो

विभासीक्ष लीलानराकारवृत्तिः ।

त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णाः

सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ ५ ॥

अहं मानपानाभिमतप्रमत्तो

ग्रकारका आनन्द देनेवाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र हैं, उन मित्ररूप भगवान् रामको मैं भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो भोगपरायण लोगोसे सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषोंके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीके लिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको मैं सर्वदा भजता हूँ ॥ ४ ॥ हे भगवन्! आप अपनी महायोगमायाके गुणोंसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं। जिनके कर्ण आपको इन आनन्दमयी लीलाओंके कथामृतसे पूर्ण होते हैं, वे संसारमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥ ५ ॥ प्रभो! मैं

न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः ।

इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात्  
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥ ६ ॥

स्फुरद्रत्नकैयूरहाराभिरामं

धराभारभूतासुरानीकदावम् ।

शरच्चन्द्रवक्त्रं लसत्पद्मनेत्रं  
दुरावारपारं भजे राघवेशम् ॥ ७ ॥

सुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकान्तिं

विराधादिरक्षोवधात्लोकशान्तिम् ।

किरीटादिशोभं

पुरारातिलाभं

तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतवाला हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे किसीको कुछ भी नहीं समझता था । अब आपके चरणवमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका अभिमान चूर हो गया ॥ ६ ॥ जो चमचमाते हुए रत्नजटित भुजवंद और हारोंसे सुशोभित हैं, पृथ्वीके भाररूप राक्षसोंकी सेनाके लिये दावानलके समान हैं, जिनका शरच्चन्द्रके समान मुख और अति मनोहर नेत्रकमल हैं तथा जिनका आदि अन्त जानना अत्यन्त कठिन है, उन रघुनाथजीको मैं भजता हूँ ॥७॥ जिनके शरीरकी इन्द्रनीलमणि और मेघके समान श्याम कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसोंको मारकर सम्पूर्ण लोकोमें शान्ति स्थापित की है, उन किरीटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेवजीके परमधन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको मैं भजता

भजे रामचन्द्रं रघूणामधीशम् ॥ ८ ॥  
लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे

समासीनमङ्गे समाधाय सीताम् ।  
स्फुरद्वेगवर्णा तडित्पुञ्जभासां  
भजे रामचन्द्रं निवृत्तार्तितन्द्रम् ॥ ९ ॥  
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशसर्गे  
इन्द्रकृतश्रीरामस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

### ४१--रामाष्टकम्

कृतार्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनम् ।  
सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् ॥ १ ॥  
मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम् ।

हूँ ॥ ८ ॥ जो तेजोमय सुवर्णकेसे वर्णवाली और विजलीके समान कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओंके समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं, उन दुःख और आलस्यसे हीन भगवान् रामको मैं भजता हूँ ॥ ९ ॥

आर्त देवताओंने जिनकी वन्दना की है, जो सूर्यवंशको आनन्दित करनेवाले हैं तथा जिनके ललाटपर चन्दन सुशोभित है, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो मुनिराज विश्वामित्रका



|                   |        |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|
| महाधनुर्विदारकं   | नमामि  | राममीश्वरम् ॥ २ ॥     |
| स्वतातवाक्यकारिणं | तपोवने | विहारिणम् ।           |
| करे सुचापधारिणं   | नमामि  | राममीश्वरम् ॥ ३ ॥     |
| कुरङ्गमुक्तसायकं  |        | जटायुमोक्षदायकम् ।    |
| प्रविद्धकीशनायकं  | नमामि  | राममीश्वरम् ॥ ४ ॥     |
| पुवङ्गसङ्गसम्मतिं |        | निबद्धनिम्नगापतिम् ।  |
| दशास्यवंशसङ्घतिं  | नमामि  | राममीश्वरम् ॥ ५ ॥     |
| विदीनदेवहर्षणं    |        | कपीप्सितार्थवर्षणम् । |
| स्वबन्धुशोककर्षणं | नमामि  | राममीश्वरम् ॥ ६ ॥     |
| गतारिराज्यरक्षणं  |        | प्रजाजनार्तिभक्षणम् । |

यज्ञ सम्पन्न करानेवाले, पाषाणरूपा अहल्याका कष्ट निवारण करनेवाले तथा श्रीशंकरका महान् धनुष तोड़नेवाले हैं, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपने पिताके वचनोका पालन करनेवाले, तपोवनमें विचरनेवाले और हाथोंमें धनुष धारण करनेवाले हैं, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जिन्होंने मायामृगपर बाण छोड़ा था, जटायुको मोक्ष प्रदान किया था तथा कपिराज बालीको विद्ध किया था, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ जिन्होंने वानरोंके साथ मित्रता की, समुद्रका पुल बाँधा और रावणके वंशका विनाश किया, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ जो अति दीन देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, वानरोंकी इच्छित कामनाओंको पूर्ण करनेवाले और अपने बन्धुओंका शोक शान्त करनेवाले हैं, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ जो शत्रुहीन ( निष्कण्टक )

कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम् ॥ ७ ॥

हृताखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरम् ।

जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् ॥ ८ ॥

इदं समाहितात्मना नरो रघूत्तमाष्टकम् ।

पठन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते ॥ ९ ॥

इति श्रीपरमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचित श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम् ।

## ४२—श्रीसीतारामाष्टकम्

ब्रह्ममहेन्द्रसुरेन्द्रमरुद्गणरुद्रमुनीन्द्रगणैरतिरम्यं

क्षीरसरित्पतितीरमुपेत्य नुतं हि सतामवितारमुदारम् ।

राज्यके पालक, प्रजाजनकी भीतिके भक्षक और मोहकी निवृत्ति करनेवाले हैं, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥

जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीका भार हरण किया, जो सकल नगरनिवासियोंको अपने स्वामको ले गये तथा जो संसाररूप अन्धकारके लिये सूर्यरूप हैं, उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस रामाष्टकको एकाग्रचित्तसे

निरन्तर पढता है, उसे संसारजनित भयकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ९ ॥

ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, मरुद्गण, रुद्र और मुनिजनोंने जब अति श्रमणीय क्षीरसागरके तटपर जाकर संत-प्रतिपालक अति उदार आपकी वन्दना की, तब भूमिका भार उतारनेके लिये जिन आपने अपनी चिद्घन मूर्तिको प्रकट किया; हे दयामय रघुनन्दन ! उन आपको

भूमिभरप्रशमार्थमथ प्रथितप्रकटीकृतचिद्घनमूर्तिम् ।  
 त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ १ ॥  
 पद्मदलायतलोचन हे रघुवंशविभूषण देव दयालो  
 निर्मलनीरदनीलतनोऽखिललोकहृद्म्बुजभासक भानो ।  
 कोमलगात्र पवित्रपदाब्जरजःकणपावितगौतमकान्त । त्वां ० ॥ २ ॥  
 पूर्ण परात्पर पालय मामतिदीनमनाथमनन्तसुखाब्धे  
 प्रावृद्धभ्रतडित्सुमनोहरपीतवराम्बर राम नमस्ते ।  
 कामविभञ्जन कान्ततरानन काञ्चनभूषण रत्नकिरीट । त्वां ० ॥ ३ ॥  
 दिव्यशरच्चछशिकान्तिहरोज्ज्वलमौक्तिकमालविशालसुमौले

भजनेवाले मुझको अपने चरण-कमलोकी दासता दीजिये ॥ १ ॥  
 हे कमलदललोचन ! हे रघुवंशावतंस ! हे देव ! हे दयालो ! हे निर्मल श्याम-  
 घनके सदृश शरीरवाले ! हे निखिललोकहृत्पद्म-प्रभाकर ! हे अति सुकुमार  
 शरीरवाले, अपने अति पुनीत चरणारविन्दोंकी धूलिसे गौतमपत्नी  
 अहल्याको पवित्र करनेवाले दयामय रघुनन्दन ! अपने भजनेवाले  
 मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ २ ॥ हे पूर्ण ! हे  
 परात्पर ! हे अनन्त सुखसागर ! मुझ अति दीन और अनाथकी रक्षा  
 करो । वर्षाकालीन अति चपल चपलाके समान मनोहर पीताम्बरधारी  
 श्रीराम ! आपको नमस्कार है । हे कन्दर्प-दर्प-दलन, हे सुन्दरवदन,  
 सुवर्ण-भूषण एवं रत्नकिरीटधारी, दयामय, रघुनन्दन ! अपने भजनेवाले  
 मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ ३ ॥ दिव्यशरच्चन्द्रकी  
 कान्तिको मलिन करनेवाली स्वच्छ मुक्तामालाको अपने सुविशाल  
 मौलिपर धारण करनेवाले, कोटि सूर्यकी-सी आभावाले, सदाचारसे पवित्र,

कोटिरविप्रभ चारुचरित्रपवित्र विचित्रधनुःशरपाणे ।

चण्डमहाभुजदण्डविखण्डितराक्षसराजमहागजदण्डम् । त्वां० । ४ ।

दोषविहिंस्रभुजङ्गसहस्रसुरशेषमहानलकीलकलापे

जन्मजरामरणोर्मिमये मदमन्मथनक्रविचक्रभवाब्धौ ।

दुःखनिधौ च चिरं पतितं कृपयाद्य समुद्धर राम ततो माम् । त्वां० । ५ ।

संसृतिघोरमदोत्कटकुञ्जरवृट्क्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं

दण्डकरोन्मथितं च रजस्तम उन्मद्मोहपदोज्झितमार्तम् ।

दीनमनन्यगति कृपणं शरणागतमाशु विमोचय मूढम् । त्वां० । ६ ॥

करकमलोंमे विचित्र धनुष-बाण धारण करनेवाले एव अपने प्रचण्ड भुजदण्डसे रावणरूपी महागजका वध करनेवाले हे दयामय श्रीरघुनन्दन ! अपने भजनेवाले मुझको आप अपने चरणकमलोकी दासता दीजिये ॥ ४ ॥ जिसमें दोषरूपी हजारो हिंसक सर्प हैं, क्रोधरूपी बडवानलकी ज्वालाएँ उठ रही हैं, जन्म-जरा-मरणरूपिणी तरङ्गावली है तथा मद और कामरूपी मगर-मच्छ और भँवर हैं, ऐसे इस दुःखमय भवसागरमें चिरकालसे पड़े हुए मुझको, हे राम ! कृपया अब निषालिये; और दयामय रघुनन्दन ! अपने भजनेवाले मुझको आप अपने चरणकमलोकी दासता दीजिये ॥ ५ ॥ तृषा और क्षुधा जिसके तीक्ष्ण दाँत हैं, ऐसा ससाररूपी एक उन्मत्त हाथी है । उसकी यमरूपी सूँड़से झटकोमे पड़े हुए तथा रज, तम, उन्माद और मोहरूप चारो पगोसे बुचले हुए अति आर्त, दीन, अनन्यशरण मुझ मूढको शीघ्र ही छुड़ाइये, और हे दयामय रघुनन्दन ! अपने भजनेवाले मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ ६ ॥

जन्मशतार्जितपापसमन्वितहृत्कमले पतिते पशुकल्पे  
हे रघुवीर महारणधीर दयां कुरु मय्यतिमन्दमनीषे ।  
त्वं जननी भगिनी च पिता मम तावदसित्ववितापि कृपालो । त्वां ० ॥७॥  
त्वां तु दयालुमकिञ्चनवत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं  
रामविहाय कमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननु यायाम् ।  
त्वत्पदपद्ममतःश्रितमेव मुदा खलु देवसदाव ससीत । त्वां ० ॥८॥  
यः करुणामृतसिन्धुरनाथजनोत्तमबन्धुरजोत्तमकारी  
भक्तभयोर्मिभवाब्धितरिः सरयूतटिनीतटचारुविहारी ।

जिसका हृदयकमल सैकड़ों जन्मोंके संचित पापोंसे युक्त है, जो पशुतुल्य पतित हो गया है, उस अति मतिमन्द मुझपर हे महारणधीर रघुवीर ! कृपा कीजिये । आप ही मेरे माता, पिता और भगिनी है तथा हे कृपालो ! आप ही मेरे रक्षक हैं । हे दयामय रघुनन्दन ! अपना भजन करनेवाले मुझको अपने चरणकमलोकी दासता दीजिये ॥ ७ ॥ हे मेरे स्वामी राम ! गलेमे कमलपुष्पोंकी माला धारण करनेवाले आप-सदृश अतिशय उदार दीनवत्सल और दयामय प्रभुको छोड़कर मैं और किस अनामय पुरुषकी शरण लूँ; अतः मैंने तो आपके ही चरणकमलोका आसरा लिया है । हे सीताजीके सहित राम ! आप प्रसन्न होकर मेरी सर्वदा रक्षा कीजिये और हे दयामय भगवान् रघुनन्दन ! आपका भजन करनेवाले मुझको अपने चरणकमलोकी दासता दीजिये ॥ ८ ॥ जो करुणारूप अमृतके समुद्र हैं, अनाथोंके उत्तम बन्धु हैं, अजन्मा और उत्तमकर्मा है, भक्तोंको भयरूप तरङ्गावलिसे पूर्ण संसारसागरसे पार करनेके लिये नौकारूप हैं और सरयू नदीके तीरपर सुन्दर लीलाएँ करनेवाले हैं, उन रघुश्रेष्ठके इस अष्टकका, जो सर्वदा सव

तस्य रघुप्रवरस्य निरन्तरमष्टकमेतदनिष्टहरं वै  
यस्तु पठेदमरः स नरो लभतेऽच्युतरामपदाम्बुजदास्यम् ॥ ९ ॥  
इति श्रीमन्मधुसूदनाभ्रमशिष्याच्युतयतिविरचितं श्रीसीतारामाष्टकं सम्पूर्णम् ।

### ४३—श्रीरामचन्द्रस्तुतिः

नमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमलं ॥  
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥ १ ॥  
निकाम श्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं ॥  
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ २ ॥  
प्रलंब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥  
निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ ३ ॥

अनिष्टोंको दूर करनेवाला है; जो पुरुष पाठ करता है, वह अमर हो जाता है और अविनाशी भगवान् रामके चरणकमलोकी दासता प्राप्त करता है ॥९॥



हे भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल स्वभाववाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ आप नितान्त सुन्दर, श्याम, ससार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये मन्दराचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रोंवाले और मद आदि दोषोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ २ ॥ हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय ( बुद्धिके परे अथवा असीम ) है । आप तरकस और धनुष-बाण धारण करनेवाले,

दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं ॥  
 मुनींद्र संत रंजनं । सुरारि वृंद भंजनं ॥ ४ ॥  
 मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥  
 विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ ५ ॥  
 नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गतिं ॥  
 भजे सशक्ति सानुजं । शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥  
 त्वदंघ्रि मूल ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥  
 पतंति नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले ॥ ७ ॥  
 विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥  
 निरस्य इन्द्रियादिकं । प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ ८ ॥

तीनों लोकोके स्वामी, ॥ ३ ॥ सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके वनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संतोंको आनन्द देनेवाले तथा देवताओंके शत्रु असुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ हे लक्ष्मीपते ! हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! स्वरूपा-शक्ति श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको मैं भजता हूँ ॥ ६ ॥ जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, वे तर्क-वितर्क ( अनेक प्रकारके संदेह ) रूपी तरंगोंसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥ ७ ॥ जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इन्द्रियादिका निग्रह करके ( उन्हें विषयोसे हटाकर ) प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गतिको ( अपने

तमेकमद्भुतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विशुं ॥  
 जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥ ९ ॥  
 भजामि भाव वल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥  
 स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥१०॥  
 अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुर्विजा पतिं ॥  
 प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥११॥  
 पठन्ति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ।  
 व्रजन्ति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥१२॥  
 इति श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासकृता श्रीरामचन्द्रस्तुतिः सम्पूर्णा ।

स्वरूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ),  
 अद्भुत ( मायिक जगत्से विलक्षण ), प्रभु ( सर्वसमर्थ ), इच्छारहित,  
 ईश्वर ( सबके स्वामी ), व्यापक, जगद्गुरु, सनातन ( नित्य ), तुरीय  
 ( तीनों गुणोसे सर्वथा परे ) और केवल अपने स्वरूपमें स्थित हैं ॥ ९ ॥  
 [ तथा ] जो भावप्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त  
 दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात् उनकी समस्त कामनाओंको  
 पूर्ण करनेवाले ), सम ( पक्षपातरहित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करने-  
 योग्य हैं, मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ १० ॥ हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे  
 जानकीनाथ ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मुझपर प्रसन्न होइये, मैं आपको  
 नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये ॥ ११ ॥ जो  
 मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिमें युक्त होकर  
 आपके परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें सदेह नहीं ॥ १२ ॥



## ४४—श्रीराममङ्गलाशासनम्

मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये ।  
 चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ १ ॥  
 वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये ।  
 पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॥ २ ॥  
 विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः ।  
 भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥  
 पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया ।  
 नन्दिताखिललोकाय शमभद्राय मङ्गलम् ॥ ४ ॥  
 त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे ।

प्रशंसनीय गुणोके सागर कौशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हो,  
 चक्रवर्ती राजा दशरथके पुत्र मण्डलेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हो ॥१॥  
 जो वेद-वेदान्तोसे ज्ञेय हैं, मेघके समान श्याममूर्तिवाले हैं और पुरुषोमे  
 जिनका स्वरूप अत्यन्त मनोहर है, उन पुण्यश्लोक ( पवित्र यशवाले )  
 श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हो ॥ २ ॥ जो विश्वामित्र ऋषिके प्रियं और  
 राजा जनकके भाग्योके फलस्वरूप हैं, उन भव्यरूपवाले श्रीरामचन्द्रजीका  
 मङ्गल हो ॥ ३ ॥ जो सदा पिताकी भक्ति करनेवाले हैं, जो  
 अपने भ्राताओं और सीताजीके साथ सुशोभित होते हैं और  
 जिन्होंने समस्त लोकको आनन्दित किया है, उन श्रीरामभद्रका मङ्गल  
 हो ॥ ४ ॥ जिन्होंने अयोध्या-निवासको छोड़कर चित्रकूटपर विहार किया

सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदयाय मङ्गलम् ॥ ५ ॥  
 सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे ।  
 संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥ ६ ॥  
 दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे ।  
 गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥ ७ ॥  
 सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे ।  
 सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्विक्ताय मङ्गलम् ॥ ८ ॥  
 हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ।  
 बालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥ ९ ॥  
 श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे ।

और जो सब यतियोके सेव्य हैं, उन धीरोदय श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ ५ ॥  
 लक्ष्मण तथा जानकीजी सदा भक्तिपूर्वक जिनकी सेवा करते हैं, जो  
 धनुष-बाण और तलवारको धारण किये हुए हैं, उन मेरे स्वामी श्रीरामभद्रका  
 मङ्गल हो ॥ ६ ॥ जिन्होंने दण्डकवनमे निवास किया है, जो खर-दूषणके  
 शत्रु हैं और अपने भक्त गृध्रराजको मुक्ति देनेवाले हैं, उन श्रीरामभद्रका  
 मङ्गल हो ॥ ७ ॥ जो आदरसहित शबरीके भी दिये हुए फल-मूलके  
 अभिलाषी हुए, जो सुलभतासे पूर्ण ( अर्थात् थोड़े ही परिश्रमसे प्राप्य ) हैं  
 और जिनमे सत्त्वगुणका आधिक्य है, उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ ८ ॥  
 जो हनुमान्जीसे युक्त हैं, हरीश ( सुग्रीव ) के अभीष्टको देनेवाले हैं  
 और बालिको मारनेवाले है, उन महाधीर श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ ९ ॥  
 जो सेतु बाँधकर समुद्रको लँघ गये और जिन्होंने राक्षसराज रावणपर

जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥१०॥  
 विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने ।  
 सर्वलोकशरणाय श्रीराघवाय मङ्गलम् ॥११॥  
 आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ।  
 राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥१२॥  
 ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने ।  
 जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् ॥१३॥  
 श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे ।  
 महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् ॥१४॥  
 मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः ।

विजय पायी, उन रणवीर श्रीमान् रघुवीरका मङ्गल हो ॥ १० ॥ जिन्होंने  
 प्रसन्नतासे विभीषणको उनका अभीष्ट लङ्काका राज्य दे दिया और जो सब  
 लोकोंको शरणमें रखनेवाले हैं, उन श्रीराघव रामभद्रका मङ्गल हो ॥ ११ ॥  
 वनसे दिव्य नगरी अयोध्यामें आनेपर जिनका सीताजीके सहित राज्याभिषेक  
 हुआ, उन महाराजाओके राजा श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ १२ ॥ जो ब्रह्मा  
 आदि देवताओंके सेव्य हैं, ब्रह्मण्य ( ब्राह्मणों और वेदोंकी रक्षा करनेवाले )  
 हैं, श्रीजानकीजीके प्राणनाथ हैं, उन रघुकुलके नाथ श्रीरामभद्रका मङ्गल  
 हो ॥ १३ ॥ जो श्रीसम्पन्न सुन्दर आकारवाले जामाता मुनिकी कृपासे  
 हमलोगोंको प्राप्त हुए हैं, उन मेरे महान् प्रभु रघुनाथजीका मङ्गल  
 हो ॥ १४ ॥ मेरे आचार्य जिनमें मुख्य हैं, उन अर्वाचीन आचार्यों तथा  
 सम्पूर्ण प्राचीन आचार्योंने मङ्गलाशासनमें परायण होकर जिनका सत्कार

सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ १५ ॥

रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतम् ।

त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा ॥ १६ ॥

इति श्रीवरवरमुनिस्वामिकृत श्रीराममङ्गलाशासन सम्पूर्णम् ।

## ४५—श्रीरामप्रेमाष्टकम्

श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रं

बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् ।

सीतासहायमुदितं धृतचापबाणं

रामं नमामि शिरसा रमणीयवेषम् ॥ १ ॥

पटुजलधरधीरध्वानमादाय चापं

किया है, उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ १५ ॥ जामातामुनिने इस सुन्दर मङ्गलाशासनका निर्माण किया है । इससे प्रसन्न होकर तीनों लोकोके पति श्रीमान् रामभद्र सदा ही मङ्गल करे ॥ १६ ॥

जो नील मेघके समान श्याम वर्ण हैं, जिनके कमलके समान विशाल नेत्र हैं, जो बन्धूक पुष्पके समान अरुण ओष्ठ, हस्त और चरणोसे शोभित हैं, जो सीताजीके साथ विराजमान एवं अभ्युदयशील हैं, जिन्होंने धनुष-बाणको धारण किया है, जिनका वेष बड़ा ही सुन्दर है, सीताजीके सहित उन श्रीरामको मैं सिरसे नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो प्रौढ मेघके समान धीर-गम्भीर टंकारध्वनि करनेवाले धनुषको धारणकर और अपने वेगसे

पवनदमनमेकं वाणमाकृष्य तूणात् ।  
 अभयवचनदायी सानुजः सर्वतो मे  
 रणहतदनुजेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ २ ॥  
 दशरथकुलदीपोऽमेयबाहुप्रतापो  
 दशवदनसक्रोपः क्षालिताशेषपापः ।  
 कृतसुररिपुतापो नन्दितानेकभूपो  
 विगततिमिरपङ्को रामचन्द्रः सहायः ॥ ३ ॥  
 कुवलयदलनीलः कामितार्थप्रदो मे  
 कृतमुनिजनरक्षो रक्षसामेकहन्ता ।  
 अपहतदुरितोऽसौ नाममात्रेण पुंसा-

वायुका भी मान-मर्दन करनेवाले एक वाणको तूणीर ( तरकस ) से खींच-  
 कर 'मत डरो' ऐसा कहते हुए अपने आश्रितोको अभय वचन देनेवाले  
 हैं तथा जिन्होंने रणमें दानवराज ( रावण ) को मारा है, लक्ष्मणके सहित  
 वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सब प्रकार सहायक हैं ॥ २ ॥ जो राजा दशरथके  
 कुलके दीपक ( प्रकाशक ) हैं, जिनके बाहुवलका प्रताप मापा नहीं जा  
 सकता, जो रावणके ऊपर क्रोध करनेवाले, समस्त पापको दूर करनेवाले,  
 असुरोंको ताप देनेवाले और अनेक राजाओंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं,  
 अज्ञान और पापसे रहित वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥ ३ ॥ जो  
 कमल-पत्रके समान श्यामवर्ण, मेरी इष्ट वस्तुओंके दाता, मुनिजनोकी रक्षा  
 करनेवाले और राक्षसोंको एकमात्र मारनेवाले हैं, जो [ अपने ] राम-नामके  
 उच्चारणमात्रसे ही पुरुषोंके पापका नाश करनेवाले हैं, समस्त देवताओं और

मखिलसुरनृपेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ४ ॥  
 असुरकुलकृशानुर्मानसाम्भोजभानुः  
 सुरनरनिकराणामग्रणीर्मे रघूणाम् ।  
 अगणितगुणसीमा नीलमेघौघधामा  
 शमदमितमुनीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ५ ॥  
 कुशिकतनययागं रक्षिता लक्ष्मणाढ्यः  
 पवनशरनिकायक्षिप्तमारीचमायः ।  
 विदलितहरचापो मेदिनीनन्दनाया  
 नयनकुमुदचन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ६ ॥  
 पवनतनयहस्तन्यस्तपादाम्बुजात्मा  
 कलशभववचोभिः प्राप्तमाहेन्द्रधन्वा ।

राजाओके स्वामी वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥ ४ ॥ जो असुर-कुल ( को भस्म करने ) के लिये अग्नि हैं, देवता और मनुष्यके समूहोके हृदय-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्य हैं, असंख्य गुणोकी सीमा हैं, नील-मेघ-मण्डलीके समान जिनका श्याम-शरीर है और जो गममे मुनीश्वरो-को भी जीतनेवाले हैं, वे रघुकुलके अग्रणी श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥५॥ जिन्होंने लक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की है और वायु-वेगवाले वाणोके समूहसे मारीच निशाचरकी मायाका नाश किया है, जो शिवजीके धनुषका भङ्गन करनेवाले तथा पृथ्वीकी पुत्री ( सीता ) के नयन-कुमुदको विकसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं, वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥ ६ ॥ जो हनुमान्जीके हाथोंपर अपने चरण-कमलोंको रक्त्वे

अपरिमितशरौघैः पूर्णतूणीरधीरो  
 लघुनिहतकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ७ ॥  
 कनकविमलकान्त्या सीतयालिङ्गिताङ्गो  
 मुनिमनुजवरेण्यः सर्ववागीशवन्द्यः ।  
 स्वजननिकरबन्धुर्लीलया बद्धसेतुः  
 सुरमनुजकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ८ ॥  
 यामुनाचार्यकृतं दिव्यं रामाष्टकमिदं शुभम् ।  
 यः पठेत् प्रयतो भूत्वा स श्रीरामान्तिकं व्रजेत् ॥ ९ ॥  
 इति यामुनाचार्यकृतं श्रीरामप्रेमाष्टकं सम्पूर्णम् ।

हुए हैं, जिन्होंने अगस्त्य ऋषिके कहनेसे इन्द्रधनुषको ग्रहण किया, जिनका तूणीर ( तरकस ) असंख्य बाणोंसे परिपूर्ण है, जो रणधीर हैं और जिन्होंने अति शीघ्रतासे वानरराज वालिको मार गिराया, वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥ ७ ॥ जो सुवर्णके समान निर्मल गौर कान्तिवाली सीताके सम्पर्कमें रहते हैं, ऋषियों और मनुष्योंने भी जिन्हें श्रेष्ठ एवं आदरणीय माना है, जो सम्पूर्ण वागीश्वरोके वन्दनीय तथा अपने भक्त-समुदायकी बन्धुके समान रक्षा करनेवाले हैं, जिन्होंने लीलासे ही समुद्रपर पुल बाँध दिया था, वे देवता, मनुष्य तथा वानरोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं ॥८॥ जो पुरुष यामुनाचार्यके रचित इस दिव्य तथा कल्याणदायक श्रीरामप्रेमाष्टक-स्तोत्रका शुद्धभावसे पाठ करता है, वह श्रीरामचन्द्रजीके सन्नि कृष्ट निवास प्राप्त करता है ९

## ४६—श्रीरामचन्द्राष्टकम्

चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनु-  
मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हृद्भुमता ।

सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु  
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ १ ॥

मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपदः

पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी ।

गिरातीतौऽगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा रमा० ॥ २ ॥

धराधीशोऽधीशः सुरनरवराणां रघुपतिः

किरीटी केयूरी कनककपिशः शोभितवपुः ।

जो ज्ञानस्वरूप है, जगत्का धारण-पोषण करनेवाले है, परमसुखके दाता है, जिनका शरीर सबको पवित्र करनेवाला है, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, यतीश्वर, देवेश्वर और हनुमान् जिनकी सदा सेवा करते हैं, जो पूर्ण हैं, सीताजी जिनकी अर्द्धाङ्गिनी हैं, जो देवताओंके भी गुरु हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मेरे चित्तमे सदा रमण करें ॥ १ ॥ जो मुकुन्द, गोविन्द नामसे कहे जाते हैं, सीताजीने जिनके चरणोंका लालन किया है, ( जिनका भजन करनेसे ) नीच कुलमे उत्पन्न शबरी भी जिनके परमधामको प्राप्त हो गयी, जो विमल बुद्धिवालोकी भी वाणीके परे हैं और वेदोंके वचनसे भी अगम्य हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मेरे चित्तमे सदा रमण करें ॥ २ ॥ जो पृथ्वीके अधीश्वर हैं, श्रेष्ठ देवताओं और मनुष्योंके



समासीनः पीठे रविशतनिभे शान्तमनसो रमा० ॥ ३ ॥

वरेण्यः शारण्यः कपिपतिसखश्चान्तविधुरो

ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशिमुखः ।

नराकारो रामो यतिपतिनुतः संसृतिहरो रमा० ॥ ४ ॥

विरूपाक्षः काश्यामुपदिशति यन्नाम शिवदं

सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि वै ।

भी स्वामी हैं; रघुकुलके नाथ हैं, जिन्होंने सिरपर मुकुट और बाहुओंमें केयूर धारण किये हैं, जो सोनेके समान पीतवर्ण ( वस्त्र पहने हुए ) हैं, जिनका शरीर शोभित हो रहा है और जो सैकड़ों सूर्यके समान देदीप्यमान सिंहासनपर बैठे हुए है, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्रजी शान्त हृदयवाले मेरे चित्तमे सदा रमण करें ॥ ३ ॥ जो श्रेष्ठ हैं, शरण देनेवाले हैं, सुग्रीवके मित्र है, अन्तसे रहित हैं; जिनके ललाटमें केशरका तिलक है, जिनकी चाल अति सुन्दर है, मुखारविन्द चन्द्रमाके समान आनन्ददायी है, जो मनुष्यरूपमे प्रतीत होनेपर भी राम ( योगियोंके ध्येय परब्रह्म ) हैं, यतीश्वरगण जिनकी स्तुति करते है, जो जन्म-मृत्युरूप संसारके हरनेवाले हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्र मेरे चित्तमे सदा रमण करें ॥ ४ ॥ काशीमे भगवान् शंकर जिनके कल्याणप्रद नामका [ मुमूर्षु प्राणियोंको ] उपदेश करते हैं, श्रीपार्वतीजी प्रतिदिन प्रभातकालमे जिनके सहस्र-नामका पाठ करती है, शिव, ब्रह्मा आदि ( देवगण ) अपने-अपने लोकोमे जिनके दिव्य चरित्रका गान करते हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्र

\*रमन्ते योगिनोऽसिन्निति राम. ( इनमें योगीजन रमण करते हैं, इसलिये इनकी संज्ञा 'राम' है ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ 'राम' का अर्थ परब्रह्म है ।

स्वलोके गायन्तीश्वरविधिमुखा यस्य चरितं रमा० ॥ ५ ॥

परो धीरोऽधीरोऽसुरकुलभवश्चासुरहरः

परात्मा सर्वज्ञा नरसुरगणैर्गातसुयशाः ।

अहल्याशापघ्नः शरकरऋजुःकौशिकसखो रमा० ॥ ६ ॥

हृषीकेशः शौरिर्धरणिधरशायी मधुरिपु-

रुपेन्द्रो वैकुण्ठो गजरिपुहरस्तुष्टमनसा ।

बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो रमा० ॥ ७ ॥

कविः सौमित्रीढ्यः कपटमृगघाती वनचरो

मेरे चित्तमें सदा रमण करे ॥ ५ ॥ जो अत्यन्त धीर होकर भी अधीर ( अविद्याको दूर करनेवाले ) है, असुर ( सूर्य ) के कुलमे उत्पन्न होकर भी असुर ( राक्षसकुल ) का सहार करनेवाले हैं, परमात्मा है, सर्वज्ञ हैं, मनुष्य तथा देवतागण जिनके सुयशका गान करते हैं, जिन्होंने अहल्याके शापका नाश किया, जिनके हाथमे बाण शोभित है, जो सरल स्वभाववाले और विश्वामित्रके मित्र हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्र मेरे चित्तमें सदा रमण करें ॥ ६ ॥ जो हृषीकेश, शौरि, शेषशायी, मधुसूदन, उपेन्द्र, वैकुण्ठ आदि नामसे कहे जाते हैं, जिन्होंने प्रसन्न होकर गजराजके शत्रु ( ग्राह ) का नाश किया, जो बलिको पदच्युत करनेवाले हैं, वीर हैं, वे नीतनिपुण, लक्ष्मीपति, दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामचन्द्र मेरे चित्तमें सदा रमण करें ॥ ७ ॥ जो कवि ( त्रिकालदर्शी ) हैं, लक्ष्मणजीके पूज्य है, जिन्होंने वनमे भ्रमण करते हुए मायामृग ( मारीच ) का वध किया है, जो युद्धप्रिय है, दान्त ( मन और इन्द्रियोका दमन करनेवाले ) है, पृथ्वीके भारको

रणश्लाघी दान्तो धरणिभरहर्ता सुरनुतः ।  
 अमानी मानज्ञो निखिलजनपूज्यो हृदिशयो रमा० ॥ ८ ॥  
 इदं रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचित-  
 मुपःकाले भक्त्या यदि पठति यो भावसहितम् ।  
 मनुष्यः स क्षिप्रं जनिमृतिभयं तापजनकं  
 परित्यज्य श्रेष्ठं रघुपतिपदं याति शिवदम् ॥ ९ ॥

इति श्रीमद्रामदासपूज्यपादशिष्यश्रीमद्वसुदेवदासशिष्येणामरदासाख्यकविना  
 विरचितं श्रीरामचन्द्राष्टकं समाप्तम् ।

हरनेवाले तथा देवताओसे स्तुत हैं, जो स्वयं मानरहित होकर दूसरोंके सम्मानके ज्ञाता ( कृतज्ञ ) है, सब लोगोंके पूज्य हैं, सबके हृदयमें निवास करनेवाले हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान् श्रीरामचन्द्र मेरे चित्तमें सदा रमण करें ॥ ८ ॥ जो मनुष्य प्रातःकालमें भक्ति और श्रद्धाके साथ अमरदास कविके बनाये हुए इस सुन्दर रामस्तोत्रका पाठ करेगा, वह बहुत शीघ्र ही तापजनक जन्म-मृत्युके भयका परित्याग कर श्रेष्ठ तथा कल्याणप्रद रघुनाथके पदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥



# श्रीकृष्णस्तोत्राणि

## ४७—गोविन्दाष्टकम्

चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं  
निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणम् ।  
रमाग्रीवाहारं ब्रजवनविहारं हरनुतं  
सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे ॥ १ ॥  
महाम्भोधिस्थानं स्थिरचरनिदानं दिविजपं  
सुधाधारापानं विहृणपतियानं यमरतम् ।  
मनोज्ञं सुज्ञानं मुनिजननिधानं ध्रुवपदं सदा० ॥ २ ॥

जो चिदानन्दस्वरूप है, श्रुतिका सुमधुर सार है, समरस है, निराश्रयोका आश्रय है, ससार-सागरका पार करानेवाला है, परगुणाश्रय है, श्रीलक्ष्मीजीके गलेका हार है, वृन्दावनविहारी है तथा भगवान् शंकरसे सम्पूजित है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ १ ॥ जिसका महासमुद्र आश्रय है, जो चराचरका आदि कारण है, देवोंका संरक्षक है, अमृतपान करानेवाला है, गरुड़ ही जिसका वाहन है, जो यमों ( अहिंसा, सत्यादि ) में बसा हुआ है, मनोज्ञ है, ज्ञानस्वरूप है, मुनिजनोंका आभय है, ध्रुवस्थान है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दको सदैव भज ॥ २ ॥

धिया धीरैर्ध्वयं श्रवणपुटपेयं यतिवरै-  
 र्महावाक्यैर्ज्ञेयं त्रिभुवनविधेयं विधिपरम् ।  
 मनोमानामेयं सपदि हृदि नेयं नवतनुं सदा० ॥ ३ ॥  
 महामायाजालं विमलवनमालं मलहरं  
 सुभालं गोपालं निहतशिशुपालं शशिमुखम् ।  
 कलातीतं कालं गतिहतमरालं मुररिपुं सदा० ॥ ४ ॥  
 नभोबिम्बस्फीतं निगमगणगीतं समगतिं  
 सुरोधैः सम्प्रीतं दितिजविपरीतं पुरिशयम् ।

धीर पुरुषोद्धार बुद्धिसे जिसका ध्यान किया जाता है और कर्णपुटोंसे पान किया जाता है, योगिजन जिसे महावाक्योद्धार जान पाते हैं, जो त्रिलोकीका विधाता और विधिवाक्योसे परे है, जिसे मन प्रमाणोंद्वारा नहीं जान सकता तथा जो हृदयमे शीघ्र ही धारण करने योग्य है एवं नूतन तनु-धारी है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ ३ ॥ जिसका मायारूपी महाजाल है, जिसने निर्मल वनमाला धारण किया है, जो मलका अपहरण करनेवाला है, जिसका सुन्दर भाल है, जो गोपाल है, शिशुपाल-वधकारी है, जिसका चोंद-सा मुखड़ा है, जो सम्पूर्ण कलातीत है, काल है, अपनी सुन्दर गतिसे हसका भी विजय करनेवाला है, मुर दैत्यका शत्रु है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ ४ ॥ जो आकाश-विम्बके समान व्यापक है, जिसका शास्त्र संकीर्तन करते हैं, जो सबकी समान गति है, देवताओंसे परम प्रसन्न तथा दैत्योका विरोधी है, बुद्धिरूपी गुहामे स्थित है, वाणीकी गतिसे बाहर है, नवनीतका आस्वादन करनेवाला है तथा नीतिका संस्थापक है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन

गिरां मार्गातीतं स्वदितनवनीतं नयकरं सदा० ॥ ५ ॥

परेशं पद्मेशं शिवकमलजेशं शिवकरं  
द्विजेशं देवेशं तनुकुटिलकेशं कलिहरम् ।

खगेशं नागेशं निखिलभुवनेशं नगधरं सदा० ॥ ६ ॥

रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं  
दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदि भान्तं भुवनपम् ।

विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा० ॥ ७ ॥

जगज्ज्येष्ठं श्रेष्ठं सुरपतिकनिष्ठं क्रतुपतिं

बलिष्ठं भूयिष्ठं त्रिभुवनवरिष्ठं वरवहम् ।

कर ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर है, लक्ष्मीपति है, शिव और ब्रह्माका भी स्वामी है, कल्याणकारी है, द्विज और देवोका ईश्वर है, महीन और घुँघराले के गोवाला है, कलिमलहारी है, आकाशसचारी सूर्यका भी शासक है, धरातलधारी शेष है, सम्पूर्ण भुवनमण्डलका स्वामी है, गोवर्धनधारी है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ ६ ॥ जो लक्ष्मीपति है, विमलश्रुति है, भवभयहारी है, संसारका सुख है, दुराशाका काल है, शान्त है, सम्पूर्ण हृदयोमे भासमान है, त्रिभुवनका प्रतिपालक है, विवादका जहाँ अन्त हो जाता है, दमशील है, दैत्य-दलन है, सुन्दर चरित्रवाला है, अरे ! उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ ७ ॥ जो संसारमे सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, सुरराज इन्द्रका अनुज ( वामन ) है, यज्ञपति है, बलिष्ठ है, भूयिष्ठ है, त्रिभुवनमे सर्वश्रेष्ठ है, वरदायक है, आत्मनिष्ठ है, धर्मिष्ठ है, महान् गुणोसे गौरवयुक्त है, गुचर है, अरे !

स्वनिष्ठं धर्मिष्ठं गुरुगुणगरिष्ठं गुरुवरं सदा० ॥ ८ ॥  
 गदापाणेरेतद्दुरितदलनं दुःखशमनं  
 विशुद्धात्मा स्तोत्रं पठति मनुजो यस्तु सततम् ।  
 स भुक्त्वा भोगौघं चिरमिह ततोऽपास्तवृजिनः  
 परं विष्णोः स्थानं व्रजति खलु वैकुण्ठभुवनम् ॥ ९ ॥

इति श्रीपरमहसस्वामिब्रह्मानन्दविरचित गोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ।

## ४८—श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं  
 गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।  
 मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं

उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ ८ ॥ जो विशुद्धात्मा पुरुष गदापाणि गोविन्दके इस पापनाशन, दुःखदलन स्तोत्रको निरन्तर पढ़ता है, वह चिरकालपर्यन्त नाना भोगोंको भोगकर पापोसे रहित होकर भगवान् विष्णुके परमपावन धाम वैकुण्ठलोकको अवश्यमेव जाता है ॥ ९ ॥

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप अनन्त एव नित्य हैं, आकाशसे भिन्न होनेपर भी परम आकाशस्वरूप हैं, जो ब्रजके प्राङ्गणमे चलते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत थके-से हो जाते हैं, आकारहीन होनेपर भी मायानिमित्त नाना स्वरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और

क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥

मृत्स्नामत्सीहेति\* यशोदाताडनशैशवसंत्रासं  
व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।

लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं  
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥

त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं  
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।

वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं

पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ [ विना स्वामीके ] हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ 'क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है ?' यह पूछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशवकालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मुँह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वतसहित चौदह भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोकसे परे ( अर्थात् दर्शनातीत ) होनेपर भी जो विश्वके आलोक ( प्रकाश ) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोकनाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्यवीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और ससाररोगको मिटा देनेवाले कैवल्य ( मोक्ष ) पद हैं, आहाररहित होकर भी नवनीतभोजी एव विश्वभक्षी हैं, आभाससे पृथक् होनेपर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेषरूपसे आभास मिलता है, जां अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं,

\* पाठान्तरम्—मृत्स्नामत्सि किमीद ।



शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥  
 गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं  
 गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालितगोपालम् ।  
 गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं  
 गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥  
 गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थसभेदाभं  
 शश्वद्गोखुनिर्धृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम् ।  
 श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं  
 चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥

उन परमानन्दमय गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक  
 हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया  
 है, जो वशद्वारा भी गोपाल ( ग्वाला ) हो चुके हैं, गोपियोंके साथ  
 खेल करते हुए गोवर्धनधारणकी लीलामें जिन्होंने गोपजनोंका पालन  
 किया था, गौओंने स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द-नाम बतलाया था, जिनके  
 अनेकों नाम हैं, उन गोप तथा गोचर ( इन्द्रियोंके विषय ) से पृथक्  
 रहनेवाले परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ४ ॥ जो गोपीजनोंकी  
 गोष्ठीके भीतर प्रवेश करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भासित  
 होते हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरमें ऊपर उड़ी हुई धूलिद्वारा धूसरित  
 होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्ति रखनेसे आनन्दित होते हैं,  
 अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भावका चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामणि-  
 के समान महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥

स्नानव्याकुलयोपिद्वस्त्रमुपादायागमुपासूढं  
व्यादित्सन्तीरथ दिग्बन्धा ह्युपदातुमुपाकर्षन्तम् ।  
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं  
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥  
कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं  
कालिन्दीगतकालियशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तम् ।  
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं  
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥  
वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देऽहं  
कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।

स्नानमे व्यग्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा तब देनेके लिये उन्हें पास बुलाने लगे, [ ऐसा होनेपर भी ] जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले जानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती हैं, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है ऐसे परमानन्द-स्वरूप गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी आदिकारण, अनादि और आभासरहित कालस्वरूप होकर भी यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके रस्तकपर बारबार नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होनेपर भी कालकी कलाओंसे अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कलियुगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्द-स्वरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो वृन्दावनकी भूमिपर देववृन्द तथा वृन्दा नामकी वनदेवताके आराध्य देव हैं, जिनकी कुन्दके समान

वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं  
 वन्द्याशेषगुणाब्धिं व्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥  
 गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो  
 गोविन्दाच्युत माधवविष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।  
 गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो  
 गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स तमभ्येति ॥ ९ ॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ।

## ४६--अच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं  
 कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।

निर्मल मन्द मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंके आनन्ददायी हैं, उन भगवान्की मैं वन्दना करता हूँ । जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महामुनियोंके भी हृदयका वन्दनीय है, उन सम्पूर्ण शुभ गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ८ ॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना चित्त लगा 'गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! विष्णो ! गोकुलनायक कृष्ण !' इत्यादि उच्चारणपूर्वक उनके चरणकमलोंके ध्यानरूपी सुधासलिलसे अपना समस्त पाप धोकर इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता है, वह अपने अन्तःकरणमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकीनायक रामचन्द्रजीको मैं भजता

श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं

जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं

माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् ।

इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं

देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ॥ २ ॥

विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे

रुक्मिणीराशिणे जानकीजानये ।

वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने

कंसविश्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥

कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण

श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।

अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज

हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजी-  
द्वारा आराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका  
चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु हैं, विजयी हैं, शङ्ख-चक्रधारी  
हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो  
ब्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परमपूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक,  
मुरलीमनोहर आपको नमस्कार करता हूँ ॥३॥ हे कृष्ण । हे गोविन्द। हे राम।  
हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत !  
हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज ( इन्द्रियातीत ) । हे द्वारकानाथ ।

द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥

राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो

दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः ।

लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो-

ऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥

धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्द्वेषिहा

केगिहा कंसहृद्रांशिकावादकः ।

पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो

बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥

विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससं

प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्विग्रहम् ।

हे द्रौपदीरक्षक ! (सुखपर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं, भीसीताजीसे सुगोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरोंसे सेवित हैं और श्रीभगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट करनेवाले, जत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका वध करनेवाले, वंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बालगोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्प्रकाशके सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान गरीर है, जिनका वक्षःस्थल वनमालासे विभूषित है और चरणयुगल अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन भीहरिको

वन्यया मालया गोभितोरःस्थलं

लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाश्रं भजे ॥ ७ ॥

कुञ्चितैः

कुन्तलैर्भ्राजमानाननं

रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।

हारकेयूरकं

कङ्कणप्रोज्ज्वलं

किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे ॥ ८ ॥

अच्युतस्याष्टकं

यः पठेदिष्टदं

प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् ।

वृत्ततः

सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर-

स्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

५ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतमच्युताष्टक सम्पूर्णम् ॥

भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख धुँवगली अलकोंमे सुगोभित है, मन्तकपर मणिमय मुकुट गोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल सुगोभित हो रहे हैं; उज्ज्वल हार, केयूर ( वाजूदठ ), कङ्कण और किङ्किणी-कलापसे सुगोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दरको भजता हूँ ॥८ ॥ जो पुरुष हम अति सुन्दर छन्दवाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टक-को प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रोदरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

## ५० — कृष्णाष्टकम्

श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो  
 धियां साक्षी शुद्धो हरिसुरहन्ताब्जनयनः ।  
 गदी शङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः  
 शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥  
 यतः सर्वं जातं विद्यदनिलमुख्यं जगदिदं  
 स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा ।  
 लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः । शरण्यो ० । २ ।  
 असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणै-

जो श्रीलक्ष्मीद्वारा आलिङ्गित हैं, व्यापक हैं, सम्पूर्ण चराचर जिनका शरीर है, श्रुति-संवेद्य हैं, समस्त बुद्धियोंके साक्षी हैं, शुद्ध हैं, हरि हैं, दैत्यदलन है, कमलनयन हैं, शङ्ख, चक्र, गदा और विमल वनमाला धारण किये हुए हैं और स्थिरकातिमय हैं; वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ १ ॥ ( सृष्टिकालमें ) आकाश और पवनादिसे लेकर यह सम्पूर्ण जगत् जिनसे उत्पन्न हुआ है, स्थितिके समय भी जो मधुसूदन अपने आनन्दांशसे उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं तथा लयके समय जो लीलामात्रसे उसे अपनेहीमें लीन कर लेते हैं, वे विभु, शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ २ ॥ जिस स्तवनीय मायापतिको बुधजन यम-नियमादि उपायोंसे पहले प्राणोंको अपने अधीन कर फिर चित्तनिरोध-द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्को लीन करके अपने अन्तःकरणमें देखते

निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् ।  
 यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ । शरण्यो० ॥३॥  
 पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा  
 यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् ।  
 नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ । शरण्यो० ॥४॥  
 महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो  
 न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।  
 कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः । शरण्यो० ॥५॥  
 विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां

हैं, वे ही शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ३ ॥ पृथ्वीमे रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिन्हे नहीं जानती ( यः पृथिव्या तिष्ठन् पृथिवी यमयति य पृथिवी न वेद ) आदि श्रुतियोसे वेद जिन अमलस्वरूपको जगत्का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा मुनिजनको मोक्ष देनेवाला बतलाता है, वे शरणागतपालक, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ४ ॥ जिनके बलसे इन्द्रादि देवगण दैत्योंको जीतते हैं, जिनकी कृतिके बिना किसी कार्यमें कोई भी स्वतन्त्र नहीं है तथा जो कवियोंके कवित्वाभिमानको और विजयियोंके विजयाभिमानको हर लेते हैं, वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ५ ॥ जिनका ध्यान किये बिना मनुष्य सूकरादि पशुयोनियोंमें पड़ते हैं, जिनके ज्ञान बिना जनता जन्म-मरणके भयको प्राप्त होती है तथा जिनका स्मरण किये बिना सैकड़ों कीट-पतङ्गादि



विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।  
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः । शरण्यो ० ॥ ६ ॥

नरातङ्कोत्तङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो  
घनश्यामः वामो ब्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः ।  
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः । शरण्यो ० ॥ ७ ॥  
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी  
तदा लोकस्यामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः ।  
सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपतिः । शरण्यो ० ॥ ८ ॥  
इति हरिरखिलात्माराधितः शङ्करेण  
श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः ।

योनियोमे गिरना पडता है, वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ६ ॥ जो प्राणियोंके भयको दूर करनेवाले हैं, शरणागतोंको शरण देनेवाले तथा भ्रमको दूर करनेवाले हैं, मेघश्याम हैं, सुन्दर हैं, ब्रजवालोंके समवयस्क साथी और अर्जुनके सखा हैं, स्वयम्भू हैं, समस्त प्राणियोंके पिता हैं तथा उचित आचरणोद्वारा सुख देनेवाले हैं, वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ७ ॥ जब संसारको बुद्ध कर देनेवाला धर्मका हास होता है, उस समय जो लोकभर्यादाकी रक्षा करनेवाले लोवेश्वर, सत-प्रतिपालक, वेदवर्णित शुद्ध एवं अजन्मा भगवान् उसकी रक्षाके लिये शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥ ८ ॥ इस प्रकार अपनी माताकी मुक्तिके लिये

यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव  
स्वगुणवृत उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः ॥ ९ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत कृष्णाष्टक सम्पूर्णम् ।



### ५१ — श्रीकृष्णाष्टकम्

भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं  
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् ।  
सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं  
अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनाभरम् ॥ १ ॥  
मनोजर्ग्वमोचनं विशाललोललोचनं  
विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् ।

श्रीशंकराचार्यजीने श्रुतिकथित गुणोंवाले, निखिलात्मक आदिनारायण हरिकी आराधना की तो अपने उदार गुणोंसे युक्त श्रीभगवान् लक्ष्मीजीसहित उनके निकट शङ्ख, चक्र, पद्मादि लिये प्रकट हो गये ॥ १ ॥



ब्रज-भूमिके एकमात्र आभूषण. समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंके चित्तोंको आनन्दित करनेवाले नन्दनन्दनको सर्वदा भजता हूँ, जिनके मस्तकपर मनोहर मोरपंखका मुकुट है, हाथोंमें सुरीली बाँसुरी है तथा जो काम-कलाके सागर हैं, उन नटनागर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ कामदेवका मान मर्दन करनेवाले, बड़े-बड़े सुन्दर नेत्रोंवाले तथा ब्रजगोपोंका शोक हरनेवाले कमलनयन भगवान्को नमस्कार

करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं  
 महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् ॥ २ ॥  
 कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं  
 ब्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् ।  
 यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया  
 युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् ॥ ३ ॥  
 सदैव पादपङ्कजं मदीयस्नानस्यै निजं  
 दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् ।  
 समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं  
 समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसख् ॥ ४ ॥

करता हूँ, जिन्होंने अपने करकमलोंपर गिरिराजको धारण किया था तथा जिनकी मुसकान और चितवन अति मनोहर है, देवराज इन्द्रका मान-मर्दन करनेवाले उन श्रीकृष्णरूपी गजराजको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जिनके कानोंमें कदम्ब-पुष्पोंके कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल हैं तथा ब्रजबालाओंके जो एकमात्र प्राणाधार हैं, उन दुर्लभ कृष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ; जो गोपराण और नन्दजीके सहित अतिप्रसन्ना यशोदाजीसे युक्त है और एकमात्र आनन्ददायक हैं, उन गोपनायक गोपालको नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जिन्होंने अपने चरणकमलोंको मेरे मनरूपी सरोवरमें स्थापित कर रक्खा है, उन अति सुन्दर अलकोंवाले, नन्दकुमारको नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषोंको दूर करनेवाले समस्त लोकोंका पालन करनेवाले और समस्त ब्रजगोपोंके हृदय तथा नन्दजीकी लालसारूप श्रीकृष्णचन्द्रजीको नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ भूमिका भार उतारनेवाले

भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं  
 यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम् ।  
 दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदासदालसङ्गिनं  
 दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् ॥ ५ ॥  
 गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं  
 सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् ।  
 नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलस्पटं  
 नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् ॥ ६ ॥  
 समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं  
 नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् ।  
 निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं

संसारसागरके कर्णधार मनोहर यशोदाकुमारको नमस्कार करता हूँ; अति कमनीय कटाक्षवाले, सदैव सुन्दर भूषण धारण करनेवाले नित्य-नूतन नन्दकुमारको नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ गुणोंके भण्डार, सुखसागर, कृपानिधान और कृपालु गोपालको, जो देव-शत्रुओंको ध्वंस करनेवाले हैं, नमस्कार करता हूँ; नित्य नूतन लीलाविहारी, मेघश्याम नटनागर गोपालको, जो बिजलीकी-सी आभावाला अति सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ जो समस्त गोपोंको आनन्दित करनेवाले और हृदयकमलको विकसित करनेवाले, देदीप्यमान सूर्यके समान शोभायमान हैं, उन कुञ्जमध्यवर्ती श्यामसुन्दरको नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओंको भलीभाँति पूर्ण करनेवाले हैं, जिनकी चार चितवन बाणोंके समान है, सुमधुर वेणु बजाकर गान करनेवाले उन कुञ्जनायकको

रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् ॥ ७ ॥  
 विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशायिनं  
 नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम् ।  
 यदा तदा यथा यथा तथैव कृष्णसत्कथा  
 मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् ।  
 प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्  
 भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ॥ ८ ॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्रीकृष्णाष्टक सम्पूर्णम् ।

## ५२—भगवत्स्तुतिः

भीष्म उवाच

इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा  
 भगवति सान्त्वतपुङ्गवे विभूमिनि ।

नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ चतुर गोपिकाओंके मनरूपी सुकोमल शय्यापर  
 शयन करनेवाले तथा कुञ्जवनमे बढ़ती हुई दावाग्निको पान कर जानेवाले  
 श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ, नेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जब-तब  
 जैसी भी परिस्थितिमें रहूँ, सदा श्रीकृष्णकी सत्कथाओंका गान करूँ । जो  
 पुरुष इन दोनों प्रामाणिक अष्टकोंका पाठ या जप करेगा, वह जन्म-जन्ममें  
 नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकी भक्तिसे युक्त होगा ॥ ८ ॥

श्रीभीष्मजीने कहा—अब मृत्युके समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक  
 प्रकारके साधनोंका अनुष्ठान करनेसे अत्यन्त शुद्ध एवं कामनारहित हो  
 गयी है, यदुर्वंशशिरोमणि अनन्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित करता

स्वसुखमुपगते                      क्वचिद्विहर्तुं  
    प्रकृतिमुपेयुपि      युद्धवप्रवाहः ॥ १ ॥  
 त्रिभुवनकमनं                      तमालवर्णं  
    रविकरगौरवराम्बरं      दधाने ।  
 वपुरलककुलावृताननाब्जं  
    विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ २ ॥  
 युधि                      तुरगरजोविधूम्रविष्वक्  
    कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये      ।  
 मम                      निशितशरैर्विभिद्यमान-  
    त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३ ॥  
 सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये  
    निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य ।

हूँ, जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय स्वरूपमे स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी — लीला करनेकी इच्छासे प्रकृतिको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टिपरम्परा चलती है ॥ १ ॥ जिनका शरीर त्रिभुवनसुन्दर एव श्याम तमालके समान साँवला है, जिसपर सूर्यरश्मियोंके समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुखपर घुँघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुनसखा श्रीकृष्णमे मेरी निष्कपट प्रीति हो ॥ २ ॥ मुझे युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है । उनके मुखपर लहराते हुए घुँघराले बाल घोड़ोंकी टापकी धूलसे मटमैले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदें शोभायमान हो रही थीं, मैं अपने तीखे बाणोंसे उनकी त्वचाको चीँव रहा था । उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान् श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और आत्मा समर्पित हो जायँ ॥ ३ ॥ अपने मित्र अर्जुनकी बात सुनकर जो तुरंत ही पाण्डव-सेना और कौरव-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ

स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा  
 हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु ॥ ४ ॥  
 व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य  
 स्वजनवद्याद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या ।  
 कुमतिमहरदात्मविद्यया य-  
 श्वरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥ ५ ॥  
 स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा-  
 मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः ।  
 धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गु-  
 हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ ६ ॥  
 शितविशिखहतो विशीर्णदंशः  
 क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे ।

स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टिसे ही शत्रुपक्षके सैनिकोंकी आयु छीन ली, उन पार्थसखा भगवान् श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो ॥४॥ अर्जुनने जब दूरसे कौरवोंकी सेनाके मुखिया हमलोगोंको देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनोंके वधसे विमुख हो गया । उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्म-विद्याका उपदेश करके उस सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, उन परम-पुरुष भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें मेरी प्रीति बनीरहे ॥५॥ मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्णको शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूँगा; उसे सत्य एवं ऊँची करने-के लिये उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ दी । उस समय वे रथसे नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट पड़ता है, वैसे ही ग्थका पहिया लेकर मुझपर झपट पड़े । उस समय वे इतने वेगमें दौड़े कि उनके कन्धेका दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी काँपने लगी ॥६॥ मुझ आत-तायीने तीखे बाण मार-मारकर उनके शरीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे

प्रसभमभिससार

मद्व्यार्थ

स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः ॥ ७ ॥

विजयरथकुटुम्ब

आत्ततोत्रे

धृतहयरश्मिनि तच्छ्रयेक्षणीये ।

भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो-

र्यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम् ॥ ८ ॥

ललितगतिविलासवल्गुहास-

प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः ।

कृतमनुकृतवत्य

उन्मदान्धाः

प्रकृतिमगन्किल यस्य शोपवच्चः ॥ ९ ॥

सुनिगणनृपवर्यसंकुलेऽन्तः-

सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् ।

सारा शरीर लहूलहान हो रहा था, अर्जुनके रोकनेपर भी वे बलपूर्वक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौड़े आ रहे थे । वे ही भगवान् श्रीकृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलतासे परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों—आश्रय हों ॥ ७ ॥ अर्जुनके रथकी रक्षामे सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमे घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाक्र, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी तथा महाभारत-युद्धमे मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो ॥ ८ ॥ जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, हाव-भावयुक्त चेष्टाएँ, मधुर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे व्यत्यन्त सम्मानित गोपियाँ रासलीलामे उनके अन्तर्धान हो जानेपर प्रेमोन्मादसे मतवाली होकर जिनकी लीलाओंका अनुकरण करके तन्मय हो गयी थीं, उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णमें मेरा परम प्रेम हो ॥ ९ ॥ जिस समय युधिष्ठिरका राजसूयज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े-बड़े राजाओंसे



अर्हणमुपपेद

ईक्षणीयो

मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥१०॥

तमिममहमजं

शरीरभाजां

हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम् ।

प्रतिदृशमिव

नैकधार्कमेकं

समधिगतोऽस्मि विधृतभेदमोहः ॥११॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नवमेऽध्याये

भीष्मकृता भगवत्स्तुतिः सम्पूर्णा ।

## ५३ — गोविन्ददामोदरस्तोत्रम्

अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहतवस्त्रकेशा ।

कृष्णा तदाक्रोशदनन्यन्तथा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१॥

भरी हुई सभामे सबसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान् श्रीकृष्णकी भरी आँखोंके सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्युके समय मेरे सामने खड़े हैं ॥ १० ॥ जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखोंसे अनेक रूपोंमें दीखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियोंके हृदयमें अनेक रूपसे जान पड़ते हैं- वास्तवमे तो वे एक और सबके हृदयमें विराजमान हैं ही । उन्हीं इन भगवान् श्रीकृष्णको मैं भेद-भ्रमसे रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ ॥ ११ ॥

[ जिस समय ] कौरव और पाण्डवोंके सामने भरी सभामें दुःशासनने द्रौपदीके वस्त्र और डालोंको पकड़कर खींचा उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है ऐसी द्रौपदीने रोकर पुकारा—‘हे गोविन्द !

श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे ।  
 त्रायस्व मां केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२॥  
 विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्षितचित्तवृत्तिः ।  
 दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३॥  
 उत्स्रवले सम्भृततण्डुलांश्च संघट्टयन्त्या मुसलैः प्रमुग्धाः ।  
 गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४॥  
 काचित्कराम्भोजपुटे निषण्णं क्रीडाशुकं किंशुकरक्ततुण्डम् ।  
 अध्यापयामास सरोरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५॥

हे दामोदर ! हे माधव ! ॥ १ ॥ हे श्रीकृष्ण ! हे विष्णो ! हे मधु-कैटभको मारनेवाले ! हे भक्तोंके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले ! हे भगवन् ! हे मुरारे ! हे केशव ! हे लोकेश्वर ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ॥ २ ॥ जिनकी चित्तवृत्ति मुरारिके चरणकमलोमे लगी हुई है, वे सभी गोपकन्याएँ दूध-दही बेचनेकी इच्छासे घरसे चलीं । उनका मन तो मुरारिके पास था; अतः प्रेमवश सुघ-बुध भूठ जानेके कारण 'दही लो दही' इसके स्थानमें जोर-जोरसे 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' आदि पुकारने लगीं ॥ ३ ॥ ओखलीमें धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोप-रमणियाँ मृसलोसे कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्णप्रेममें विभोर होकर 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इस प्रकार गायन करती जाती हैं ॥ ४ ॥ कोई कमलनयनी बाला मनोविनोदके लिये पाले हुए अपने करकमल-पर बैठे किंशुककुसुमके समान रक्तवर्ण चोंचवाले सुग्गेको पढा रही थी— पढो तो तोता ! 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' ॥ ५ ॥ प्रत्येक घरमें

गृहे गृहे गोपवधूसमूहः प्रतिक्षणं पिञ्जरसारिकाणाम् ।  
 स्वलद्गिरं वाचयितुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६॥  
 पर्यङ्किकाभाजमलं कुमारं प्रस्थापयन्त्योऽखिलगोपकन्याः ।  
 जगुः प्रबन्धं स्वरतालबन्धं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७॥  
 रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् ।  
 आबालकं बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥८॥  
 विचित्रवर्णाभिरणाधिरामेऽभिधेहि वक्त्राम्बुजराजहंसि ।  
 सदा सदीये रसनेऽग्ररङ्गे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥९॥  
 अङ्गाधिरूढं शिशुगोपगूढं स्तनं धयन्तं कमलैककान्तम् ।

समूह-की-समूह गोपाङ्गनाएँ पींजरोमे पाली हुई अपनी मैनाओंसे उनकी लड़खड़ाती हुई वाणीको क्षण क्षणमे 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !' इत्यादि रूपसे कहलानेमें लगी रहती थीं ॥ ६ ॥ पालनेमें पौटे हुए अपने नन्हे बच्चेको सुलाती हुई सभी गोपकन्याएँ ताल-स्वरके साथ 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इस पदको ही गाती जाती थीं ॥७॥ हाथमे माखनका गोला लेकर मैया यशोदाने आँख-मिचौनीकी क्रीड़ामे व्यस्त बलरामके छोटे भाई कृष्णको बालकोके बीचसे पकड़कर पुकारा—'अरे गोविन्द ! अरे दामोदर ! अरे माधव !' ॥ ८ ॥ विचित्र वर्णमय आभरणोंसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होनेवाली हे मुखकमलकी राजहंसीरूपिणी मेरी रसने ! तू सर्वप्रथम 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इस ध्वनिका ही विस्तार कर ॥९॥ अपनी गोदमें बैठकर दूध पीते हुए बालगोपालरूपधारी भगवान् लक्ष्मी-कान्तको लक्ष्य करके प्रेमानन्दमें मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया

सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१०॥  
 क्रीडन्तमन्तर्ब्रजमात्मजं स्वं समं वयस्यैःपशुपालबालैः ।  
 प्रेम्णा यशोदा प्रजुहाव कृष्णं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥११॥  
 यशोदया गाढमुलूखलेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमानः ।  
 रुरोद मन्दं नवनीतभोजी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१२॥  
 निजाङ्गणे कङ्कणकेलिलोलं शोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् ।  
 आसर्दयत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१३॥  
 गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाययोगे ।

करती थीं—‘ऐ मेरे गोविन्द ! ऐ मेरे दामोदर ! ऐ मेरे माधव ! जरा बोलो तो सही ।’ ॥ १० ॥ अपने समवयस्क गोपबालकोंके साथ गोष्ठमे खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्णको यशोदा मैयाने अत्यन्त स्नेहके साथ पुकारा—‘अरे ओ गोविन्द ! ओ दामोदर ! अरे माधव ! [ कहाँ चला गया ? ] ॥ ११ ॥ अधिक चपलता करनेके कारण यशोदा मैयाने गौ बाँधनेकी रस्सीसे खूब कसकर ओखलीमे उन घनश्यामको बाँध दिया तब तो वे माखनभोगी कृष्ण धीरे-धीरे [ आँखें मलते हुए ] सिसक-सिसककर गोविन्द ! दामोदर । माधव । कहते हुए रोने लगे ॥ १२ ॥ श्रीनन्दनन्दन अपने ही घरके आँगनमें अपने हाथके कङ्कणसे खेलनेमें लगे हुए हैं, उसी समय मैयाने धीरेसे जाकर उनके दोनों कमलनयनोंको अपनी हथेलीसे मूँद लिया तथा दूसरे हाथमें नवनीतका गोल लेकर प्रेमपूर्वक कहने लगी—‘गोविन्द ! दामोदर [ माधव । ] लो देखो, यह माखन खा लो !’ ॥ १३ ॥ ब्रजके प्रत्येक घरमें गोपाङ्गनाएँ एकत्र होनेका अवसर पानेपर झुंड-के झुड आपसमें मिलकर उन मनमोहन

पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१४॥  
 मन्दारमूले वदनाभिरामं विम्बाधरे पूरितवेणुनादम् ।  
 शोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१५॥  
 उत्थाय गोप्योऽपररात्रभागे स्मृत्वा यशोदासुतबालकेलिम् ।  
 गायन्ति प्राञ्चैर्दधि मन्थयन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१६॥  
 जग्धोऽथ दत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती ।  
 उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१७॥  
 अभ्यर्च्य गेहं युवतिः प्रवृद्धप्रेमप्रवाहा दधि निर्ममन्थ ।

माधवके 'गोविन्द, दामोदर, माधव' इन पवित्र नामोंको पढा करती हैं ॥१४॥  
 जिनका मुखारविन्द बड़ा ही मनोहर है, जो अपने विम्बके समान अरुण  
 अधरोपर रखकर वंशीकी मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम्बके तले गौ,  
 गोप और गोपियोंके मध्यमे विराजमान हैं, उन भगवान्का 'हे गोविन्द! हे  
 दामोदर! हे माधव!' इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिये ॥१५॥  
 ब्रजाङ्गनाएँ ब्राह्मभृहृर्तमें उठकर और उन यशुनतिनन्दनकी बालक्रीड़ाओंकी  
 बातोंको याद करके दही मथते-मथते 'गोविन्द! दामोदर! माधव!' इन  
 पदोंको उच्च स्वरसे गाया करती हैं ॥१६॥ [ दधि मथकर माताने माखनका  
 लौंदा रख दिया था। माखनभोगी कृष्णकी दृष्टि पड़ गयी, झट उसे धीरेसे  
 उठा लाये ] कुछ खाया, कुछ बॉट दिया। जब हूँदते-हूँदते न मिला तो  
 यशोदा मैदाने आपपर संदेह करते हुए पूछा—'हे मुरारे! हे गोविन्द! हे  
 दामोदर! हे माधव! ठीक-ठीक बता, मन्थनका लौंदा क्या हुआ?' ॥१७॥  
 जिसके हृदयमे प्रेमकी वाद आ गयी है ऐसी माता यशोदा धरको लीपकर  
 दही मथने लगी। तब और सब गोपाङ्गनाएँ तथा सखियाँ मिलकर

गायन्ति गोप्योऽथ सखीसमेता गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१८॥  
 क्वचित् प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निक्षिप्य मन्थं युवती मुकुन्दम् ।  
 आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१९॥  
 क्रीडापरं भोजनमञ्जनार्थं हितैषिणी स्त्री तनुजं यशोदा ।  
 आजूहवत् प्रेमपरिप्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२०॥  
 सुखं शयानं निलये च विष्णुं देवर्षिमुख्या मुनयः प्रपन्नाः ।  
 तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२१॥  
 विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः ।

‘गोविन्द ! दामोदर ! माधव !’ इस पदका गान करने लगी ॥ १८ ॥  
 किसी दिन प्रातःकाल ज्यों ही माता यशोदा दहीभरे भाण्डमें मथानीको  
 छोड़कर उठी त्यों ही उसकी दृष्टि शय्यापर बैठे हुए मनमोहन मुकुन्दपर  
 पड़ी । सरकारको देखते ही वह प्रेमसे पगली हो गयी और ‘मेरा गोविन्द !  
 मेरा दामोदर ! मेरा माधव !’ ऐसा कहकर तरह-तरहसे गाने लगी ॥ १९ ॥  
 क्रीडाविहारी मुरारि बालकोंके साथ खेल रहे हैं [ अभीतक न स्नान किया है  
 न भोजन ] अतः प्रेममें विह्वल हुई माता उन्हें स्नान और भोजनके लिये  
 पुकारने लगी—‘अरे ओ गोविन्द ! ओ दामोदर ! ओ माधव ! [आ  
 बेटा ! आ ! पानी ठंडा हो रहा है, जल्दीसे नहा ले और कुछ खा ले] ॥ २० ॥  
 नारद आदि ऋषि ‘हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !’ इस प्रकार  
 प्रार्थना करते हुए घरमें सुखपूर्वक सोये हुए उन पुराणपुरुष बालकृष्णकी  
 शरणमें आये; अतः उन्होंने श्रीअच्युतमें तन्मयता प्राप्त कर ली ॥ २१ ॥  
 वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मोंको पूर्णकर

वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२२॥  
 वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविन्दवियोगखिन्नान्म ।  
 राधां जगुःसाश्रुविलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२३॥  
 प्रभातसञ्चारगता नु गावस्तदूरक्षणार्थं तनयं यशोदा ।  
 प्राबोधयत् पाणितलेन मन्दं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२४॥  
 प्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपर्णाशनपूतदेहाः ।  
 मूले तरूणां मुनयः पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२५॥  
 एवं ब्रूवाणा विरहातुरा भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः ।

वेदपाठके [अन्तमे नित्य ही गोविन्द ! दामोदर ! माधव इन मञ्जुल नामोका कीर्तन करते हैं ॥२२॥ वृन्दावनमें श्रोवृषभानुकुमारी को बनवारीके वियोगसे विह्वल देख गोपगण और गोपियों अपने कमलनयनोंसे नीर बहाती हुई 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !' आदि कहकर पुकारने लगीं ॥ २३ ॥ प्रातःकाल होनेपर जश्न गौएँ वनमें चरने चली गयीं तब उनकी रक्षाके लिये यशोदा मैया शय्यापर शयन करते हुए बालकृष्णको मीठी-मीठी थपकियोंसे जगाती हुई बोली—'बेटा गोविन्द ! मुन्ना माधव ! लल्लू दामोदर ! ( उठ जा गौओंको चरा ला )' ॥ २४ ॥ केवल वायु, जल और पत्तोंके खानेसे जिनके शरीर पवित्र हो गये हैं, ऐसे प्रवालके समान शोभायमान लची-लंची एवं कुछ अरुण रंगकी जटाओंवाले मुनिगण पवित्र वृक्षोंकी छायामें विराजमान होकर निरन्तर गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! इन नामोका पाठ करते हैं ॥ २५ ॥ जीवनमालीके विरहमें विह्वल हुई ब्रजाङ्गनाएँ उनके विषयमें विविध प्रकारकी बातें कहती हुई लोक लजाको निलाञ्जलि दे बड़े आर्त्त स्वरसे 'गोविन्द !

विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२६॥  
 गोपी कदाचिन्मणिपिञ्जरस्थं शुक्रं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता ।  
 आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२७॥  
 गोवत्सवालैः शिशुकाकपक्षं बध्नन्तमम्भोजदलायताक्षम् ।  
 उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२८॥  
 प्रभातकाले वरवल्लवौघा गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः ।  
 आकारयामासुरनन्तमाद्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२९॥  
 जलाशये कालियमर्दनाय यदा कदम्बादपतन्मुरारिः ।  
 गोपाङ्गनाश्चुकुशुरेत्य गोपा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३०॥

दामोदर ! माधव ! कहकर जोर-जोरसे रोने लगीं ॥ २६ ॥ गोपी श्रीराधिकाजी किसी दिन मणियोंके पिंजडेमें पड़े हुए तोतेसे बार-बार 'आनन्दकन्द ! व्रजचन्द्र ! कृष्ण ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इन नामोंको बुलवाने लगीं ॥ २७ ॥ कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्रको किसी गोप-बालककी चोटीवछड़ेके पूँछके बालोंसे बाँधते देख मैया प्यारसे उनकी ठोड़ीको पकड़कर कहने लगी—'मेरा गोविन्द ! मेरा दामोदर ! मेरा माधव !' ॥२८॥ प्रातःकाल हुआ, ग्वाल-वालोकोंकी मित्रमण्डली हाथोंमें वेतकी छड़ी और लाठी ले गौओंको चरानेके लिये निकली ! तब वे अपने प्यारेसखा अनन्त आदिपुरुष श्रीकृष्णको 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' कहकर बुलाने लगे ॥२९॥ जिस समय कालियनागका मर्दन करनेके लिये कन्हैया कदम्बके वृक्षसे कूदे, उस समय गोपाङ्गनाएँ और गोपगण वहाँ आकर 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !' कहकर बड़े जोरसे रोने लगे ॥३०॥



अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्दश्चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टः ।  
 तदा स पौरैर्जयतीत्यभापि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥  
 कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ वृन्दावनान्ताद् वसुदेवसूनू ।  
 रुरोद् गोपी भवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३२॥  
 सरोवरे कालियनागबद्धं शिशुं यशोदातनयं निशम्य ।  
 चक्रुर्लुठन्त्यः पथि गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३३॥  
 अक्रूरयाने यदुवंगनाथं संगच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य ।  
 ऊचुर्वियोगात् किल गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३४॥  
 चक्रन्द गोपी नलिनीवनान्ते कृष्णेन हीना कुसुमे श्याना ।

जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने कंसके धनुर्यज्ञोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये अक्रूरजीके साथ मथुरामें प्रवेश किया, उस समय पुरवासीजन 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! तुम्हारी जय हो, जय हो' ऐसा कहने लगे ॥३१॥ जब कंसके दूत अक्रूरजी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और बलरामको वृन्दावनमें दूर ले गये तब अपने घरमें बैठी हुई यशोदाजी 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !' कह-कहकर रुदन करने लगीं ॥३२॥ यशोदानन्दन बालक श्रीकृष्णको कालियहृदमें कालियनागसे जकड़ा हुआ सुनकर गोपबालाएँ रास्तेमें लोटती हुई 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !' कहकर जोरासे रुदन करने लगीं ॥ ३३ ॥ अक्रूरके रथपर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्रीकृष्णको देख समस्त गोपबालाएँ वियोगके कारण अधीर होकर कहने लगीं—'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव ! [ हमें छोड़कर तूम कहाँ जाते हो ? ]' ॥ ३४ ॥ श्रीराधिकাজी श्रीकृष्णके अल्ला हो जानेपर कमलवनमें कुसुम-श्यापार

प्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३५॥

मातापितृभ्यां परिवार्यमाणा गेहं प्रविष्टा विललाप गोपी ।

आगत्य मां पालय विश्वनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३६॥

वृन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्वा गोपी गता कापि वनं निशायाम् ।

तत्राप्यदृष्ट्वातिभयाढबोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३७॥

सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ।

ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३८॥

सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोद गोविन्दवियोगखिन्नाम् ।

सांकर अपने विकसित कमलसदृश लोचनसे आँसू बहाती हुई 'हा गोविन्द !

हा दामोदर ! हा माधव !' कहकर क्रन्दन करने लगी ॥ ३५ ॥

माता-पिता आदिसे घिरी हुई श्रीराधिकाजी घरके भीतर प्रवेश कर विलाप

करने लगी कि 'हे विश्वनाथ ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !

तुम आकर मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो !!' ॥३६॥ रात्रिका समय था, किसी

गोपीको भ्रम हो गया कि वृन्दावन-विहारी इस समय वनमें विराजमान हैं ।

बस, फिर क्या था, झट उसी ओर चल दी, किंतु जब उसने निर्जन वनमें

वनमालीको न देखा तो डरसे काँपती हुई 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा

माधव !' कहने लगी ॥ ३७ ॥ [ वनमें न भी जायँ ] अपने घरमें ही सुखते

शय्यापर शयन करते हुए भी जो लोग 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !'

इन विष्णुभगवान्के पवित्र नामोंको निरन्तर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही

भगवान्की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३८ ॥ कमललोचना राधाको

भीगोविन्दकी विरहव्यथासे पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमलसदृश

सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३९॥  
 जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि ।  
 आवर्णयैथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४०॥  
 आत्यन्तिकव्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति ।  
 संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४१॥  
 ताताज्ञया गच्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणेऽरण्यचये ससीते ।  
 चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४२॥\*  
 एकाकिनी दण्डककाननान्तात् सा नीयमाना दशकन्धरेण ।  
 सीता तदाक्रन्ददनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४३॥

नयनोंसे नीर बहाती हुई 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !' कहकर  
 रुदन करने लगी ॥ ३९ ॥ हे रसोको चखनेवाली जिह्वे ! तुझे मीठी चीज  
 बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिये मैं तेरे हितकी एक बहुत ही  
 सुन्दर और सच्ची बात बताता हूँ । तू निरन्तर 'हे गोविन्द ! हे दामोदर !  
 हे माधव !' इन मधुर मंजुल नामोंकी आवृत्ति किया कर ॥ ४० ॥ वेदवेत्ता  
 विद्वान् 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इन नामोंको ही लोगोकी बड़ी-से-  
 बड़ी विकट व्याधिको विच्छेद करनेवाला वैद्य और संसारके आधिभौतिक,  
 आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों तापोंके नाशका बढ़िया बीज बतलाते  
 हैं ॥४१॥ अपने पिता दशरथकी आज्ञासे भाई लक्ष्मण और जनकनन्दिनी  
 सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजी बीहड़ वनोंके लिये चलने लगे, तब उनकी माता  
 श्रीकौसल्याजी 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! [हे राम ! हे रघुनन्दन !  
 हे राघव !]' ऐसा कहकर जोरोंसे विलाप करने लगी ॥४२॥ जब राक्षस-  
 राज रावण पञ्चवटीमें जानकीजीको अकेली देखकर उन्हे हरकर ले जाने लगा,  
 तब रामचन्द्रजीके सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है ऐसी सीताजी 'हा  
 गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव ! [हे राम ! हे रघुनन्दन ! हे राघव !]'

रामाद्विपुक्ता जनकात्मजा सा विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपम् ।  
रुरोद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४४\*  
प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो ।  
रुरोद सीता तु समुद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४५॥\*  
अन्तर्जले ग्राहगृहीतपादो विसृष्टविक्लिष्टसमस्तबन्धुः ।  
तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४६॥\*  
हंसध्वजः शङ्खयुतो ददर्श पुत्रं कटाहे प्रपतन्तमेनम् ।

कहकर जोरोंसे रुदन करने लगीं ॥४३॥ रथमें बिठाकर ले जाते हुए रावणके साथ, रामवियोगिनी सीता हृदयमें अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई 'हा रघुनाथ ! हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव [ हे राम ! हे रघुनन्दन ! हे राघव मेरी रक्षा करो ]' इस प्रकार रोती हुई जाने लगीं ॥ ४४ ॥ जब रावणके साथ सीताजी समुद्रके मध्यमें पहुँचीं, तब यह कहकर जोर-जोरसे रुदन करने लगीं—'हे विष्णो ! हे रघुकुलपते ! हे देवताओंको सुख और असुरोंको दुःख देनेवाले ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव [ हे राम ! हे रघुनन्दन ! हे राघव ! ] प्रसन्न होइये ! प्रसन्न होइये' ॥ ४५ ॥ पानी पीते समय जलके भीतरसे जब ग्राहने गजका पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बन्धुओंसे साथ छूट गया, तब वह गजराज अघीर होकर अनन्यभावसे निरन्तर 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !' ऐसा कहने लगा ॥४६॥ अपने पुरोहित शङ्खमुनिके साथ राजा हंसध्वज अपने पुत्र सुधन्वाको तप्त तैलकी कड़ाहीमें

पुण्यानि नामानि हरेर्जपन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४७॥  
 दुर्वाससो वाक्यमुपेत्य कृष्णा सा चाब्रवीत् काननवासिनीशम् ।  
 अन्तःप्रविष्टं मनसा जुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४८॥  
 ध्येयः सदा योगिभिर्ग्रमेयश्चिन्ताहरश्चिन्तितपारिजातः ।  
 कस्तूरिकाकल्पितनीलवर्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४९॥  
 संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे मोहान्धपूर्णो विषयाभितप्ते ।  
 करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५०॥  
 त्वामेव याचे मम देहि जिह्ने समागते दण्डधरे कृतान्ते ।

कूदते और 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ।' इन भगवान्के परमपावन नामोंका जप करते हुए देखा ॥ ४७ ॥ [ एक दिन द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर असमयसे दुर्वासा ऋषिने शिष्योंसहित आकर भोजन माँगा, तब ] वनवासिनी द्रौपदीने भोजन देना स्वीकार कर अपने अन्तःकरणमें स्थित श्रीग्यामसुन्दरको 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ।' कहकर बुलाया ॥ ४८ ॥ योगी भी जिह्ने ठीक-ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकारकी चिन्ताओंको हरनेवाले और मनोवाञ्छित वस्तुओंको देनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण कस्तूरीके समान नीला है, उन्हें सदा ही 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इन नामोंसे स्मरण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ जो मोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त और विषयोंकी ज्वालासे सतप्त है, ऐसे अथाह संसाररूपी कूपमें पड़ा हुआ हूँ । 'हे मेरे मधुसूदन ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ।' मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये ॥ ५० ॥ हे जिह्ने ! मैं तुम्हींसे एक भिक्षा माँगता हूँ, तू ही मुझे दे । वह यह कि जब

वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५१॥

भजस्व मन्त्रं भवबन्धमुक्त्यै जिह्वे रसज्ञे सुलभं मनोज्ञम् ।

द्वैपायनाद्यैर्मुनिभिः प्रजप्तं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५२॥

गोपाल वंशीधर रूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो ।

उच्चस्वरैस्त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५३॥

जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि ।

ममस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५४॥

गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण ।

गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५५॥

दण्डपाणि यमराज इस शरीरका अन्त करने आवें तो वड़ ही प्रेमसे  
गद्गद स्वरमें 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !' इन मञ्जुल

नामोंका उच्चारण करती रहना ॥ ५१ ॥ हे जिह्वे ! हे रसज्ञे ! सप्तरूपी

बन्धनका काटनेके लिये तू सर्वदा 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !'

इस नामरूपी मन्त्रका जप किया कर, जो सुलभ एव सुन्दर है और

जिसे व्यास, वसिष्ठादि ऋषियोंने भी जपा है ॥ ५२ ॥ हे जिह्वे ! तू

निरन्तर 'गोपाल ! वंशीधर ! रूपसिन्धो ! लोकेश ! नारायण ! दीनबन्धो !

गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' इन नामोंका उच्च स्वरसे कीर्तन किया

कर ॥ ५३ ॥ हे जिह्वे ! तू सदा ही श्रीकृष्णचन्द्रके 'गोविन्द !

दामोदर ! माधव !' इन मनोहर मञ्जुल नामोंको, जो भक्तोंके

समस्त सकटोंकी निवृत्ति करनेवाले हैं, भजती रह ॥ ५४ ॥

हे जिह्वे ! गोविन्द ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! गोविन्द ! गोविन्द ! मुकुन्द !

कृष्ण ! गोविन्द ! गोविन्द ! रथाङ्गपाणे ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !

सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् ।  
 देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५६॥  
 दुर्वारवाक्यं परिगृह्य कृष्णा मृगीव भीता तु कथं कथञ्चित् ।  
 सभां प्रविष्टा मनसा जुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५७॥  
 श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५८॥  
 श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकीनन्दन दैत्यशत्रो ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५९॥  
 गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव ।

इन नामोको तू सदा जपती रह ॥५५॥ सुखके अन्तमे यही सार है, दुःखके  
 अन्तमें यही गाने योग्य है और शरीरका अन्त होनेके समय भी यही मन्त्र  
 जपने योग्य है, कौन सा मन्त्र ? यही कि 'हे गोविन्द । हे दामोदर । हे  
 माधव !' ॥ ५६ ॥ दुःशासनके दुर्निवार्य वचनोंको स्वीकार कर मृगीके  
 समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी-किसी तरह सभामे प्रवेशकर मन-ही-मन  
 'गोविन्द ! दामोदर । माधव !' इस प्रकार भगवान्‌का स्मरण करने  
 लगी ॥ ५७ ॥ हे जिह्वे ! तू 'श्रीकृष्ण ! राधारमण ! ब्रजराज ! गोपाल !  
 गोवर्धन ! नाथ ! विष्णो ! गोविन्द । दामोदर । माधव !' इस नामामृतका  
 निरन्तर पान करती रह ॥ ५८ ॥ हे जिह्वे ! तू 'श्रीनाथ । सर्वेश्वर !  
 श्रीविष्णुस्वरूप । देवकीनन्दन । असुरनिकन्दन ! गोविन्द ! दामोदर !  
 माधव !'—इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह ॥ ५९ ॥  
 हे जिह्वे ! तू 'गोपीपते ! कंसरिपो ! मुकुन्द ! लक्ष्मीपते ! केशव ! वासुदेव !

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६०॥

गोपीजनाह्लादकर व्रजेश गोचारणारण्यकृतप्रवेश ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६१॥

प्राणेश विश्वम्भर कैटभारे वैकुण्ठ नारायण चक्रपाणे ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६२॥

हरे मुरारे मधुसूदनाद्य श्रीराम सीतावर रावणारे ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६३॥

श्रीयादवेन्द्राद्रिधराम्बुजाक्ष गोगोपगोपीसुखदानदक्ष ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६४॥

‘गोविन्द ! दामोदर ! माधव !’—इस नामामृतका निरन्तर पान करती

रह ॥ ६० ॥ जो व्रजराज व्रजाङ्गनाओको आनन्दित करनेवाले है, जिन्होंने

गौओको चगानेके लिये वनमें प्रवेश किया है, हे जिह्वे ! तुम उन्हीं मुरारिके

‘गोविन्द ! दामोदर ! माधव !’—इस नामामृतका निरन्तर पान करती

रह ॥ ६१ ॥ हे जिह्वे ! तू ‘प्राणेश ! विश्वम्भर ! कैटभारे ! वैकुण्ठ !

नारायण ! चक्रपाणे ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !’—इस नामामृतका

निरन्तर पान करती रह ॥ ६२ ॥ ‘हे हरे ! हे मुरारे ! हे मधुसूदन ! हे

पुराणपुरुपोत्तम ! हे रावणारे ! हे सीतापते श्रीराम ! हे गोविन्द ! हे दामोदर !

हे माधव !’—इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रह ॥ ६३ ॥

हे जिह्वे ! ‘श्रीयदुकुलनाथ ! गिरिधर ! कमलनयन ! गौ, गोप

और गोपियोको सुख देनेमें कुशल ! श्रीगोविन्द ! दामोदर !

माधव !’—इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह ॥ ६४ ॥



धराभरोत्तारणगोपवेश विहारलीलाकृतबन्धुशेष ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६५॥  
 बकीबकाघासुरधेनुकारे केशीतृणावर्तविघातदक्ष ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६६॥  
 श्रीजानकीजीवन रामचन्द्र निशाचरारे भरताग्रजेश ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६७॥  
 नारायणानन्त हरे नृसिंह प्रह्लादबाधाहर हे कृपालो ।  
 जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६८॥  
 लीलामनुष्याकृतिरामरूप प्रतापदासीकृतसर्वभूष ।

जिन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये सुन्दर ग्वालका रूप धारण किया है और आनन्दमयी लीला करनेके निमित्त ही शेषजीको अपना भाई बनाया है, ऐसे उन नटनागरके 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'— इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रह ॥ ६५ ॥ जो पूतना, बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसोंके शत्रु हैं और केशी तथा तृणावर्तको पछाड़नेवाले हैं, हे जिह्वे ! उन असुरारि मुरारिके 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'—इस नामामृतका तू निरन्तर पान करती रह ॥६६॥ 'हे जानकीजीवन भगवान् राम ! हे दैत्यदलन भरताग्रज ! हे ईश ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !'—इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रह ॥ ६७ ॥ 'हे प्रह्लादकी बाधा हरनेवाले दयामय नृसिंह ! नारायण ! अनन्त ! हरे ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'—इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रह ॥ ६८ ॥ हे जिह्वे ! जिन्होंने लीलाहीसे मनुष्योंकी-सी आकृति बनाकर रामरूप प्रकट किया है और अपने प्रबन्ध

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६९॥

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७०॥

वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ।

जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७१॥

इति श्रीबिल्वमङ्गलाचार्यविरचितं श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



पराक्रमसे सभी भूपोको दास बना लिया है, तू उन नीलाम्बुज श्यामसुन्दर

श्रीरामके 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'—इस नामामृतका ही निरन्तर पान

करती रह ॥६९॥ हे जिह्वे ! तू 'श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !

हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव ! तथा गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'—

इस नामामृतका ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह ॥ ७० ॥

अहो ! मनुष्योंकी विषयलोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है । कोई-कोई तो

बोलनेमे समर्थ होनेपर भी भगवन्नामका उच्चारण नहीं करते; किंतु हे जिह्वे !

मैं तुझसे कहता हूँ, तू 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'—इस नामामृतका

ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह ॥ ७१ ॥

इस प्रकार यह श्रीबिल्वमङ्गलाचार्यका बनाया हुआ गोविन्द-दामोदर-

स्तोत्र समाप्त हुआ ।



## ५४—श्रीप्रपन्नगीतम्

( पञ्चमस्वरमेकताल भजनम्, विहागगणेन गीयते )

परमसखे श्रीकृष्ण भयङ्करभवार्णवेऽव्यय विनिमग्नम् ।

मासुद्धर ते श्रीकरलालितचरणकमलपरिधौ- लग्नम् ॥

( ध्रुवपदम् )

गुणमृगतृष्णाचलितधियं विषयार्थसमुत्सुकदशकरणम् ।

परिभूतं दुर्षतिनरनिकरैर्मतिभ्रमाजितगुणशरणम् ॥

सततं सभयमनोनिवहन्तं पडरिपुभिर्निखिलेव्यगुरुम् ।

कालिन्दीहृदयप्रियविष्णोश्चरणकमलरजसो विधुरम् ॥

मनःशोकमतिमोहक्षतयेऽभिकाक्षन्तमजमुखपद्मम् ।

हे परमसखे ! हे श्रीकृष्ण ! हे अच्युत ! श्रीलक्ष्मीजीके करकमलोद्वारा सेवित आपके चरणारविन्दोकी शरणमे आये हुए एवं भयकर भवसागरमें डूबते हुए मेरा उद्धार कीजिये । त्रिगुणमयी मायारूपिणी मृगतृष्णासे जिसकी बुद्धि चञ्चल हो रही है, जिसकी दसो इन्द्रियों विषयभोगोके लिये उत्कण्ठित रहा करती है, जो दुष्ट मनुष्योद्वाग अपमानित हो चुका है, अपनी बुद्धि मारी जानेके कारण जिसने भगवान्की शरण छोड गुणोकी शरण ली है; उस सदा भयभीत मनवाले, कामादि छः शत्रुओके जालमे फँसकर सबकी खुशामद करनेवाले, कालिन्दीके प्राणनाथ आप ( श्रीकृष्ण )-के चरणारविन्दपरागसे शून्य, मनके शोक और बुद्धिके भ्रमको नाश करनेके लिये अजन्मा आपके मुलकमलके दर्जनाभिलाषी तथा लक्ष्मीजीके

मामुद्धर ते श्रीकरलालितचरणकमलपरिधौ लग्नम् ॥ १ ॥

कालिन्दीरुक्मिणीराधिकासत्याजाम्बवतीसुहृदम् ।

निजशरणागतभक्तजनेभ्यः कृपया गतभवभयवरदम् ॥

गोपीजनवल्लभरासेश्वरगोवर्धनधरमधुमथनम् ।


वन्देऽहं निखिलाधिपतिं त्वामतिशयसुन्दरगुणभवनम् ॥

कृष्णलालजीद्विजाधिपं हे मनोऽनिशं त्वं भज यज्ञम् ।

मामुद्धर ते श्रीकरलालितचरणकमलपरिधौ लग्नम् ॥ २ ॥

इति श्रीकृष्णलालद्विजविरचिताया गीताभजनसप्तशत्या

प्रपन्नगीत सम्पूर्णम् ।



करकमलोद्वारा सेवित आपके चरणकमलोकी शरणमें आये हुए मेरा आप उद्धार कीजिये ॥ १ ॥ कालिन्दी, रुक्मिणी, राधा, सत्यभामा और जाम्बवतीके सुहृद्, अपने शरणागत भक्तजनोपर कृपा करके उन्हें भव-भयसे मुक्त करनेवाला, वर देनेवाले, गोपबालाओंके प्रियतम, रासके अधिनायक, गोवर्धनधारी, मधुसूदन, सर्वेश्वर, अत्यन्त कमनीय गुणोके आश्रय आपको मैं नमस्कार करता हूँ, हे मन ! तू सर्वदा कृष्णलालद्विजके स्वामी यज्ञेश्वर कृष्णका भजन कर । हे परमसखे ! लक्ष्मीजीके करकमलोद्वारा सेवित आपके चरणारविन्दोकी शरणमें आये हुए मेरा उद्धार कीजिये ॥ २ ॥



## ५५—श्रीकृष्णः शरणं मम

श्रीकृष्ण एव शरणं मम श्रीकृष्ण एव शरणम् ॥

( ध्रुवपदम् )

गुणमय्येषा न यत्र माया न च जनुरपि मरणम् ।

यद्यतयः पश्यन्ति समाधौ परममुदाभरणम् ॥ १ ॥

यद्वेतोर्निवहन्ति बुधा ये जगति सदाचरणम् ।

सर्वापद्भ्यो विहितं महतां येन समुद्धरणम् ॥ २ ॥

भगवति यत्सन्मतिमुद्धहतां हृदयतमोहरणम् ।

हरिपरमा यद्भजन्ति सततं निषेव्य गुरुचरणम् ॥ ३ ॥

असुरकुलक्षतये कृतममैर्यस्य सदादरणम् ।

भुवनतरुं धत्ते यन्निखिलं विविधविषयपर्णम् ॥ ४ ॥

मेरे लिये श्रीकृष्ण ही शरण है, एकमात्र कृष्ण ही शरण है । जहाँ वह त्रिगुणमयी माया और जन्म-मृत्यु नहीं है तथा योगीलोग समाधिमें जिस आनन्दमयका यहीं दर्शन करते हैं ॥१॥ जिनकी प्राप्तिके लिये विद्वान् लोग संसारमें अनेक धर्माचरण करते हैं और जिन्होंने सभी आपत्तियोंसे महात्माओंका उद्धार किया ॥ २ ॥ जो भगवान्में सद्बुद्धि रखनेवालोंके हृदयका अज्ञानान्धकार नष्ट कर देते हैं और भगवन्भक्तजन गुरुचरणोंकी सेवा करके जिनका सदा भजन करते हैं ॥ ३ ॥ असुरोंके विनाशके लिये देवताओंने जिनका सदा आदर किया है और जो अनेक विषयरूपी पत्रोंवाले इस संसारवृक्षको धारण किये हुए हैं ॥ ४ ॥

अवाप्य यद् भूयोऽच्युतभक्ता न यान्ति संसरणम् ।

कृष्णलालजीद्विजस्य भूयात्तदघहरस्मरणम् ॥ ५ ॥

इति श्रीकृष्णलालजीद्विजविरचित 'श्रीकृष्णः शरण मम'

। नामकस्तोत्र समाप्तम् ।

## ५६—गोपिकाविरहगीतम्

एहि मुरारे कुञ्जविहारे एहि प्रणतजनबन्धो  
हे माधवमधुमथन वरेण्य केशव करुणासिन्धो

( ध्रुवपदम् )

रासनिकुञ्जे गुञ्जति नियतं भ्रमरशतं किल कान्त

एहि निभृतपथपान्थ ।

त्वामिह याचे दर्शनदानं हे मधुसूदन शान्त ॥ १ ॥

शून्यं कुसुमासनमिह कुञ्जे शून्यः कैलिकदम्बः

दीनः कैलिकदम्बः ।

जिनको प्राप्त करके भगवद्भक्त फिर आवागमनके चक्रमें नहीं फँसते,  
उन्हींकी पापनाशक स्मृति कृष्णलाल द्विजके हृदयमें बनी रहे ॥ ५ ॥

हे मुरारे ! प्रणतजनोंके बन्धु ! विहार-कुञ्जमें आइये, आइये !  
हे माधव ! हे मधुमथन ! हे पूजनीय ! हे केशव ! हे करुणासिन्धो !  
पधारिये । हे अद्वैतपथके पथिक ! हे नाथ ! रासनिकुञ्जमें सैकड़ों भ्रमर  
गूँज रहे हैं, पधारिये, हे शान्तिमय मधुसूदन ! आपके दर्शनदानकी हम  
याचना करती हैं ॥ १ ॥ हे नाथ ! आपके इस क्रीड़ास्थल  
कुञ्जमें बिछा हुआ यह कुसुमासन और यह लीला-कदम्ब, सब

मृदुकलनादं किल सविपादं रोदिति यमुना स्वम्भः ॥ २ ॥

नवनीरजधरश्यामलसुन्दर चन्द्रकुसुमरुचिवेश

गोपीगणहृदयेश ।

गोवर्धनधर वृन्दावनचर वंशीधर परमेश ॥ ३ ॥

राधारञ्जन कंसनिषूदन प्रणतिस्तावक चरणे

निखिलनिराश्रयशरणे ।

एहि जनार्दन पीताम्बरधर कुञ्जे मन्थरपवने ॥ ४ ॥

इति श्रीगोपिकाविग्रहगीत सम्पूर्णम् ।

आपके बिना सूना मादूम हो रहा है; मयूर आदि पक्षीगण दीन हो रहे हैं; मृदु करती हुआ श्रीयमुनाजीका निर्मल जल भी आपके वियोग के शोकके साथ रोता-सा जान पड़ता है ॥ २ ॥ हे नवीन कमल ! गण करनेवाले ! हे मेवकी-सी श्यामल सुन्दरतावाले ! हे मोरपंख और पुष्पोंसे मुशोभित वेपधारी गोपीजनोके हृदयेश ! हे गोवर्धनधारी ! वृन्दावनविहारी ! मुरलीधर ! हे प्रभो ! पधारिये ॥ ३ ॥ हे राधिक्राजीको प्रसन्न करनेवाले ! कसको मारनेवाले ! सभी निराश्रयोंको आश्रय देनेवाले ! आपके चरणोंमें हम प्रणाम कर रहे हैं; हे जनार्दन ! पीताम्बधारी ! हे प्रभो ! इस मन्द-मन्द वायुवाले कुञ्जमें पधारिये ! पधारिये ! पधारिये !!! ॥ ४ ॥

५७—मधुराष्टकम्

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।  
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥  
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् ।  
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ २ ॥  
वेणुर्नधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ ।  
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ३ ॥  
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् ।  
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ४ ॥  
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्वरणं मधुरम् ।

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥ उनके वचन मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हैं, अङ्गभङ्गी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर है, चरण मधुर हैं, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, गयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, स्वरण मधुर है, उद्धार मधुर है और



वसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ५ ॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।

सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥

गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ।

दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥

गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।

दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टक सम्पूर्णम् ।



शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ५ ॥

उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरंगें मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियों मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है,

उनका सयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टान्त भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ७ ॥

गोप मधुर हैं, गाँव मधुर हैं, लकड़ी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ८ ॥

## ५८—श्रीनन्दकुमाराष्टकम्

सुन्दरगोपालम् उरवनमालं नयनविशालं दुःखहरम् ।  
 वृन्दावनचन्द्रमानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरम् ॥  
 वल्लभधनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरम् ।  
 भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ॥ १ ॥  
 सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनम् आनन्दसदनं मुकुटधरम् ।  
 गुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं चीरहरम् ॥  
 वल्लभपटपीतं कृतउपवीतं करनवनीतं विबुधवरम् । भज० ॥ २ ॥  
 शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपटअतूलं सुखदतरम् ।

जिनके हृदयमे वनमाला है, नेत्र बड़े-बड़े हैं, जो शोकहारी, वृन्दावनके चन्द्रमा, परमानन्दमय और पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं, जो सबके प्रिय, मेघके समान श्यामल, पूर्णकाम, अत्यन्त सुन्दर और प्रेम करनेवाले हैं; उन समस्त सुखोके सारभूत, परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन मनमोहन गोपाल श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ १ ॥ जिनका सुन्दर कमलके समान मुख है, जो अपनी कान्तिसे कामदेवको भी जीत चुके हैं, जो आनन्दके आगार, मुकुटधारी, गुञ्जाकी माला पहननेवाले, वृन्दावनविहारी, परम उदार और गोपियोंके चीर हरण करनेवाले हैं, जिनको पीताम्बर प्रिय है, जो सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये हुए और हाथमें माखन लिये हुए हैं, उन समस्त सुखोके सारभूत, परब्रह्मस्वरूप, देवेश्वर नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ २ ॥ जो यमुनातटपर मुँहमें धूल लपेटे शोभा पा रहे हैं, जिनकी कहीं

मुखमण्डितरेणुं चारितधेनुं वादितवेणुं मधुरसुरम् ।  
 वल्लभसतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचि अमलं तिमिरहरम् । भज० ।  
 शिरमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरम् ।  
 मायाकृतमनुजं हलधरजनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरम् ॥  
 वल्लभद्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकालं भाववरम् । भज० ॥४॥  
 इन्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशिधरम् ।  
 हृतमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकलशानं चित्तहरम् ॥

तुलना नहीं है, जो परम सुखद है, जो धूलिधूसरित मुख हो, धेनु  
 चराते और मधुर स्वरसे वेणु बजाते है, जो सबके प्रिय तथा अत्यन्त  
 विमल है, जिनके चरणकमल सुन्दर है, नखोकी कान्ति निर्मल  
 है, जो अज्ञानान्वकारको दूर करते है, उन समस्त मुखोके सारभूत  
 परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ३ ॥  
 जिनके मुन्दर मस्तकपर मुकुट है, वाल बुधराले है, नटवर वेप है,  
 जो कामसे भी अधिक सुन्दर है, मायासे मनुष्य-अवतार धारण करते  
 हैं, बलरामजीके छोटे भाई हैं दानवोको मारकर पृथ्वीका भार हरण  
 करते हैं, जो ब्रजके रक्षक, प्रियतम, सुन्दर गतिशील, प्रतिक्षण हित  
 चाहनेवाले और उत्तम भाववाले है, उन सब सुखाके सारभूत  
 परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ४ ॥  
 जिनकी नीलकमलके समान कान्ति है, जिन्होंने पवित्र रास-रसको प्रकट  
 किया है, जो वृन्दुमोंके समान विकसित रहने हैं, वशी धारण करते हैं,  
 जिन्होंने कन्दर्पके दर्पको चूर कर दिया है, जो रूपकी राशि हैं, मधुर  
 गायनके द्वारा मन मोह लेते हैं, जिनका मधुर हास प्रिय लगता है, जो

वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं कैलिकरम् । भज० । ५ ।  
 अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरम् ।  
 मोहनमतिधीरं फणिवलधीरं हतपरधीरं तरलतरम् ॥  
 वल्लभत्रजरसणं वारिजवदनं हलधरशसनं शैलधरम् । भज० । ६ ।  
 जलधरद्युतिभङ्गं ललितत्रिभङ्गं बहुकृतरङ्गं रसिकवरम् ।  
 गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरम् ॥  
 वल्लभत्रजचन्द्रं सुभगसुछन्दं कृतआनन्दं भ्रान्तिहरम् । भज० । ७ ।  
 वन्दितपुगचरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विसलधरम् ।

निकुञ्जोमे रहकर नाना प्रकारकी लीलाएँ किया करते हैं, उन सब सुखोंके सारभूत, परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ५ ॥ जो परम प्रवीण है, दीनोंके पालक और भक्तोंके अधीन कर्म करनेवाले हैं, जो अत्यन्त धीर, मनमोहन, शेषके अवतार बलभद्ररूप, शत्रुवीरोंके नाशक, अतिशय चपल, प्रेममय ब्रजमे रमनेवाले, कमल-वदन, गोवर्धनधारी और हलधरजीको शान्त करनेवाले हैं, उन सब सुखोंके सारभूत, परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ६ ॥ जिनके अङ्गकी कान्ति मेघके सट्टे श्याम है, उसमे ललित त्रिभग शोभा पाता है, जो नाना रंगोंमे रहते हैं, परम रसिक हैं, गोकुल ही जिनका परिवार है, मदनके समान मुन्दर आकृति है, जो कुञ्जमे विहार करते हैं, सर्वत्र अत्यन्त गूढभावसे छिपे हैं, जो प्यारे ब्रजचन्द्र, बड़भागी और दिव्य लीलामय हैं, सदा आनन्द करनेवाले और भ्रान्तिको भगानेवाले हैं, उन सब सुखोंके सारभूत, परब्रह्म-स्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ७ ॥ जिनके दोनों चरण (भक्तोंद्वारा) वन्दित हैं, जो सबको पवित्र करते हैं और जगत्का उद्धार करने -

कालियशिरगमनं कृतफणिनमनं चातितयमनं मृदुलतरम् ॥

वल्लभदुःखहरणंनिर्मलचरणम् अशरणशरणं मुक्तिकरम् । भज ० । ८ ।

इति श्रीमहाप्रभुवल्लभाचार्यविरचितं श्रीनन्दकुमाराष्टकं सम्पूर्णम् ।



## ५६ — चतुःश्लोकी

सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।

करिष्यति स एवास्मद्दैहिकं पारलौकिकम् ॥ १ ॥

अन्याश्रयो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

स्वकीये स्वात्मभावश्च कर्तव्यः सर्वथा सदा ॥ २ ॥

सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत् ।

वाले हैं, निर्मल भक्तोंको हृदयमें धारण करनेवाले तथा कालियनागके मस्तक-  
पर नृत्य करनेवाले हैं, जिनकी शेषनाग भी स्तुति करते हैं, जो कालयवनके  
घातक और अतिकोमल हैं, जो अपने प्रियजनोंके शोकहारी, निर्मल  
चरणवाले, अशरणोंकी शरण और मोक्ष देनेवाले हैं, उन सब सुखोंके  
सारभूत, परब्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णका तत्त्वरूपसे भजन करो ॥ ८ ॥



सबके आत्मरूपसे व्याप्त, भगवान् ब्रजराज श्रीकृष्णका ही सदैव  
भजन करना चाहिये । वे ही हमलोगोंके लौकिक और पारलौकिक लाभ  
सिद्ध करेंगे ॥ १ ॥ दूसरेका आश्रय नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह सर्वथा  
बाधक होता है, सदा स्वावलम्बी होकर, [सब तरहसे आत्मभावका  
पान्न करना चाहिये ॥ २ ॥ कालादि दोषोंको दूर करनेवाले भगवान्

तद्भक्तेषु च निर्दोषभावेन स्थेयमादरात् ॥ ३ ॥

भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनः स्वयम् ।

कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्तान्न बाधते ॥ ४ ॥

इति श्रीविठ्ठलेश्वरोक्ता ( द्वितीया ) चतुःश्लोकी समाप्ता ।



कृष्णका सदा-सर्वदा सेवन करना चाहिये और दोष-दृष्टिको त्यागकर, श्रद्धापूर्वक उनके भक्तोंका सङ्ग करना चाहिये ॥ ३ ॥ भगवान् कृष्णमे ही सदैव अपने मनको लगाये रखना चाहिये; क्योंकि उनके भक्तोंको यह कठिन काल भी बाधा नहीं पहुँचा सकता ॥ ४ ॥



# विविधदेवस्तोत्राणि

## ६० — श्रीगणपतिस्तोत्रम्

जेतुं यद्विपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्भलिं बध्नता  
स्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धतुं धराध् ।  
पार्वत्या सहिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये  
घ्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्स नागादनः ॥ १ ॥  
विघ्नघ्वान्तनिवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाड्  
विघ्नव्यालकुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः ।  
विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नास्वधेर्वाडवो

त्रिपुरासुरको जीतनेके लिये निवने, बलिको छलसे बाँधते समय विष्णुने, जगात्को मचनेके लिये ब्रह्माने, पृथ्वी धारण करनेके लिये शंभुनागने, सहिषासुरको मारनेके समय पार्वतीने, सिद्धि पानेके लिये सिद्धोंके अधिपतियों ( सनकादि ऋषियों ) ने और सब संसारको जीतनेके लिये कामदेवनं जित गणेशजीका ध्यान किया है, वे हमलोगोंका पालन करें ॥ १ ॥ विघ्नरूप अन्धकारका नाश करनेवाले एकमात्र सूर्य, विघ्नरूप यमके जशनेवाले अग्नि, विघ्नरूप सर्पकुलका दण्ड नष्ट करनेके लिये गरुड, विघ्नरूप राक्षसों मारनेवाले सिंह, विघ्नरूप ऊँचे पहाड़के तोड़नेवाले बज्र, विघ्नरूप महासागरके बटवानन्द, विघ्नरूपी मेघसमूहके उड़ा देने-

विघ्नाघौघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः ॥ २ ॥  
 खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं  
 प्रस्यन्दन्सदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम् ।  
 दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं  
 वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ॥ ३ ॥  
 गजाननाय महसे प्रत्यूहतिमिरच्छिदे ।  
 अपारकरुणापूरतरङ्गितदृशे नमः ॥ ४ ॥  
 अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् ।  
 अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपासहे ॥ ५ ॥  
 श्वेताङ्गं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः

दाते प्रचण्ड वायुसदृश गणेशजी हमलोगोका पालन करे ॥ २ ॥  
 जो नाटे और मोटे शरीरवाले हैं, जिनका गजराजके समान मुँह और  
 कंदा उदर है, जो सुन्दर हैं तथा वहते हुए मदकी मुगन्धके लोभी भौरोंके  
 चाटनेसे जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है, दाँतोकी चोटसे विदीर्ण हुए  
 शत्रुओंके खूनसे जो सिन्दूरकी-सी शोभा धारण करते है, कामनाओके दाता  
 और सिद्धि देनेवाले उन पार्वतीके पुत्र गणेशजीकी मैं वन्दना करता  
 हूँ ॥ ३ ॥ विघ्नरूप अन्धकारका नाश करनेवाले, अथाह करुणारूप जल-  
 राशिसे तरङ्गित नेत्रोवाले, गणेश नामक ज्योतिको नमस्कार है ॥ ४ ॥  
 जो पार्वतीके मुखरूप कमलको प्रकाशित करनेमे सूर्यरूप है, जो भक्तोंको  
 अनेक प्रकारके फल देते हैं, उन एक दाँतवाले गणेशजीकी मैं सदैव  
 उपासना करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनका शरीर श्वेत है, कपड़े श्वेत है, श्वेत  
 फूल-चन्दन और रत्नदीपोसे क्षीरसमुद्रके तटपर जिनकी पूजा हुई है,



क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् ।  
 दोर्भिः पाशाङ्कुशाब्जाभयवरमनसं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं  
 ध्यायेच्छान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् ॥ ६ ॥  
 आवाहये तं गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमशेषवन्द्यम् ।  
 विघ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं भजामि रौद्रं सहितं च सिद्धया ॥ ७ ॥  
 यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ।  
 विश्वोद्भूतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॥ ८ ॥  
 विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकारिण वन्दीजनैर्मागधकैः स्मृतानि ।  
 श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मे जगन्मङ्गलकं कुरुष्व ॥ ९ ॥

देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रत्नके सिंहासनपर बैठे हैं, जिनके शयोमे पाश ( एक प्रकारकी डोरी ), अङ्कुश और कमलके फूल हैं, जो अभयदान और वरदान देनेवाले हैं, जिनके सिंगे चन्द्रमा रहते हैं और जिनके तीन नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मीके साथ रहनेवाले उन प्रसन्नप्रभु गणेशजीका अपनी शान्तिके लिये ध्यान करे ॥ ६ ॥ जो देवताओके गणके राजा हैं, लाल कमलके समान जिनके देहकी आभा है, जो सबके वन्दनीय हैं, विघ्नके काल हैं, विघ्नके हरनेवाले हैं, शिवजीके पुत्र हैं, उन गणेशजीका मैं सिद्धिके साथ आवाहन और भजन करता हूँ ॥ ७ ॥ जिनको वेदान्ती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसारकी सृष्टिके कारण या ईश्वर कहते हैं. उन विघ्नविनाशक गणेशजीको नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे विघ्नेश ! हे गजानन ! मागध और वन्दीजनोंके मुखसे गाये जाते हुए अपने विचित्र परामर्शोंका सुनकर ब्राह्मसूत्रमें उठो और जगत्का कल्याण करो ॥ ९ ॥

गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर खानुभवप्रकाशिन् ।  
 वरिष्ठ सिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतीः ॥१०॥  
 अनेकविघ्नान्तक वक्रतुण्ड स्वसंज्ञवासिंश्च चतुर्भुजेति ।  
 कवीश देवान्तकनाशकारिन् वदन्त एवं त्यजत प्रभीतीः ॥११॥  
 अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यम् ।  
 हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ॥१२॥  
 विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम् ।  
 सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ॥१३॥  
 यदीयवीर्येण समर्थभूता माया तथा संरचितं च विश्वम् ।

हे गणेश ! हे हेरम्ब ! हे गजानन ! हे लम्बोदर ! हे अपने अनुभवसे प्रकाशित होनेवाले । हे श्रेष्ठ ! हे सिद्धिके प्रियतम । हे बुद्धिनाथ ! ऐसा कहते हुए, हे मनुष्यो ! अपना भय छोड़ दो ॥ १० ॥ हे अनेक विघ्नोंका नाश करनेवाले ! हे वक्रतुण्ड ! गणेश आदि अपने नामवालोंमें भी निवास करनेवाले ! हे चतुर्भुज ! हे कवियोंके नाथ ! हे दैत्योंका नाश करनेवाले ! ऐसा कहते हुए, हे मनुष्यो ! अपने भयको भगा दो ॥ ११ ॥ जो गणेश अनन्त हैं, चेतनरूप हैं, अभेद और भेद आदिसे रहित और सृष्टिके आदि कारण हैं, अपने हृदयमें जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धिमें स्थित रहते हैं, उन एकदन्त गणेशजीकी शरणमें हम जाते हैं ॥ १२ ॥ जो ससारके आदि कारण हैं, योगियोंके हृदयमें अद्वितीय रूपसे साक्षात् प्रकाशित होते हैं और निरालम्ब समाधिके द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एकदन्त गणेशकी शरणमें हम जाते हैं ॥ १३ ॥  
 जिनके बलसे माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है,

नागात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१४॥

सर्वान्तरे संस्थितमेकदन्तं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति ।

अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१५॥

यं योगिनो योगवलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नोति ।

अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१६॥

देवेन्द्रसौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः ।

विघ्नान् हरन्तु हेरम्बचरणास्त्रुजरेणवः ॥१७॥

एकदन्तं सहाकार्यं लम्बोदरभजाननम् ।

विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् ॥१८॥

उन नागस्वरूपमे आत्मरूपसे प्रतीत होनेवाले एकदन्त गणेशकी शरणमे हम जाने हैं ॥ १४ ॥ जो सब लोगोंके अन्तःकरणमे अकेले गूढभावसे स्थित रहते हैं, जिनकी आज्ञासे यह जगत् विराजमान है, जो अनन्तरूप हैं और हृदयमें ज्ञान देनेवाले हैं, उन एकदन्त गणेशकी शरणमे हम जाने हैं ॥ १५ ॥ जिनको योगीजन योगवलेसे साध्य करते (ज्ञान पाते) हैं, न्युक्तिमे उनका वर्णन कौन कर सकता है ? इसलिये हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दे, उन प्रसिद्ध एकदन्तकी शरणमें हम जाने हैं ॥ १६ ॥ जो उन्द्रमें मुकुटमें गुंथे हुए मन्दारकुसुमोंके मकरन्द-कणोंमे लाल गे रंगी हैं, वह गणेशजीके चरणकमलोंकी रज विघ्नोंका दण्ड करें ॥ १७ ॥ एक दौतवाले, बड़े शरीरवाले, स्थूल उदरवाले, धार्मिक ममान मुखवाले और विघ्नोंका नाश करनेवाले गणेशदेवको मैं

यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।  
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥१९॥

इति श्रीगणपतिस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

## ६१ — सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रम्

नारद उवाच

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् ।  
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥ १ ॥  
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।  
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥ २ ॥  
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च ।

प्रणाम करता हूँ ॥ १८ ॥ हे देव ! जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गयी हो, उसके लिये क्षमा करो और हे परमेश्वर ! प्रसन्न होओ ॥ १९ ॥

नारदजी बोले—पार्वतीनन्दन देवदेव श्रीगणेशजीको सिर झुकाकर प्रणाम करे और फिर अपनी आयु, कामना और अर्थकी सिद्धिके लिये उन भक्तनिवासका नित्यप्रति स्मरण करे ॥ १ ॥ पहला वक्रतुण्ड ( टेढ़े मुखवाले ), दूसरा एकदन्त ( एक दाँतवाले ), तीसरा कृष्णपिङ्गाक्ष ( काली और भूरी आँखोवाले ), चौथा गजवक्त्र ( हाथीकेसे मुखवाले ) ॥ २ ॥ पाँचवाँ लम्बोदर ( बड़े पेटवाले ), छठा विकट ( विकराल ), सातवाँ

सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ॥ ३ ॥  
 नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।  
 एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॥ ४ ॥  
 द्वादशैतानि नमानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।  
 न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥ ५ ॥  
 विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।  
 पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥ ६ ॥  
 जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् ।  
 संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥  
 अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् ।

विघ्नराजेन्द्र ( विघ्नांका शासन करनेवाले राजाधिराज ) तथा आठवाँ धूम्रवर्ण  
 ( धूम्र वर्णवाले ) ॥ ३ ॥ नवाँ भालचन्द्र ( जिसके ललाटपर चन्द्रमा  
 सुशोभित है ) ; दसवाँ विनायक, ग्यारहवाँ गणपति और बारहवाँ  
 गजानन ॥ ४ ॥ इन बारह नामोंका जो पुरुष ( प्रातः, मध्याह्न और  
 सायंकाल ) तीनों संख्याओंमें पाठ करता है, हे प्रभो ! उसे किसी  
 प्रकारके विघ्नका भय नहीं रहता; इस प्रकारका स्मरण सब प्रकारकी  
 मित्रियाँ देनेवाला है ॥ ५ ॥ इसमें विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी  
 धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा सुसुख मोक्षगति प्राप्त कर लेता है ॥ ६ ॥ इस  
 गणपतिस्तोत्रका जप करे तो छः मासमें इच्छित फल प्राप्त हो जाता है  
 तथा एक वर्षमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है—इसमें किसी प्रकारका  
 रुद्धे नहीं है ॥ ७ ॥ जो पुरुष इसे लिखकर आठ ब्राह्मणोंको

तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्र सम्पूर्णम् ।

## ६२—सूर्याष्टकम्

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ।  
 दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥  
 सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् ।  
 श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ २ ॥  
 लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् ।  
 महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ३ ॥  
 त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् ।  
 महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥

समर्पण करता है, गणेशजीकी कृपासे उसे सब प्रकारकी विद्या प्राप्त हो जाती है ॥ ८ ॥

हे आदिदेव भास्कर ! आपको प्रणाम है, आप मुझपर प्रसन्न हो, हे दिवाकर ! आपको नमस्कार है । हे प्रभाकर ! आपको प्रणाम है ॥ १ ॥ सात घोड़ोवाले रथपर आरूढ, हाथमे श्वेत कमल धारण किये हुए प्रचण्ड तेजस्वी कश्यपकुमार सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ लोहितवर्ण रथारूढ सर्वलोकपितामह महापापहारी सूर्यदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ जो त्रिगुणमय ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है, उन महापापहारी महान् वीर सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥

वृंहितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशसैव च ।  
 प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ५ ॥  
 वन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् ।  
 एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ६ ॥  
 तं सूर्यं जगत्कर्तारं सहातेजःप्रदीपनम् ।  
 महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ७ ॥  
 तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् ।  
 महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ८ ॥

इति श्रीनिवप्रोक्त सूर्योष्टकं सम्पूर्णम् ।

### ६३ — श्रीसूर्यसण्डलाष्टकम्

नमः सवित्रे जगदेकवशुषे जगत्प्रभृतिस्थितिनाशहेतवे ।

जो बड़े हुए तेजके पुञ्ज हैं और वायु तथा आकाशस्वरूप हैं, उन समस्त लोकोंके अधिपति सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ जो वन्धूक ( दुपहरिया )-के पुष्पसमान रक्तवर्ण ओर हार तथा कुण्डलोसे विभूषित हैं, उन एक चक्रधारी सूर्यदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ महान् तेजके प्रकाशक, जगत्के कर्ता, महापापहारी उन सूर्य भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ उन सूर्यदेवको, जो जगत्के नायक हैं, ज्ञान, विज्ञान तथा मोक्षको भी देते हैं, नाथ गी जो बड़े-बड़े पापोंको भी हर लेते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥

जो जगत्के एकमात्र नेत्र ( प्रकाशक ) हैं; संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं, उन वैश्वदेवकीस्वरूप, सन्नादि तीनों गुणोंके

त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मने ॥१॥  
 यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम् ।  
 दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥२॥  
 यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम् ।  
 तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥३॥  
 यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वणम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् ।  
 समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥४॥  
 यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम् ।  
 यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥५॥

अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन रूप धारण करनेवाले सूर्य  
 भगवान्को नमस्कार है ॥ १ ॥ जो प्रकाश करनेवाला, विशाल रत्नोके  
 समान प्रभाववाला, तीव्र, अनादिरूप और दारिद्र्य-दुःखके नाशका  
 कारण है; वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥ जिनका  
 मण्डल देवगणसे अच्छी प्रकार पूजित है, ब्राह्मणोंसे स्तुत है और  
 भक्तोंको मुक्ति देनेवाला है; उन देवाधिदेव सूर्य भगवान्को मैं प्रणाम  
 करता हूँ और वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ३ ॥  
 जो ज्ञानघन, अगम्य, त्रिलोकीपूज्य, त्रिगुणस्वरूप, पूर्ण तेजोमय और  
 दिव्यरूप है, वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ४ ॥  
 जो सूक्ष्म बुद्धिसे जाननेयोग्य है और सम्पूर्ण मनुष्योंके धर्मकी वृद्धि  
 करता है तथा जो सबके पापोंके नाशका कारण है, वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ  
 मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ५ ॥ जो रोगोंका विनाश करनेमें समर्थ है,



यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु संप्रगीतम् ।  
 प्रकाशितं येन च भूर्भुवःस्वःपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥६॥  
 यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः ।  
 यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥७॥  
 यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके ।  
 यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥८॥  
 यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् ।  
 यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलश्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥९॥  
 यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् ।

जो ऋक्, यजु और साम—इन तीनों वेदोमें सम्यक् प्रकारसे गाया गया है तथा जिसने भूः, भुवः और स्वः—इन तीनों लोकोको प्रकाशित किया है, वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ६ ॥ वेदज्ञाता लोग जिसका वर्णन करते हैं, चारणो और सिद्धोका समूह जिसका गान किया करता है तथा योगका सेवन करनेवाले और योगीलोग जिसका गुणगान करते हैं, वह सूर्यभगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ७ ॥ जो समस्त जनोमें पूजित है और इस मर्त्यलोकमें प्रकाश करता है तथा जो काल और कल्पके क्षयका कारण भी है, वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ८ ॥ जो संसारकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा आदिमें प्रसिद्ध है, जो संसारकी उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करनेमें समर्थ है और जिसमें समस्त जगत् लीन हो जाता है, वह सूर्यभगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ९ ॥ जो सर्वान्तर्यामी विष्णु भगवान्का आत्मा तथा विशुद्ध तत्त्ववाला परमधाम है और जो सूक्ष्मबुद्धिवालोंके द्वारा

सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥१०॥

यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः ।

यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥११॥


यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् ।

तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥१२॥

मण्डलाष्टतयं पुण्यं यः पठेत्सततं नरः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥१३॥

इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलाष्टक सम्पूर्णम् ।



योगमार्गसे गमन करने योग्य है, वह सूर्यभगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ १० ॥ वेदके जाननेवाले जिसका वर्णन करते हैं, चारण और सिद्ध-गण जिसको गाते हैं और वेदज्ञलोग जिसका स्मरण करते हैं, वह सूर्य भगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ११ ॥ जिनका मण्डल वेदवेत्ताके द्वारा गाया गया है, और जो योगियोसे योगमार्गद्वारा अनुगमन करने योग्य है; उन सब वेदोके स्वरूप सूर्यभगवान्को प्रणाम करता हूँ; और वह सूर्यभगवान्का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ १२ ॥ जो पुरुष परम पवित्र इस मण्डलाष्टकस्तोत्रका पाठ सर्वदा करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो विशुद्धचित्त होकर सूर्यलोकमे प्रतिष्ठा पाता है ॥ १३ ॥



## ६४—वीरविंशतिकाख्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम्

लाङ्गूलमृष्टविद्यदम्बुधिसध्यसार्ग-

मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् ।

आस्फालितस्वकभुजस्कृदिताद्रिकाण्डं

द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे ॥ १ ॥

मध्येनिशाचरमहाभयदुर्विपद्यं

घोराद्भ्रुतव्रतमियं यददश्चचार ।

पत्ये तदस्य बहुधापरिणामदूतं

सीतापुरस्कृद्व्रतमुं हनुमन्तमीडे ॥ २ ॥

यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या

नैराग्यरूपितद्विरक्तमपि स्वरागैः ।

जो अपनी पूँछसे साफ किये हुए आकाश तथा समुद्रके मध्यवर्ती मार्गपर उछलकर चलते समय इन्द्रके आनन्दका कारण हो रहे थे और आगेकी ओर फैलायी हुई जिनकी भुजाओंसे पर्वतखण्ड फूटते जाते थे, जानकीजीके नेत्रोंको शीघ्र ही आनन्द देनेवाले उन हनुमान्जीकी आज मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जानकीजीने पतिके लिये जो निशाचरोके बीच अत्यन्त भयके कारण दुःसह, घोर एवं अद्भुत व्रत किया था, उसीके विविध फलस्वरूप दूतवेपथे सीताके सम्मुख अपने शरीरको प्रकट किये हुए हनुमान्जीकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ जिन्होंने श्रीरघुनाथपत्नी जानकीके दोनो चरणारविन्दोंको, जो निराशारूप धूलिसे धूसरित होनेके कारण रागग्रन्थ हो गये थे, बारबार प्रणाम

प्रागेव रागि विदधे बहु वन्दमानो

वन्देऽञ्जनाजनुषमेष विशेषतुष्ट्यै ॥ ३ ॥

ताञ्जानकीविरहवेदनहेतुभूतान्

द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् ।

लङ्कालकानिव वनानुदपाटयद्य-

स्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै ॥ ४ ॥

घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र-

सम्भ्रान्तनादितवलन्मृगनाथयूथम् ।

अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र-

मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे ॥ ५ ॥

करते हुए, अपने अनुरागोद्घारा [ पतिमिलनके ] पहले ही रागरञ्जित कर दिया; उन अञ्जनीनन्दन महावीरजीकी मैं विशेष सतोषके लिये वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ सुन्दर अशोक वनके घने वृक्षोको जानकीजीकी विरहवेदना [ को बढ़ाने ] का कारण समझकर जिन्होंने लङ्कानगरीकी स्निग्ध अलकावलीके समान उन्हे शीघ्र ही उखाड़ डाला, उन सुवर्णके सदृश सुन्दर शरीरवाले कपिवर हनुमान्जीको मैं अपने पालन-पोषणके लिये प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ अपने गम्भीर घोषसे प्रतिध्वनित पर्वतोकी सहस्रों कन्दराओंमें रहनेवाले सिंहोंके समूहको जिन्होंने सम्भ्रमवश गन्दायमान एवं विचलित कर दिया और अक्षकुमारके विनाशकालमें राक्षसराज रावणको भी आश्चर्यमें डाल दिया, उन कपिराज सुग्रीवकी सेनाके नायक हनुमान्जीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ लीलासे ही महासागरको लॉघ

हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दं

घूर्णद्गदाविहतिविक्षतराक्षसेषु ।

स्वम्मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाणं

वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् ॥ ६ ॥

जम्भारिजितप्रसभलम्भितपाशबन्धं

ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्रहन्तम् ।

रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि-

सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि ॥ ७ ॥

दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्ध्वचञ्च-

त्कोटीरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम् ।

पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण-

तत्कायशङ्कितनिपातमपेक्षि वक्षः ॥ ८ ॥

जानेपर भी तो तीव्र गतिसे घूमती हुई गदाद्वारा राक्षसोंके क्षत-विक्षत होनेपर अपने आनन्दसमुद्रको अपार-सा देख रहे थे, उन अक्षयकुमारके मारकेशरूप महावीरजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ जिन्होंने इन्द्रजित ( मेघनाद ) के हठात् फेंके हुए पाशबन्धनको ब्रह्माजीके अनुरोधकी भाँति तत्काल ग्रहण कर लिया और रुद्रका अवतार होनेपर भी जो रावणकी विशाल दृष्टिके संकोचका कारण बन गये, उन उदार वानरवीरको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जो अभिमानसे ऊपर उठे हुए रावणके मस्तकोपर देदीप्यमान किरीटोंमें अपने प्रतिबिम्बको देखकर उसमें अपने भुजयन्त्रद्वारा पीसे जानेवाले रावणके शरीरके रक्तपातकी अपेक्षा रखनेवाली अपनी छातीकी ओर निहारते हुए प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥

अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश-

क्रोधादिव द्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् ।

निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः

संस्तम्भयन्तमभिनीमि दशास्यमूर्तिम् ॥ ९ ॥

आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम

शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण

दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं

वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् ॥१०॥

यस्यौचितीं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं

दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः ।

देवताओंके समान पराक्रम रखनेवाले अक्षकुमार आदि वीरोके नाशजनित क्रोधसे ही मानो जिसने शीघ्र ही बदला लेनेके लिये चन्द्रहास नामक तलवार उठा ली है, उस दशग्रीव ( रावण ) के शरीरका गम्भीर मेघगर्जनाको भी मूक बनानेवाले अपने भयकर सिंहनादसे स्तम्भन करते हुए हनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ जो अपने किये हुए प्रचुर पराक्रमोंद्वारा विजयकी आशसासे युक्त श्रीरामचन्द्रजीके तेजका वर्णन कर रहे हैं और दूतधर्ममें प्राप्त होनेके समन्वयका ( अथवा समस्त शास्त्रोंके अन्वयका ) उपदेश करते हैं, उन राजा सुग्रीवकी सेनाके प्रधान ( सेनापति ) वीरकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१०॥ उचित उपदेश दे चुकनेपर, जिनकी पूँछमें निशाचरराज रावणका कोपानल ही उसकी दम्भसे अन्धी हुई बुद्धिके सहारे बढ़कर, लङ्काको जलानेकी इच्छासे वहाँ

नक्तञ्चराधिपतिरोपहिरण्यरेता

लङ्कां दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि ॥११॥

क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढैः

साक्षाद्गृहेरिव वहिः परिदेवमानाम् ।

स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकृपीटयोनि-

दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानाम् ॥१२॥

मूर्तेर्गृहासुभिरिव द्युपुरं व्रजद्भि-

व्योम्नि क्षणं परिगतं पतगैर्ज्वलद्भिः ।

पीताम्बरं दग्धतमुच्छ्रितदीप्ति पुच्छं

सेनां वहद्विहगराजमिवाहमीडे ॥१३॥

कूद पड़ा था, उन्हीं हनुमान्जीका मैं वरण करता हूँ ॥ ११ ॥ उनकी तनी हुई पूँछके किनारे अग्नि लगी थी, उससे समस्त लङ्कानगरी अत्यन्त वेगसे जल रही थी, बाहर निशाचरकुलका करुणक्रन्दन मचा हुआ था, उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो अग्निज्वालासे भूलसे हुए घर ही बाहर निकलकर रो रहे हैं, ऐसी लङ्कामे चारो ओर दौड़ते हुए हनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १२ ॥ प्रासादशिखरपर रहनेवाले तोता और कबूतर आदि पक्षी जलते हुए जब आकाशमे उड़ते थे, तो ऐसा मालूम होता था मानो उन दग्ध होनेवाले गृहोके प्राण ही मूर्तिमान् होकर स्वर्गमे जा रहे हैं, उन पक्षियोसे क्षण भर विरकर ऊपर उठी हुई ज्वालाओवाली पूँछ धारण किये, जिनकी शोभा पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुको पीठपर चढाकर अपना समूह साथ लिये विचरनेवाले पक्षिराज गरुड़की-सी हो रही थी, उन हनुमान्जीकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ १३ ॥

स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिलग्नवह्नि-

ज्वालोलललद्ध्वजपटामिव देवतुष्टयै ।

वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्त-

मद्यैव रामविजयाजिकवैजयन्तीम् ॥१४॥

रक्षश्चयैकचितकक्षकपूश्चितौ यः

सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः ।

दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं

लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे स नोऽस्तु ॥१५॥

आशुद्वये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये

वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय ।

लङ्कानगरके ऊपर अपनी विशाल पूँछरूपी खभेमे लगी हुई अग्निकी ज्वाला ही जिसमे पताकाके समान है, ऐसी रामचन्द्रजीकी रणविजय-वैजयन्तीको देवताओकी प्रसन्नताके लिये मानो आज ही आकाशमे दिखलाते हुए महावीरजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ जिन्होंने सीताजीकी पीड़ाको, जो उनके दर्शनमात्रसे मर चुकी थी, एकमात्र राक्षससमूहरूप काठ-कबाड़ोसे बनी हुई लङ्कारूपिणी चितापर सुलाकर, अपनी पूँछकी लगायी हुई अग्निसे उसका मरणान्त-कालोचित दाह-सस्कार किया, वे हनूमान्जी हमारी प्रसन्नताके कारण हो ॥१५॥ विदेहनन्दिनी सीताकी शुद्धिके लिये श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेमके एकमात्र साक्षीपदपर स्थिर



न्यासं ददानमिव पावकमापतन्त-

मब्धौ प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि ॥१६॥

रक्षस्ववृत्तिरुडशान्तिविशेषशोण-

मक्षक्षयक्षणविधानुमितात्मदाक्ष्यम् ।

भास्वत्प्रभातरविभानुभरावभासं

लङ्काभयङ्करमुं भगवन्तमीडे ॥१७॥

तीर्त्वीदधि जनकजापितमाप्य चूडा-

रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा ।

श्रीरामहर्षगलदश्वभिषिच्यमानं

तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् ॥१८॥

पावकको मानो समुद्रके यहाँ धरोहर रखनेके निमित्त, उसमे कूद पड़ने-  
वाले वायुनन्दनको मैं भजता हूँ ॥ १६ ॥ राक्षसो [ के साथ संग्राम ] में  
वृत्त न होनेके कारण, क्रोध एवं अशान्तिसे जो विशेष रक्तवर्ण हो गये हैं,  
अक्षयकुमारके संहारकालके कार्योंसे जिनकी दक्षताका अनुमान किया जा  
चुका है तथा जो प्रभात समयके प्रभामय सूर्यकी किरणोंके समान कान्तिमान् हैं,  
लङ्काको भय देनेवाले उन भगवान् हनुमान्की मैं स्तुति करता हूँ ॥ १७ ॥  
समुद्र लाँघकर, सीताके दिये हुए चूडारत्नको पाकर और शत्रुके महान्  
नगरको भी जलाकर, श्रीरामचन्द्रजीके आनन्दाश्रुसे सींचे जानेवाले,  
ब्रह्मचारिश्रेष्ठ वानरवीरकी मैं शरण लेता हूँ ॥ १८ ॥ जो पूर्वजन्ममें गौतम

यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः

शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मुनिशङ्करात्मा ।

हृद्यो हरस्य हरिवद्वरितां गतोऽपि

धीधैर्यशास्त्रविभवेऽतुलमाश्रये तम् ॥१९॥

स्कन्धेऽधिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या

यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषम् ।

तस्मादवाप च वरानपरानवाप्यान्

तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे ॥२०॥

उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता ।

हनूमतस्तुष्टयेऽस्तु वीरविंशतिकाभिधा ॥

इति श्रीकविपत्युपनामकोमापतिशर्मद्विवेदिविरचित वीरविंशतिकाख्य  
श्रीहनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

श्रृषिके शकरात्मा नामक शान्त शिष्य होनेपर भी उनके गुरुके समान  
श्रद्धापात्र थे, शंकरजीके प्राणवायुसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो हरि  
( वानर ) भावको प्राप्त होकर भी हरि ( विष्णु ) की भौति शंकरजीके  
हार्दिक प्रेमी है तथा बुद्धि, धैर्य और शास्त्रके वैभवमे जिनकी कहीं  
समता नहीं है, उन हनूमान्जीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ १९ ॥ जिन्होंने  
आशुतोष उमानाथको कधेपर चढाकर, अपनी लोकोत्तर गायनशैलीसे  
उन्हें प्रसन्न किया और उनसे पानेयोग्य उत्तम वरोको भी प्राप्त कर  
लिया, मैं उन परम वैष्णव भगवान् वानरवीरकी स्तुति करता हूँ ॥ २० ॥  
कविपति श्रीउमापतिजीकी बालकालमे रचित यह वीरविंशतिका नामकी  
स्तुति हनूमान्जीकी प्रसन्नताके लिये हो ।

## ६५—गङ्गाष्टकम्

मातः शैलसुतासपत्नि वसुधाशृङ्गारहारावलि  
 स्वर्गारोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये ।  
 त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खत-  
 स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः ॥ १ ॥  
 त्वत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो गङ्गे विहङ्गो वरं  
 त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः ।  
 नैवान्यत्र मदान्धपिन्धुरघटासङ्घट्टघण्टारण-  
 त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिर्भूपतिः ॥ २ ॥  
 उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारगो वा

पृथ्वीकी शृङ्गारमाला, पार्वतीजीकी सपत्नी और स्वर्गारोहणके  
 लिये वैजयन्ती पताकारूपिणी हे माता भागीरथि ! मैं आपसे यह प्रार्थना  
 करता हूँ कि तुम्हारे तटपर निवास करते हुए, तुम्हारा जल-पान करते  
 हुए, तुम्हारी तरङ्गभङ्गीमें, तरङ्गायमान होते हुए, तुम्हारा नामस्मरण करते  
 हुए और तुम्हींमि दृष्टि लगाये हुए मेरा शरीरपात हो ॥ १ ॥  
 हे गङ्गे ! तुम्हारे तटवर्ती तरुवरके कोटरमें पक्षी होकर रहना अच्छा है,  
 तथा हे नरकनिवारिणि ! तुम्हारे जलमें मत्स्य या कच्छप होकर जन्म लेना भी,  
 बहुत अच्छा है, किंतु दूसरी जगह मदमत्त गजराजोके जमघटके  
 घण्टारवसे भयभीत हुई, शत्रुमहिलाओंसे स्तुत पृथ्वीपति भी होना अच्छा  
 नहीं ॥ २ ॥ हे मातः ! मैं भले ही आपके आरपार रहनेवाला जन्म-मरणरूप

वारीणः स्यां जननमरणक्लेशदुःखासहिष्णुः ।  
 न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्काणमिश्रं  
 वारस्त्रीभिश्चमरमरुता वीजितो भूमिपालः ॥ ३ ॥  
 काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं  
 स्रोतोभिश्चरितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम् ।  
 दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा  
 द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ॥ ४ ॥  
 अभिनवत्रिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो-

र्मदनमथनमौलेर्मालतीपुष्पमाला ।

जयति जयपताका काप्यसौ माक्षलक्ष्म्याः

क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥ ५ ॥

क्लेशको सहन न करनेवाला कोई बैल, पक्षी, घोड़ा, सर्प अथवा हाथी हो जाऊँ, किंतु [ आपसे दूर ] किसी अन्य स्थानपर ऐसा राजा भी न होऊँ जिसपर वाराङ्गनाएँ मन्द-मन्द झनकारते हुए कङ्कणोकी सुमधुर ध्वनिसे युक्त चमर डुल रही हो ॥ ३ ॥ हे परमेश्वरि ! हे त्रिपथगे ! हे भागीरथि ! [ मरनेके अनन्तर ] देवाङ्गनाओके करकमलोमे सुशोभित सुन्दर चमरोंकी हवासे सेवित हुआ मैं अपने मृत शरीरको काकोसे कुरेदा जाता हुआ, कुत्तोंसे भक्षित होता हुआ, गीदडोसे लुण्ठित होता हुआ, तुम्हारे स्रोतमे पड़कर बहता हुआ, कभी किनारेके स्वल्प जलमे हिलता हुआ और फिर तरङ्ग-भङ्गियोमे आन्दोलित होता हुआ कब देखूँगा ? ॥ ४ ॥ जो भगवान् विष्णुके चरणकमलका नूतन मृणाल ( कमलनाल ) है तथा कामारि त्रिपुरारिके ललाटकी मालती-माला है, वह माक्षलक्ष्मीकी विलक्षण विजयपताका जयको प्राप्त हो । कलिकलङ्काको नष्ट करनेवाली, वह जाह्नवी हमें पवित्र करे ॥ ५ ॥ जो ताल,

एतत्तालतमालसालसरलव्यालोलवल्लीलता-  
 च्छन्नं सूर्यकरप्रतापरहितं शङ्खेन्दुकुन्दोज्ज्वलम् ।  
 गन्धर्वाभरसिद्धकिन्नरवधूत्तुङ्गस्तनास्फालितं  
 स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गङ्गं जलं निर्मलम् ॥ ६ ॥  
 गङ्गं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम् ।  
 त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् ॥ ७ ॥  
 पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि  
 शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि ।  
 झंकारकारि हरिपादरजोऽपहारि  
 गङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि ॥ ८ ॥

तमाल, साल, सरल तथा चञ्चल-वल्ली और लताओसे आच्छादित है, सूर्य-  
 किरणोंके तापसे रहित है, शङ्ख, कुन्द और चन्द्रके समान उज्ज्वल है तथा  
 गन्धर्व, देवता, सिद्ध और किन्नरोकी कामिनियोके पीन पयोधरोसे आस्फालित  
 ( टकराया हुआ ) है, वह अत्यन्त निर्मल गङ्गाजल नित्यप्रति मेरे स्नानके  
 लिये हो ॥ ६ ॥ जो श्रीमुरारिके चरणोसे उत्पन्न हुआ है, श्रीशंकरके  
 सिरपर विराजमान है तथा सम्पूर्ण पापोको हरण करनेवाला है, वह मनोहर  
 गङ्गाजल मुझे पवित्र करे ॥ ७ ॥ जो पापोको हरण करनेवाला, दुष्कर्मोंका  
 शत्रु, तरङ्गमय, शैल-खण्डोपर बहनेवाला, पर्वतराज हिमालयकी गुहाओंको  
 विदीर्ण करनेवाला, मधुर कलकल-ध्वनियुक्त और श्रीहरिकी चरणरजको  
 धोनेवाला है, वह निरन्तर शुभकारी गङ्गाजल मुझे पवित्र करे ॥ ८ ॥

गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते

वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः ।

प्रक्षाल्य गात्रकलिकल्मषपङ्कमाशु

मोक्षं लभेत्पतति नैव नरो भवाब्धौ ॥ ९ ॥

इति श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचित गङ्गाष्टक सम्पूर्णम् ।



### ६६—श्रीगङ्गाष्टकम्

भगवति तव तीरे नीरमात्राक्षनोऽहं

विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि ।

सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे

तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद ॥ १ ॥

जो पुरुष वाल्मीकिजीके रचे हुए, इस कल्याणप्रद गङ्गाष्टकको प्रातःकाल एकाग्रचित्तसे पढ़ता है, वह अपने शरीरकी कलिकल्मषरूप कीचड़को धोकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है और फिर ससार-समुद्रमें नहीं गिरता ॥ ९ ॥



हे देवि । तुम्हारे तीरपर केवल तुम्हारा जल्पान करता हुआ, विषय-तृष्णासे रहित हो, मैं श्रीकृष्णचन्द्रकी आराधना करूँ । हे सकलपापनाशिनि ! स्वर्गसोपानरूपिणि ! तरलतरङ्गिणि ! देवि गङ्गे ! मुझपर प्रसन्न हो ॥ १ ॥

भगवति भवलीलामौलिमाले तवाम्भः-

कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति ।

अमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां

विगतकलिकलङ्कातङ्कमङ्के लुठन्ति ॥ २ ॥

ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती

स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलन्ती ।

क्षोणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमूर्निर्भरं भर्त्सयन्ती

पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥ ३ ॥

मञ्जन्मातङ्गकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं

स्नानैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलत्कुङ्कुमासङ्गपिङ्गम् ।

हे भगवति ! तुम श्रीमहादेवजीके मस्तककी लीलामयी माला हो, जो प्राणी तुम्हारे जलकणके अणुमात्रको भी स्पर्श करते हैं, वे कलिकलङ्कके भयको त्यागकर, देवपुरीकी चँवरधारिणी अप्सराओकी गोदमे शयन करते हैं ॥२॥ ब्रह्माण्डको फोड़कर निकलनेवाली, महादेवजीकी जटा-लताको उल्लसित करती हुई, स्वर्गलोकसे गिरती हुई, सुमेरुकी गुफा और पर्वतमालासे झड़ती हुई, पृथ्वीपर लोटती हुई, पापसमूहकी सेनाको कड़ी फटकार देती हुई, समुद्रको भरती हुई, देवपुरीकी पवित्र नदी गङ्गा हमे पवित्र करे ॥३॥ स्नान करते हुए हाथियोंके कुम्भस्थलसे झरते हुए मदरूपी मदिराकी गन्धके कारण मधुपवृन्द जिससे मतवाले हो रहे हैं, सिद्धोंकी स्त्रियोंके स्नानोंसे बहे हुए कुङ्कुमके मिलनेसे जो पिङ्गलवर्ण हो रहा है तथा सायं

सायंप्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्थनीरं  
पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकलभकराक्रान्तरंहस्तरङ्गम् ॥ ४ ॥  
आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं  
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् ।  
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्मोर्महर्षेरिथं  
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ॥ ५ ॥  
शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मञ्जुनोत्तारिणी  
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी ।  
शेषाहेरनुकारिणी हरशिरोवल्लीदलाकारिणी  
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ॥ ६ ॥

प्रातः मुनियोद्द्वारा अर्पित कुश और पुष्पोके समूहोसे जो किनारेपर ढका हुआ है, हाथियोके बच्चोकी सूँडोसे जिनकी तरङ्गोका वेग आक्रान्त हो रहा है, वह गङ्गाजल हमारा कल्याण करे ॥ ४ ॥ जह्नु महर्षिकी कन्या पापनाशिनी भगवती भागीरथी, पहले ब्रह्माके कमण्डलुमे जलरूपसे, फिर शेषशायी भगवान्के पवित्र चरणोदकरूपसे और तदनन्तर महादेवजीकी जटाको सुशोभित करनेवाली मणिरूपसे दीख रही है ॥ ५ ॥ हिमालयसे उतरनेवाली, अपने जलमे गोता लगानेवालोंका उद्धार करनेवाली, समुद्रविहारिणी, ससार-सकटोको नाश करनेवाली, [ विस्तारमे ] शेषनागका अनुकरण करनेवाली, शिवजीके मस्तकपर लताके समान सुशोभित, काशीक्षेत्रमें बहनेवाली, मनोहारिणी गङ्गाजी विजयिनी हो रही हैं ॥ ६ ॥ यदि तुम्हारी



कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं  
 त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि ।  
 त्वदुत्सङ्गे गङ्गे पतति यदि कायस्तनुभृतां  
 तदा मातः शातक्रतवपदलाभोऽप्यतिलघुः ॥ ७ ॥  
 गङ्गे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतविस्तीर्णतोये  
 पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणी स्वर्गमार्गे ।  
 प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे  
 कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रिजगदधरे देवि गङ्गे प्रसीद ॥ ८ ॥  
 मातर्जाह्ववि शम्भुसङ्गवलिते मौलौ निधायञ्जलिं  
 त्वत्तीरे वपुषोऽवसानसमये नारायणाङ्घ्रिद्वयम् ।

तरङ्ग नेत्रोंके सामने आ जाय, तो फिर ससारकी तरङ्ग कहीं रह सकती है ?  
 तुम अपना जलपान करनेपर वैकुण्ठलोकमे निवास देती हो, हे गङ्गे ! यदि  
 जीवोका शरीर तुम्हारी गोदमे छूट जाता है, तो हे मातः ! उस समय इन्द्र-  
 पदकी प्राप्ति भी अत्यन्त तुच्छ मालूम होती है ॥ ७ ॥ तीनों लोकोंकी  
 सार सर्वदेवाङ्गनाएँ जिसमे स्नान करती हैं, ऐसे विस्तृत जलवाली पूर्ण  
 ब्रह्मस्वरूपिणी, स्वर्गमार्गमे भगवान्के चरणोंकी धूलि धोनेवाली, हे  
 गङ्गे ! जब तुम्हारे जलका एक कणमात्र ही ब्रह्महत्यादि पापोंका प्रायश्चित्त है  
 तो हे त्रैलोक्यपापनाशिनि ! तुम्हारी स्तुति करनेमे कौन समर्थ है ? हे देवि  
 गङ्गे ! प्रसन्न हो ॥ ८ ॥ हे शिवकी सङ्गिनी मातः गङ्गे ! शरीर शान्त  
 होनेके समय प्राण-यात्राके उत्सवमे, तुम्हारे तीरपर सिर नवाकर हाथ जोड़े

सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे  
 भूयाद्भक्तिरविच्युताहरिहरद्वैतात्मिका शाश्वती ॥ ९ ॥  
 गङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतो नरः ।  
 सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥१०॥

इति श्रीगङ्गाचार्यविरचितं श्रीगङ्गाष्टकं सम्पूर्णम् ।

### ६७—श्रीगङ्गास्तोत्रम्

देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे ।  
 शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ १ ॥  
 भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः ।  
 नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् ॥ २ ॥

हुए आनन्दसे भगवान्के चरणयुगलका स्मरण करते हुए मेरी अविचल भावसे हरि-हरमे अमेदात्मिका नित्य भक्ति बनी रहे ॥ ९ ॥ जो पुरुष शुद्ध होकर इस पवित्र गङ्गाष्टकका पाठ करता है, वह सब पापसे मुक्त होकर वैकुण्ठलोकमे जाता है ॥ १० ॥

हे देवि गङ्गे ! तुम देवगणकी ईश्वरी हो, हे भगवति ! तुम त्रिभुवन-को तारनेवाली, विमल और तरल तरङ्गमयी तथा शंकरके मस्तकपर विहार करनेवाली हो । हे मातः ! तुम्हारे चरणकमलमें मेरी मति लगी रहे ॥ १ ॥ हे भागीरथि ! तुम सब प्राणियोंको सुख देती हो, हे मातः ! वेद-शास्त्रमे तुम्हारे जलका माहात्म्य वर्णित है, मैं तुम्हारी महिमा कुछ नहीं जानता, हे दयामयि ! मुझ अज्ञानीकी रक्षा करो ॥ २ ॥ हे गङ्गे ! तुम

हरिपदपाद्यतरङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ताधवलतरङ्गे ।  
 दूरीकुरु यम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम् ॥ ३ ॥  
 तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम् ।  
 मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः ॥ ४ ॥  
 पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे ।  
 भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥ ५ ॥  
 कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके ।  
 पारावारविहारिणि गङ्गे विमुखयुवति कृततरलापाङ्गे ॥ ६ ॥  
 तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः ।

श्रीहरिके चरणोकी चरणोदकमयी नदी हो, हे देवि ! तुम्हारी तरङ्गे  
 हिम, चन्द्रमा और मोतीकी भाँति श्वेत हैं, तुम मेरे पापोंका भार दूर कर  
 दो और कृपा करके मुझे भवसागरसे पार उतारो ॥ ३ ॥ हे देवि ! जिसने  
 तुम्हारा जल पी लिया, अवश्य ही उसने परमपद पा लिया, हे मातः गङ्गे !  
 जो तुम्हारी भक्ति करता है, उसको यमराज नहीं देख सकता ( अर्थात्  
 तुम्हारे भक्तगण यमपुरीमें न जाकर वैकुण्ठमें जाते हैं, ) ॥ ४ ॥  
 हे पतितजनोका उद्धार करनेवाली जह्नुकुमारी गङ्गे ! तुम्हारी तरङ्गे गिरिराज  
 हिमालयको खण्डित करके बहती हुई सुशोभित होती है, तुम भीष्मकी  
 जननी और जह्नुमुनिकी कन्या हो, पतितपावनी होनेके कारण तुम  
 त्रिभुवनमें धन्य हो ॥ ५ ॥ हे मातः ! तुम इस लोकमें कल्पलताकी भाँति  
 फल प्रदान करनेवाली हो, तुम्हें जो प्रणाम करता है, वह कभी शोकमें नहीं  
 पड़ता, हे गङ्गे ! तुम समुद्रके साथ विहार करती हो और तुम्हारा चपल  
 अपाङ्ग ( नेत्र-कोण ) विमुख वनिताकी तरह चञ्चल है ॥ ६ ॥ हे गङ्गे ! जिसने  
 तुम्हारे प्रवाहमें स्नान कर लिया, वह फिर मातृगर्भमें प्रवेश नहीं करता ।

नरकनिवारिणि जाह्ववि गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे ॥ ७ ॥  
 पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जाह्ववि करुणापाङ्गे ।  
 इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥ ८ ॥  
 रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम् ।  
 त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ॥ ९ ॥  
 अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये ।  
 तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ १० ॥  
 वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः ।  
 अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥ ११ ॥

हे जाह्ववि ! तुम भक्तोको नरकसे बचाती हो और उनके पापोंका नाश करती हो, तुम्हारा माहात्म्य अतीव उच्च है ॥ ७ ॥ हे करुणाकटाक्षवाली जह्नुपुत्री गङ्गे ! मेरे अपावन अङ्गोपर अपनी पावन तरङ्गोंसे युक्त हो उल्लसित होनेवाली, तुम्हारी जय हो ! जय हो !! तुम्हारे चरण इन्द्रके मुकुटमणिसे प्रदीप्त है, तुम सबको सुख और शुभ देनेवाली हो और अपने सेवकको आश्रय प्रदान करती हो ॥ ८ ॥ हे भगवति ! तुम मेरे रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति-कलापको हर लो, तुम त्रिभुवनकी सार और वसुधाकी हार हो । हे देवि ! इस संसारमे एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ॥ ९ ॥ हे दुखियोंकी वन्दनीया देवि गङ्गे ! तुम अलकापुरीको आनन्द देनेवाली और परमानन्दमयी हो, तुम मुझपर कृपा करो, हे मातः ! जो तुम्हारे तटके निकट वास करता है, वह मानो वैकुण्ठमें ही वास करता है ॥ १० ॥ हे देवि ! तुम्हारे जलमे कच्छप या मीन बनकर रहना अच्छा है, तुम्हारे तीरपर दुबला-पतला गिरगिट ( कृकलास ) बनकर रहना अच्छा है, या अति मलीन-दीन चाण्डालकुलमें जन्म ग्रहण कर रहना अच्छा है, परंतु ( तुमसे ) दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी

भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये ।  
 गङ्गास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम् ॥१२॥  
 येषां हृदये गङ्गाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः ।  
 मधुराकान्तापञ्जटिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः ॥१३॥  
 गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारम् ।  
 शङ्करसेवकशङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः ॥१४॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित गङ्गास्तोत्र सम्पूर्णम् ।



## ६८—श्रीयमुनाष्टकम्

मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणी

तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी ।

अच्छा नहीं ॥ ११ ॥ हे देवि ! तुम त्रिभुवनकी ईश्वरी हो, तुम पावन  
 और धन्य हो, जलमयी तथा मुनिवरकी कन्या हो । जो प्रतिदिन इस  
 गङ्गास्तवका पाठ करता है, वह निश्चय ही संसारमें जयलाभ कर सकता  
 है ॥ १२ ॥ जिनके हृदयमें गङ्गाके प्रति अचल भक्ति है, वे सदा ही आनन्द  
 और मुक्ति लाभ करते हैं, यह स्तुति परमानन्दमयी सुललित पदावलीसे  
 युक्त, मधुर और कमनीय है ॥ १३ ॥ इस असार संसारमें उक्त गङ्गास्तव  
 ही निर्मल सारवान् पदार्थ है, यह भक्तोंको अभिलषित फल प्रदान करता है,  
 शंकरके सेवक शंकराचार्यकृत इस स्तोत्रको जो पढ़ता है, वह सुखी होता  
 है—इस प्रकार यह स्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १४ ॥



जो भगवान् कृष्णचन्द्रके अङ्गोकी नीलिमा लिये हुए मनोहर जलौघ  
 धारण करती है, त्रिभुवनका शोक हरनेवाली होनेके कारण स्वर्गलोकको

मनोऽनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदा

धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ १ ॥

मलापहारिवारिपूरभूरिमण्डितामृता

भृशं प्रपातकप्रवञ्चनातिपण्डितानिशम् ।

सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्गरागरञ्जिता हिता । धुनोतु० ॥ २ ॥

लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूतजातपातका

नवीनमाधुरीधुरीणभक्तिजातचातका ।

तटान्तवासदासहंससंसृता हि कामदा । धुनोतु० ॥ ३ ॥

तृणके समान सारहीन समझती है, जिसके मनोरम तटपर निकुञ्जोंका पुञ्ज वर्तमान है, जो लोगोका दुर्मद दूर कर देती है; वह कालिन्दी यमुना सदा हमारे आन्तरिक मलको धोवे ॥ १ ॥ जो मलापहारी सलिलसमूहसे अत्यन्त सुशोभित है, मुक्तिदायक है, सदा ही बड़े-बड़े पातकोको लूट लेनेमें अत्यन्त प्रवीण है, सुन्दर नन्द-नन्दनके अङ्गस्पर्गजनित रागसे रञ्जित है, सबकी हितकारिणी है, वह कालिन्दी यमुना सदा ही हमारे मानसिक मलको धोवे ॥ २ ॥ जो अपनी सुहावनी तरङ्गोके सम्पर्कसे समस्त प्राणियोंके पापोंको धो डालती है, जिसके तटपर नूतन मधुरिमासे भरे भक्तिरसके अनेको चातक रहा करते हैं, तटके समीप वास करनेवाले भक्तरूपी हसोसे जो सेवित रहती है और उनकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है; वह कलिन्द-कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मलको मिटावे ॥ ३ ॥

विहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता

गता गिरामगोचरे यदीयनीरचारुता ।

प्रवाहसाहचर्यपूतमेदिनीनदीनदा । धुनांतु० ॥ ४ ॥

तरङ्गसङ्गसैकताश्रितान्तरा सदासिता

शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञ्जरीसभाजिता ।

भवार्चनाय चारुणाम्बुनाधुना विशारदा । धुनांतु० ॥ ५ ॥

जलान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणी

स्वभर्तुरन्यदुर्लभाङ्गसङ्गतांशभागिनी ।

खदत्तसुप्तसप्तसिन्धुभेदनातिकोविदा । धुनांतु० ॥ ६ ॥

जिसके तटपर विहार और रास-विलासके खेदको मिटा देनेवाली मन्द-मन्द वायु चल रही है, जिसके नीरकी सुन्दरताका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता, जो अपने प्रवाहके सहयोगसे पृथ्वी, नदी और नदोको पावन बनाती है; वह कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा हमारे मानसिक मलको दूर करे ॥ ४ ॥ लहरोंसे सम्पर्कित वालुकामय तटसे जिसका मध्यभाग सुशोभित है, जिसका वर्ण सदा ही श्यामल रहता है, जो शरदऋतुके चन्द्रमाके किरणमयी मनोहर मञ्जरीसे अलंकृत होती है और सुन्दर सलिलसे संसारको सन्तोष देनेमें जो कुशल है, वह कलिन्द-कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मलको नष्ट करे ॥ ५ ॥ जो जलके भीतर क्रीडा करनेवाली सुन्दरी राधाके अङ्गरागसे युक्त है, अपने स्वामी श्रीकृष्णके अङ्गस्पर्श-सुखका, जो अन्य किसीके लिये दुर्लभ है, उपभोग करती है, जो अपने प्रवाहसे प्रशान्त सप्त समुद्रोंमें हलचल पैदा करनेमें, अत्यन्त कुशल है, वह कालिन्दी यमुना सदा हमारे आन्तरिक मलको धोवे ॥ ६ ॥

जलच्युताच्युताङ्गरागलम्पटालिशालिनी

विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी ।

सदावगाहनावतीर्णभर्तृभृत्यनारदा । धुनोतु० ॥ ७ ॥

सदैव नन्दनन्दकेलिशालिकुञ्जमञ्जुला

तटोत्थफुल्लमल्लिकाकदम्बरेणुसूज्ज्वला ।

जलावगाहिनां नृणां भवाब्धिसिन्धुपारदा । धुनोतु० ॥ ८ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित श्रीयमुनाष्टकं सम्पूर्णम् ।

### ६६ — यमुनाष्टकम्

कृपापारावारां

तपनतनयां

तापशमनीं

मुरारिप्रेयस्कां

भवभयदवां

भक्तवरदाम् ।

जलमे धुलकर गिरे हुए श्रीकृष्णके अङ्गरागसे अपना अङ्गस्नान करती हुई सखियोंसे जिसकी गोभा बढ़ रही है, जो राधाके चञ्चल अलकोंमें गुँथी हुई चम्पकमालासे मालाधारिणी हो गयी है, स्वामी श्रीकृष्णके भृत्य नारद आदि जिसमे सदा ही स्नान करनेके लिये आया करते हैं, वह कल्किन्द-कन्या यमुना हमारे आन्तरिक मलको धो डाले ॥ ७ ॥ जिसके तटवती मञ्जुल निकुञ्ज सदा ही नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी लीलाओसे सुशोभित होते हैं, किनारेपर बढ़कर खिली हुई मल्लिका और कदम्बके पुष्प-परागसे जिसका वर्ण उज्ज्वल हो रहा है, जो अपने जलमे डुबकी लगानेवाले मनुष्योंको भवसागरसे पार कर देती है, वह कल्किन्द-कन्या यमुना सदा ही हमारे मानसिक मलको दूर बहावे ॥ ८ ॥

जो कृपाकी समुद्र, सूर्यकुमारी, तापको गान्त करनेवाली, श्री-कृष्णचन्द्रकी प्रेमिका, ससारमीतिके लिये दावानलस्वरूप, भक्तोंको वर



वियज्जालान्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः प्रतिदिनं  
 सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम् ॥ १ ॥  
 मधुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्नविसङ्गिनि सिन्धुसुते  
 मधुरिपुभूषिणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशकृते ।  
 जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते  
 जय यमुने जय भीतिनिवारिणि सक्रटनाशिनि पावय माम् ॥ २ ॥  
 अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शैलविहारिणि वेगभरे  
 परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वाञ्छितकामविलासधरे ।  
 ब्रजपुरवासिजनार्जितपातकहर्त्रेण विश्वजनोद्धरिके । जय ० ॥ ३ ॥  
 अतिविपद्म्बुधिमग्नजनैः भवतापशताकुलमानसकं  
 गतिमतिहीनमशेषभयाकुल्यागतपादसरोजयुगम् ।

देनेवाली और आकाशजलसे मुक्त लक्ष्मीस्वरूपा हैं, उन नित्यफल-  
 दायिनी यमुनाजीका धीर पुरुष सुखप्राप्तिके लिये निश्चयपूर्वक निरन्तर  
 प्रतिदिन भजन करता है ॥ १ ॥ हे मधुवनमे विहार करनेवाली ! हे  
 भास्करवाहिनि ! हे गङ्गाजीकी सहचरी ! हे सिन्धुसुते ! हे श्रीमधुसूदन-  
 विभूषिणि ! हे माधवतृप्तिकारिणि ! हे गोकुलका भय दूर करनेवाली !  
 हे जगत्पापविनाशिनि ! हे वाञ्छितफलदायिनि ! हे कृष्णकेलिकी आश्रय-  
 भूता सकलभयनिवारिणी सकटनाशिनी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो !  
 तुम मुझे पवित्र करो ॥ २ ॥ अयि मधुरे ! अयि मधुगन्धविलासिनि !  
 हे पर्वतोमे विहार करनेवाली ! परमवेगवती, अपने तीरवर्ती भक्तजनोका  
 पालन करनेवाली ! दुष्टोका सहार करनेवाली, इच्छित कामनाओकी  
 विलासभूमि, ब्रजभूमिनिवासियोके अर्जित पापोंको हरण करनेवाली तथा  
 सम्पूर्ण जीवोका उद्धार करनेवाली, सकल भयनिवारिणी सकटनाशिनी  
 यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥ ३ ॥ जो महान्  
 विपत्तिसागरमे निमग्न है, सैकड़ों सांसारिक संतापोसे जिसका मन

ऋणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरम् । जय० ॥४॥

नवजलदद्युतिकोटिलसत्तनुहेममयाभररञ्जितके

तडिदवहेलिपदाञ्चलचञ्चलशोभितपीतसुवैलधरे ।

मणिमयभूषणचित्रपटासनरञ्जितगञ्जितभानुकरे । जय० ॥५॥

शुभपुलिने मधुमत्तयदूङ्गवरासमहोत्सवकेलिभरे

उच्चकुलाचलराजित मौक्तिकहारमयाभररोदसिके ।

नवमणिकोटिकभास्करकञ्चुकिशोभिततारकहारयुते । जय० ॥६॥

करिवरमौक्तिकनासिक भूषणवातचमत्कृतचञ्चलके

व्याकुल है, जो गति ( आश्रय ) और मति ( विचार ) से शून्य तथा सब प्रकारके भयोसे व्याकुल है, जो ऋण और भयसे दबा हुआ तथा सैकड़ों-हजारों करोड़ प्रतिकारशून्य पापोका पुतला है, तुम्हारे चरणकमल-युगलमें प्राप्त हुए ऐसे मुझेको, हे सकलभयनिवारिणी सकटनाशिनी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥ ४ ॥ तुम्हारा शरीर करोड़ों नवीन मेघोकी कान्तिसे सुशोभित तथा सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित है, उसका चञ्चल अञ्चल चपलाकी भी अवहेलना करता है, ऐसे पीत दुकूलको धारण करके तुम परम शोभायमान हो रही हो, तथा मणिमय आभूषण और चित्र-विचित्र वस्त्र एव आसनसे रञ्जित होकर तुमने सूर्यकी किरणोंको भी कुण्ठित कर दिया है; हे सकलभयनिवारिणी सकटहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥५॥ हे सुन्दर तटोवाली ! हे मधुमत्त यदुकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण और बलरामके रासमहोत्सवकी क्रीडाभूमि ! हे ऊँचै-ऊँचे कुलपर्वतोंकी श्रेणियोंपर शोभायमान मुक्तावलीरूप आभूषणोंसे पृथ्वी और आकाशको विभूषित करनेवाली ! हे करोड़ों भास्करोंके समान नवीन मणियोंकी कञ्चुकीसे सुशोभित तथा तारावलीरूप हारसे युक्त, सकलभयनिवारिणी संकटहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥ ६ ॥ तुम्हारी नासिकाकी भूषणरूप गजमुक्ता वायुसे चञ्चल होकर झिलमिल रही है,

मुखकमलामलसौरभचञ्चलमत्तमधुव्रतलोचनिके  
 मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके । जय० ॥७॥  
 कलरवनूपुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके  
 धिमिधिमिधिमिधिमितालविनोदितमानसमञ्जुलपादगते ।  
 तव पदपङ्कजमाश्रितमानवचित्तसदाखिलतापहरे । जय० ॥८॥  
 भवोत्तापाभोधौ निपतितजनो दुर्गतियुतो  
 यदि स्तौति प्रातः प्रतिदिनमनन्धाश्रयतया ।  
 हयाहेषैः कामं करकुसुमपुञ्जैरविरतं  
 सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरिताम् ॥ ९ ॥  
 इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं यमुनाष्टकं सम्पूर्णम् ।



तुम्हारे नेत्ररूप मतवाले भौरे मानो मुखकमलकी सुवाससं चञ्चल हो रहे हैं  
 तथा दोनो अमल कपोल हिलते हुए मणिमय कुण्डलोकी झलकसे झिलमिला  
 रहे हैं; हे सकलभयनिवारिणी संकटहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय  
 हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥७॥ तुम्हारे अरुण चरणकमल सुवर्णमयनूपुरोके  
 कलरवसे युक्त है, तुम मनको प्रसन्न करनेवाली 'धिमि-धिमि' स्वरमयी  
 मनोहर गतिसे गमन करती हो । जो मनुष्य तुम्हारे चरण-कमलोमे चित्त  
 लगाता है, तुम उसके सम्पूर्ण ताप हर लेती हो; हे सकलभयनिवारिणी  
 संकटहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥८॥  
 जो मनुष्य संसारके संतापसमुद्रमे डूबकर अत्यन्त दुर्गतिग्रस्त हो रहा है, वह  
 यदि प्रतिदिन प्रातःकाल अनन्य चित्तसे ( इस स्तोत्रद्वारा श्रीयमुनाजीकी )  
 स्तुति करेगा, वह ( यावजीवन ) घोड़ोंकी हिनहिनाहट तथा हाथोमे पुष्प-  
 पुञ्जसे सुशोभित होकर, निरन्तर सम्पूर्ण भोगोको भोगेगा और मरनेके समय  
 भगवद्रूप हो जायगा ॥ ९ ॥

# प्रकीर्णस्तोत्राणि

७० — प्रातःस्मरणम्

( क ) परब्रह्मणः

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं  
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् ।

यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं

तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥ १ ॥

प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यं

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण ।

यन्नेतिनेतिवचनैर्निगमा अवोचं-

स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् ॥ २ ॥

मैं प्रातःकाल हृदयमे स्फुरित होते हुए आत्मतत्त्वका स्मरण करता हूँ, जो सत्, चित् और आनन्दरूप है, परमहसोका प्राप्य स्थान है और जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण है, जो स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रत्-अवस्थाको नित्य जानता है, वह स्फुरणारहित ब्रह्म ही मैं हूँ, पञ्चभूतोंका सघात ( शरीर ) मैं नहीं हूँ ॥ १ ॥ जो मन और वाणीसे अगम्य है, जिसकी कृपासे समस्त वाणी भास रही है, जिसका शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करते हैं, जिस अजन्मा देवदेवेश्वर अच्युतको अग्र्य ( आदि ) पुरुष कहते हैं, मैं उसका प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं  
 पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।  
 यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ  
 रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥ ३ ॥  
 श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम् ।  
 प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम् ॥ ४ ॥

इति श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ परब्रह्मणः प्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

( ख ) श्रीविष्णोः

प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै  
 नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम् ।  
 ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं  
 चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ॥ १ ॥  
 प्रातर्नमामि मनसा वचसा च सूधर्ना  
 पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः ।

जिस सर्वस्वरूप परमेश्वरमें यह समस्त ससार रज्जुमें सर्पके समान प्रतिभासित हो रहा है, उस अज्ञानातीत, दिव्यतेजोमय, पूर्ण सनातन पुरुषोत्तमको मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ ॥३॥ ये तीनो श्लोक तीनों लोकोंके भूषण हैं, इन्हे जो कोई प्रातःकालके समय पढ़ता है, उसे परमपदकी प्राप्ति होती है ॥४॥

गरुडवाहन, कमलनाभ, ग्राहसे ग्रसित गजेन्द्रकी मुक्तिके कारण, सुदर्शनचक्रधारी, नवविकसित कमलपत्रसे नेत्रवाले नारायणका भवभयरूपी महान् दुःखकी शान्तिके लिये, मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले विप्रोंके परम आश्रय, नरकरूप संसारसमुद्रसे

नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य  
 पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ २ ॥  
 प्रातर्भजामि भजतामभयङ्करं तं  
 प्राक्सर्वजन्मकृतपापभयापहत्यै ।  
 यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रिगजेन्द्रघोर-  
 शोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः ॥ ३ ॥

॥ इति श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम् ॥

( ग ) श्रीरामस्य

प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं  
 मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम् ।  
 कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं  
 कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् ॥ १ ॥

तारनेवाले, उस परमपुरुषके चरणारविन्दयुगलमे सिर झुकाकर मैं मन-  
 वचनसे प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जिसने शङ्ख-चक्र धारण  
 करके ग्राहके मुखमे पडे हुए चरणवाले गजेन्द्रके घोर सकटका नाश  
 किया, भक्तोको अभय करनेवाले उन भगवान्को मैं अपने पूर्वजन्मके  
 सब पापोका नाश करनेके लिये प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥

जो मधुर मुसकानयुक्त, मधुरभाषी और विशाल भालसे सुशोभित  
 हैं, कानोमे लटके हुए चञ्चल कुण्डलोसे जिनके दोनो कपोल  
 शोभित हो रहे है तथा जो कर्णपर्यन्त विस्तृत बड़े-बड़े नेत्रोंसे  
 शोभायमान और नेत्रोंको आनन्द देनेवाले है, श्रीरघुनाथजीके ऐसे  
 मुखारविन्दका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ मैं प्रातः-

प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं  
 रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः ।  
 यद्राजसंसदि विभज्य महेशचार्षं  
 सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं  
 वज्राङ्कुशादिशुभरेखि सुखावहं मे ।  
 योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं  
 शापापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः ॥ ३ ॥

प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम  
 वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति ।  
 यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा  
 प्रीत्या सहस्रहरिनाम३मं जजाप ॥ ४ ॥

काल श्रीरघुनाथजीके करकमलोंका स्मरण करता हूँ, जो राक्षसोंको भय देनेवाले और भक्तोंके वरदायक हैं तथा जिन्होंने राजसभामे शंकरका धनुष तोड़कर शीघ्र ही सीताका मङ्गलमय पाणिग्रहण किया था ॥२॥ मैं प्रातःकाल श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ, जो वज्र, अङ्कुश आदि शुभ रेखाओंसे युक्त, मेरे सुखदायी, योगियोंके मन-मधुपद्वारा सेवित और गौतमपत्नी अहल्याके शापको दूर करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ मैं प्रातःकाल अपनी वाणीसे श्रीरघुनाथजीके नामका जप करता हूँ, जो वाणीके दोषोंको नाश करनेवाले और सर्व पापोंको हरनेवाले हैं तथा जिसे पार्वतीजीने अपने पति ( शंकर ) के साथ भोजन करनेकी इच्छासे भगवान्के सहस्रनामके सदृश प्रीतिसहित जपा था ॥ ४ ॥ मैं प्रातःकाल श्रीरघुनाथजीकी वेदवन्दित

प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्तिं

नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम् ।

आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां

ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुम् ॥ ५ ॥

यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्वि

नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः ।

श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो

भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् ॥ ६ ॥

॥ इति श्रीरामस्य प्रातःस्मरणम् ॥

( घ ) श्रीशिवस्य

प्रातः सरामि भवभीतिहरं सुरेशं

गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।

मूर्तिका आश्रय लेता हूँ, जो नीलकमल और नीलमणिके समान नीलवर्ण, लटकते हुए मोतियोकी मालासे विभूषित, समस्त मुनियोकी ध्येय तथा भक्तोको मोक्ष प्रदान करनेवाली है ॥ ५ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल नींदसे जगकर जितेन्द्रियभावसे इन पाँच श्लोकोका नित्य पाठ करता है, वह श्रीरामजीके सेवकोमे मुख्य होकर श्रीहरिके लोकोको, जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है, प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

जो सासारिक भयको हरनेवाले और देवताओके स्वामी हैं, जो गङ्गाजीको धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अम्बिकाके ईश हैं तथा जिनके हाथमें खट्वाङ्ग, त्रिशूल और वरद तथा अभयमुद्रा है, उन ससार-रोगको



खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥ १ ॥

प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्द्धदेहं

सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।

विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोऽभिरामं

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं

वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् ।

नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥ ३ ॥

प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य

श्लोकत्रयं येऽनुदिनं पठन्ति ।

हरनेके निमित्त अद्वितीय औषधरूप 'ईश' ( महादेवजी ) का मैं प्रातः समयमें स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ भगवती पार्वती जिनका आधा अङ्ग हैं, जो संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, आदिदेव हैं, विश्वनाथ हैं, विश्वविजयी और मनोहर हैं, सासारिक रोगको नष्ट करनेके लिये अद्वितीय औषधरूप उन गिरिश ( शिव ) को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥ जो अन्तसे रहित आदिदेव हैं, वेदान्तसे जाननेयोग्य, पापरहित एवं महान् पुरुष हैं तथा जो नाम आदि भेदोंसे रहित, छः अभावोंसे शून्य, संसाररोगको हरनेके निमित्त अद्वितीय औषध हैं, उन एक शिवजीको मैं प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिवका ध्यान कर

ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं

हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भोः ॥४॥

॥ इति श्रीशिवस्य प्रातःस्मरणम् ॥

(ङ) श्रीदेव्याः

चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं  
चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणीं सत्पदाम् ।

चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणीरञ्जितां  
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥१॥

कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्धासिभालस्थलीं  
कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरामोदोल्लसद्बीटिकाम् ।

प्रतिदिन इन तीनों श्लोकोंका पाठ करते हैं, वे लोग अनेक जन्मोंके सचित दुःखसमूहसे मुक्त होकर शिवजीके उसी कल्याणमय पदको पाते हैं ॥ ४ ॥

जिनके चञ्चल और अरुण नेत्रोंसे करुणा प्रकट हो रही है, चन्द्रमा और सूर्य जिनके मस्तकके आभूषण हैं, जिनका मुख सुन्दर मुसकानसे सुशोभित है, जो चराचर जगत्की रक्षिका हैं, सत्पुरुष जिनके विश्राम-स्थान हैं, शोभायमान चम्पाके समान सुन्दर नासिकाके अग्रभागमे मोतीकी बुलाक जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन श्रीशैलपर निवास करनेवाली भगवती श्रीमाताका मैं स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ जिनका ललाट कस्तूरीकी वेदीसे विभूषित और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान है, जिनके मुखमें कर्पूरके रससे युक्त चूना और खैरकी सुगन्धसे पूर्ण पानकी बीड़ी शोभा दे रही है, जो अपने चञ्चल कटाक्षसे तरङ्गायमान करुणाकी

लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपासारैर्नतानन्दिनीं

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥२॥

॥ इति श्रीदेव्याः प्रातःस्मरणम् ॥

(च) श्रीगणेशस्य

प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं

सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् ।

उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड-

माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् ॥१॥

प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमान-

मिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् ।

तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं

पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥

धारावाहिनी वृष्टिसे प्रणत भक्तोको/आनन्द देनेवाली हैं, श्रीशैलपर निवास करनेवाली उन भगवती श्रीमाताका मैं स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥

जो इन्द्र आदि देवेश्वरोंके समूहसे वन्दनीय हैं, अनाथोंके बन्धु हैं, जिनके युगल कपोल सिन्दूरराशिसे अनुरञ्जित हैं, जो उद्दण्ड (प्रबल) विघ्नोका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन श्रीगणेशजीको मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ जो ब्रह्मासे वन्दनीय हैं, अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल पूर्ण वरदान देनेवाले हैं, तुन्दिल हैं, सर्प ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीडाकुशल शिव-पार्वतीके पुत्र ( श्रीगणेशजी ) को मैं कल्याणप्राप्तिके लिये प्रातःकाल नमस्कार

प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक-

दावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् ।

अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाह-

मुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य ॥ ३ ॥

श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम् ।

प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान् ॥ ४ ॥

॥ इति श्रीगणेशप्रातःस्मरणम् ॥

( छ ) श्रीसूर्यस्य

प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं

रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूषि ।

सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं

ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम् ॥ १ ॥

करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, भक्तोंके शोकरूप वनके लिये दावानल ( वनाग्नि ) हैं, गणोंके नायक हैं, जिनका मुख हाथीके समान और सुन्दर है और जो अज्ञानरूप वनको नष्ट करने ( जलाने ) के लिये अग्नि हैं, उन उत्साह बढ़ानेवाले शिवसुत ( श्रीगणेश-जी ) को मैं प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर सयतचित्तसे इन तीनों पवित्र श्लोकोंका नित्य पाठ करता है उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्यके समान सुख देता है ॥ ४ ॥

मैं सूर्यभगवान्के उस श्रेष्ठ रूपको प्रातःसमय स्मरण करता हूँ; जिनका मण्डल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है और किरणें सामवेद हैं; और जो ब्रह्माका दिन है, जगत्की उत्पत्ति, रक्षा और नाशका कारण है तथा अलक्ष्य और अचिन्त्यस्वरूप है ॥ १ ॥ मैं प्रातःसमय शरीर, वाणी

प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभि-

ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नतमर्चितं च ।

वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं

त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं

पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च ।

तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं

गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् ॥ ३ ॥

श्लोकत्रयमिदं भानोः प्रातःकाले पठेत्तु यः ।

स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

॥ इति श्रीसूर्यप्रातःस्मरणम् ॥

और मनके द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्तुत और पूजित, वृष्टिके कारण एवं अवृष्टिके हेतु, तीनों लोकोंके पालनमें तत्पर और सत्त्व आदि त्रिगुणरूप धारण करनेवाले तरणि ( सूर्यभगवान् ) को नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जो पापोंके समूह तथा शत्रुजनित भय एवं रोगोंका नाश करनेवाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण लोकोंके समयकी गणनाके निमित्तभूत कालस्वरूप हैं और गौओंके कण्ठबन्धन छुड़ानेवाले हैं, उन अनन्तशक्तिसम्पन्न आदिदेव सविता ( सूर्यभगवान् ) को मैं प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके स्मरणरूप इन तीनों श्लोकोंका पाठ करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त होकर परम सुख प्राप्त कर सकता है ॥४॥

( ज ) श्रीभगवद्भक्तानाम्

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक-

व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् ।

रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्

पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि ॥ १ ॥

( पाण्डवगीतायाः )

वाल्मीकिः सनकः सनन्दनतरुर्व्यासो वसिष्ठो भृगु-

र्जाबालिर्जमदग्निक्वच्छजनको गर्गोऽङ्गिरा गौतमः ।

मान्धाता ऋतुपर्णवैन्यसगरा धन्यो दिलीपो नलः


पुण्यो धर्मसुतो ययातिनहुषौ कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥२ ॥

( मङ्गलाष्टकात् )

॥ इति प्रातःस्मरणम् ॥



प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्य, रुक्माङ्गद, अर्जुन, वसिष्ठ और विभीषण आदि इन परम पवित्र वैष्णवोका मैं ( प्रातःकाल ) स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ वाल्मीकि, सनक, सनन्दन, तरु, व्यास, वसिष्ठ, भृगु, जाबालि, जमदग्नि, कच्छ, जनक, गर्ग, अङ्गिरा, गौतम, मान्धाता, ऋतुपर्ण, पृथु, सगर, धन्यवाद देनेयोग्य दिलीप और नल, पुण्यात्मा युधिष्ठिर, ययाति और नहुष—ये सब हमारा मङ्गल करें ॥ २ ॥



## ७१ — श्रीशिवरामाष्टकस्तोत्रम्

शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधतापनिवारण हे विभो ।  
 अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयंकुरु मे वरम् ॥ १ ॥  
 कमललोचन राम दयानिधे हर गुरो गजरक्षक गोपते ।  
 शिवतनो भव शङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयंकुरु मे वरम् ॥ २ ॥  
 सुजनरञ्जन मङ्गलमन्दिरं भजति ते पुरुषः परमं पदम् ।  
 भवति तस्य सुखं परमद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ३ ॥  
 जय युधिष्ठिरबल्लभ भूपते जय जयार्जितपुण्यपयोनिधे ।  
 जय कृपामय कृष्ण नमोऽस्तु ते शिव हरे विजयंकुरु मे वरम् ॥ ४ ॥

हे शिव ! हे हरे, हे शिव, हे राम, हे सखे ! हे प्रभो, हे त्रिविध ताप-  
 निवारण विभो ! हे अज, हे जगन्नाथ, हे यादव ! मेरी रक्षा करो, हे  
 शिव ! हे हरे ! मेरी कल्याणमय विजय करो ॥ १ ॥ हे कमललोचन  
 दयानिधे राम ! हे हर ! हे गुरो ! हे गजरक्षक ! हे गोपते ! हे कल्याणरूप-  
 धारी भव ! हे शंकर ! मेरी रक्षा करो, हे शिव ! हे हरे ! मेरी उत्तम  
 विजयसाधन करो ॥ २ ॥ हे सजन-मनरञ्जन ! जो पुरुष तुम्हारे  
 मङ्गलमन्दिर ( शिव और विष्णुरूप ) परमपदका आश्रय लेते हैं, उन्हें  
 परम दिव्य सुख प्राप्त होता है, अतएव हे शिव ! हे हरे ! मेरा वर  
 विजयसाधन करो ॥ ३ ॥ हे युधिष्ठिरके प्रियतम ! हे भूपते ! आप  
 विजयी हों ! हे पुण्यमहासागरके उपार्जन करनेवाले ! आपकी जय हो,  
 जय हो ! हे दयामय कृष्ण ! आपकी जय हो ! आपको नमस्कार है;  
 हे शिव ! हे हरे ! आप मेरी कल्याणमय विजय करें ॥ ४ ॥

भवविमोचन माधव मापते सुकविमानसहंस शिवारते ।  
 जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ५ ॥  
 अवनिमण्डलमङ्गल मापते जलदसुन्दर राम रमापते ।  
 निगमकीर्तिगुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ६ ॥  
 पतितपावन नाममयी लता तव यशो विमलं परिणीयते ।  
 तदपि माधव मां किमुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ७ ॥  
 अमरतापरदेव रमापते विजयतस्तव नामधनोपमा ।  
 मयि कथं करुणार्णव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ८ ॥  
 हनुमतः प्रिय चापकर प्रभो सुरसरिद्धृतशेखर हे गुरो ।

हे भवभयहारी माधव ! हे लक्ष्मीपते ! हे सुकवि-मानस-हंस ! हे पार्वती-प्रिय !  
 हे जानकीजीवन राघव ! मेरी रक्षा करो, हे शिव ! हे हरे ! मेरा वर  
 विजय-सम्पादन करो ॥ ५ ॥ हे भूमिमण्डलके मङ्गलस्वरूप ! हे श्रीपते !  
 हे घनश्याम सुन्दर ! हे राम ! हे रमापते ! हे वेदवर्णित गुणसागर !  
 हे गोपते ! हे शिव ! हे हरे ! मेरी कल्याणमय विजय करो ॥ ६ ॥  
 हे पतितपावन ! तुम्हारा नाम कल्पलता है, तुम्हारा यश नित्य सर्वत्र गाया  
 जाता है तथापि हे माधव ! तुम मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो ? हे शिव !  
 हे हरे ! मेरा शुभ विजय-साधन करो ॥ ७ ॥ हे देवोंमें श्रेष्ठ देव ! हे  
 दयासागर ! रमापते ! सर्वत्र विजय पानेवाले तुझ परमेश्वरके नामरूपी  
 धनका आदर्श कोष मेरे पास किस प्रकार सञ्चित हो जायगा ।  
 हे शिव ! हे हरे ! मेरा परम विजय-साधन करो ॥ ८ ॥ हे  
 हनुमत्प्रिय ! हे चापधारी प्रभो ! हे शीशपर गङ्गाजीको धारण करनेवाले



मम विभो किमु विस्मरणं कृतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ ९ ॥

अहरहर्जनरञ्जनसुन्दरं पठति यः शिवरामकृतं स्तवम् ।

विशति रामरमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥ १० ॥

प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेदेकाग्रमानसः ।

विजयो जायते तस्य विष्णुमाराध्यमाप्नुयात् ॥ ११ ॥

इति श्रीरामानन्दस्वामिना विरचितं श्रीशिवरामाष्टकं सम्पूर्णम् ।

## ७२—कैवल्याष्टकम्

मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् ।

पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् ॥ १ ॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् ।

गुरुदेव ! हे विभो ! तुम क्यो मुझे भूल गये ? हे शिव ! हे हरे ! मेरा परम जय-साधन करो ॥ ९ ॥ जो मनुष्य इस लोकप्रिय सुन्दर रामानन्द स्वामीके विरचित शिवराम-स्तवका पाठ करता है, वह राम-रमाके चरण-कमलोंमें प्रवेश करनेमें समर्थ होता है । हे शिव ! हे हरे ! मेरा श्रेष्ठ विजय-साधन करो ॥ १० ॥ जो प्रातःकाल उठकर एकाग्रचित्तसे इस शिवरामस्तोत्रका पाठ करता है, उसकी सर्वत्र जय होती है और वह अपने आराध्यदेव विष्णुको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

केवल हरिका नामही मधुरसे भी मधुर, मङ्गलमयसे भी मङ्गलमय और पवित्रसे भी पवित्र है ॥ १ ॥ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सारा संसार मायामय है,

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् ॥ २ ॥  
 स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः ।  
 शिक्षयेच्चेत्सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ३ ॥  
 निःश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्रो भविष्यति ।  
 कीर्तनीयमतो बाल्याद्धरेर्नामैव केवलम् ॥ ४ ॥  
 हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः ।  
 गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् ॥ ५ ॥  
 अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यतः ।  
 काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ६ ॥  
 दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः ।  
 गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ७ ॥

केवल हरिका नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य है, फिर भी [ कहता हूँ कि ]  
 नाम ही सत्य है ॥ २ ॥ जो सर्वदा केवल हरिनाम स्मरण करना ही सिखलाता  
 है, वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और बन्धु भी वही है ॥ ३ ॥  
 श्वासका कुछ विश्वास नहीं, न मालूम कब रुक जायगा, इसलिये  
 बाल्यावस्थासे ही केवल हरिनामका ही कीर्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥  
 जहाँ भक्तजन भक्तिभावेसे केवल हरिनामका ही गान करते है, वहाँ सर्वदा  
 भगवान् विराजते हैं ॥ ५ ॥ अहो ! महान् दुःख है ! भयंकर कष्ट है !!  
 सबसे बढकर शोक है !!! जो विषयरूपी काचके लिये हरिनामरूपी रत्नको  
 बिसार दिया ! ॥ ६ ॥ केवल एक हरिनामके ही श्रवणमे कान लगाओ,  
 दाणीसे बोलो और उसीका निरन्तर गान करो ॥ ७ ॥

तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि ।  
चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ८ ॥

इति श्रीकैवल्याष्टकं सम्पूर्णम् ।

### ७३ — साधनपञ्चकम्

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म खनुष्ठीयतां  
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् ।  
पापौघः परिभूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता-  
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १ ॥  
सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां  
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् ।

सम्पूर्ण जगत्को तृणतुल्य करके, सबके ऊपर केवल एक हरिका शुद्ध  
सच्चिदानन्दधन नाम ही विराजता है ॥ ८ ॥

सर्वदा वेदाध्ययन करो, इसके बतलाये हुए कर्मोंका भलीभाँति  
अनुष्ठान करो, उनके द्वारा भगवान्की पूजा करो और काम्यकर्मोंमें  
चित्तको मत जाने दो, पापसमूहका परिमार्जन करो, संसारसुखमें  
दोषानुसन्धान करो, आत्मजिज्ञासाके लिये प्रयत्न करो और शीघ्र ही  
गृहका त्याग कर दो ॥ १ ॥ सज्जनोंका सङ्ग करो, भगवान्की दृढ़ भक्तिका  
आश्रय लो, गम-दमादिका भलीभाँति सचय करो और कर्मोंका शीघ्र ही  
दृढ़तापूर्वक त्याग कर दो, सच्चे ( परमार्थ जाननेवाले ) विद्वान्के पास नित्य

सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां  
 ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥  
 वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां  
 दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ।  
 ब्रह्मैवास्मि विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां  
 देहेऽहम्मतिरुज्झ्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥  
 क्षुद्रघादिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां  
 स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम् ।  
 शीतोष्णादि विपद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-  
 मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्टुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥

आओ और उनकी चरणपादुकाका सेवन करो, उनसे एकाक्षर ब्रह्मकी जिज्ञासा करो और वेदोके महावाक्योका श्रवण करो ॥ २ ॥ महावाक्यके अर्थका विचार करो, महावाक्योका आश्रय लो, कुतर्कसे दूर रहो और श्रुति-सम्मत तर्कका अनुसंधान करो, 'मैं भी ब्रह्म ही हूँ' नित्य ऐसी भावना करो, अभिमानको त्याग दो, देहमे अहबुद्धि छोड़ दो और विचारवान् पुरुषोके साथ वाद-विवाद मत करो ॥ ३ ॥ क्षुधारूप व्याधिकी प्रतिदिन चिकित्सा करो, भिक्षारूप औषधका सेवन करो, स्वादु अन्नकी याचना मत करो, दैवयोगसे जो मिल जाय उसीसे संतोष करो, सर्दी-गर्मी, मुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंको सहन करो और व्यर्थ वाक्य मत उच्चारण करो, उदासीनता धारण करो अन्य मनुष्योंकी कृपाकी इच्छा तथा निष्टुरताको त्याग दो ॥ ४ ॥ एकान्तमे

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां  
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम् ।  
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तिबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां  
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ५ ॥  
 यः श्लोकपञ्चकमिदं पठते मनुष्यः

सञ्चिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य ।  
 तस्याशु संसृतिदवानलतीव्रघोर-  
 तापःप्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात् ॥ ६ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं साधनपञ्चकं सम्पूर्णम् ।



सुखसे बैठो, परब्रह्ममे चित्तको लगा दो, पूर्णात्माको अच्छी तरह देखो और इस जगत्को उसके द्वारा बाधित देखो, संचित कर्मोंका नाश कर दो, ज्ञानके बलसे क्रियमाण कर्मोंसे लिपायमान मत होओ; प्रारब्ध कर्मको यहीं भोग लो, इसके बाद परब्रह्मरूपसे (एकीभाव होकर) स्थित हो जाओ ॥ ५ ॥ जो मनुष्य इन पाँचों श्लोकोंको पढ़ता है और स्थिरचित्तसे प्रतिदिन इनका मनन करता है, उसके संसारदावानलके तीव्र घोर ताप आत्मप्रसादके होनेसे शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥



७४—धन्याष्टकम्

तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां  
 तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम् ।  
 ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः  
 शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति ॥ १ ॥

आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग-  
 द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ।  
 ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या-  
 कान्तासुखा बत गृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥

त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता-  
 मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तम् ।

जो इन्द्रियोको शान्त करनेवाला है, वही ज्ञान है । जो उपनिषदोंका निश्चितार्थ है, वही ज्ञेय है । जिनकी समस्त चेष्टाएँ परमार्थदृष्टिसे ही होती हैं, वे ही पृथ्वीतलमे धन्य हैं और सब तो भूलभुलैयमें ही भटकते रहते हैं ॥ १ ॥ प्रथम विषयसमूह तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको जीतकर, योगसाम्राज्यको पाकर, अमृतपदका ज्ञान प्राप्तकर, ब्रह्मविद्यारूपिणी कान्ताका सुखानुभव करते हुए, मानो घरमें ही विचरण करते हैं, वे योगीजन धन्य हैं ॥ २ ॥ अधोगतिके हेतुभूत घरके मोहको छोड़कर, आत्मजिज्ञासासे उपनिषदर्थभूत

वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता

धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३ ॥

त्यक्त्वा समाहमिति बन्धकरे पदे द्वे

मानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।

कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि

कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥

त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा

भिक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ।

ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं

धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥

नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु

न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् ।

ब्रह्मानन्दका पान करते हुए, निःस्पृह होकर, विषयभोगोसे विरक्त हो, जो निःसंगभावसे जनशून्य स्थानोमे विचरते हैं, वे धन्य है ॥ ३ ॥ जो मैं और मेरा रूप दोनो बन्धनकारी भावोको छोड़कर, मानापमानको समान समझते हुए, समदर्शी होकर तथा अपनेसे पृथग्भूत कर्ताको जानकर सम्पूर्ण कर्मफल उसको समर्पण करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं ॥ ४ ॥ लोकैषणा, पुत्रैषणा तथा वित्तैषणा—तीनोंको छोड़कर मुक्तिमार्गाका अनुशीलन करके भिक्षामृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए, जो परमात्मसंज्ञक परात्पर ज्योतिको एकान्तदेगमे अपने हृद्यमे अवलोकन करते है, वे द्विज धन्य है ॥ ५ ॥ जो न असत् है, न सत् है और न सदसत् है, न नहान् है न अणु है, न स्त्री है, न पुमान् है और न नपुंसक है; संसारका

यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेकचित्ता

धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः ॥ ६ ॥

अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं

दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।

संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या

ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥

शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावै-

रेकत्रनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः ।

साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं

शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥

अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः

कुणपमिव सुनारीं त्यक्तुकामो विरागी ॥

एकमात्र कारण है, उस ब्रह्मकी जिन्होंने उपासना की है, एकाग्रचित्त-  
वे ही धन्य पुरुष सुशोभित होते हैं और तो सब संसारबन्धनमे-  
बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ जो पङ्कमे सने हुए अज्ञान, निःसार, दुःखरूप,  
जन्मजगमरणादिसमन्वित, संसारबन्धनको अनित्य देखकर उसको ज्ञानरूपी  
खड्गसे काटकर आत्मतत्त्वका निश्चय करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं ॥ ७ ॥  
जिन्होंने मनके द्वारा एकत्वका निश्चय किया है और मोहको त्याग दिया  
है ऐसे शान्त, अनन्यमति और कोमलचित्त महात्माओंके साथ, जो  
स्योग वनमे शास्त्रोद्वारा आत्मतत्त्वका निरन्तर विचार करते हैं, वे धन्य  
हैं ॥ ८ ॥ जो जनममूहको सदा सर्प-सहवासके समान त्यागता है, सुन्दर



विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान्  
 जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति ॥ ९ ॥  
 सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा  
 गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।  
 वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी  
 सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि ॥१०॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं

धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ।



## ७५—कौपीनपञ्चकं स्तोत्रम्

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।  
 अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १ ॥

स्त्रीकी वैराग्यभावसे शवके समान उपेक्षा करता है, दुस्त्यज विषयोंको विषके समान छोड़ता है, उस परमहंसकी जय हो; जय हो । वही मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ जिसने परब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिये सारा संसार नन्दनवन है, समस्त वृक्ष कल्पवृक्ष हैं, सम्पूर्ण जल गङ्गाजल है, उसकी सारी क्रियाएँ पवित्र हैं, उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत हो वेदकी सारभूत है, उसके लिये सम्पूर्ण भूमण्डल काशी (मुक्तिक्षेत्र) ही है तथा और भी उसकी जो-जो चेष्टाएँ हैं, सब परमार्थमयी ही हैं ॥१०॥

सदैव उपनिषद्वाक्योंमें रमते हुए, भिक्षाके अन्नमात्रमें ही संतोष रखते हुए, शोकरहित तथा दयावान् कौपीन धारण करने-वाले ही भाग्यवान् हैं ॥ १ ॥ केवल वृक्षतलोंमें रहनेवाले, दोनों

मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममत्रयन्तः ।  
 कन्थामपि स्त्रीमिव कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥  
 देहाभिमानं परिहृत्य दूरादात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः ।  
 अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ३ ॥  
 स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः ।  
 नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥४॥  
 पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः ।  
 भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥५॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकं ( यतिपञ्चकम् ) सम्पूर्णम् ।

हाथोंको ही भोजनपात्र बनानेवाले, गुदड़ीको भी स्त्रीकी भाँति  
 तुच्छ बुद्धिसे देखनेवाले कौपीनधारी ही भाग्यवान् हैं ॥ २ ॥  
 देहाभिमानको दूरसे ही छोड़कर, अपनी आत्माको अपनेमें ही देखते हुए  
 रात-दिन ब्रह्ममे रमण करनेवाले कौपीनधारी ही भाग्यवान् हैं ॥ ३ ॥  
 आत्मानन्दमें ही संतुष्ट रहनेवाले, अपने भीतर ही सारी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ  
 शान्त कर देनेवाले, अन्त, मध्य और बाहरकी स्मृतिसे शून्य रहनेवाले  
 कौपीनधारी ही भाग्यवान् हैं ॥ ४ ॥ पवित्र पञ्चाक्षरमन्त्र ( नमः शिवाय )  
 का जप करते हुए, हृदयमें परमेश्वरकी भावना करते तथा भिक्षाका भोजन  
 करते हुए सब दिशाओंमें विचरनेवाले कौपीनधारी ही भाग्यवान् हैं ॥ ५ ॥

## ७६—परापूजा

अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणि ।  
 स्थितेऽद्वितीयभावेऽस्मिन्कथं पूजा विधीयते ॥ १ ॥  
 पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।  
 स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ २ ॥  
 निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च ।  
 अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकम् ॥ ३ ॥  
 निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च ।  
 निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलंकारो निराकृतेः ॥ ४ ॥  
 निरञ्जनस्य किं धूपैर्दीपैर्वा सर्वसाक्षिणः ।  
 निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यं किं भवेदिह ॥ ५ ॥

अखण्ड, सच्चिदानन्द और निर्विकल्पैकरूप अद्वितीय भावके  
 स्थिर हो जानेपर, किस प्रकार पूजा की जाय ? ॥ १ ॥  
 जो पूर्ण है, उसका आवाहन कहाँ किया जाय ? जो सबका आधार है,  
 उसे आसन किस वस्तुका दे ? जो स्वच्छ है, उसको पाद्य और अर्घ्य  
 कैसे दें ? और जो नित्य शुद्ध है, उसको आचमनकी क्या अपेक्षा ? ॥ २ ॥  
 निर्मलको स्नान कैसा ? सम्पूर्ण विश्व जिसके पेटमे है, उसे वस्त्र कैसा ?  
 और जो वर्ण तथा गोत्रसे रहित है, उसके लिये यज्ञोपवीत कैसा ? ॥ ३ ॥  
 निर्लेपको गन्ध कैसी ? निर्वासनिकको पुष्पोसे क्या ? निर्विशेषको शोभाकी क्या  
 अपेक्षा ? और निराकारके लिये आभूषण क्या ? ॥ ४ ॥ निरञ्जनको धूपसे  
 क्या ? सर्वसाक्षीको दीप कैसा तथा जो निजानन्दरूपी अमृतसे तृप्त

विश्वानन्दयितुस्तस्य किं ताम्बूलं प्रकल्प्यते ।  
 स्वयंप्रकाशचिद्रूपो योऽसावर्कादिभासकः ॥ ६ ॥  
 प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य ह्यद्वयस्य कुतो नतिः ।  
 वेदवाक्यैरवेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ ७ ॥  
 स्वयंप्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभोः ।  
 अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथमुद्रासनं भवेत् ॥ ८ ॥  
 एवमेव परापूजा सर्वावस्थासु सर्वदा ।  
 एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मवित्तमैः ॥ ९ ॥

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं  
 पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।

है, उसे नैवेद्यसे क्या ? ॥ ५ ॥ जो स्वयंप्रकाश, चित्स्वरूप सूर्य-चन्द्रादिका भी अवभासक और विश्वको आनन्दित करनेवाला है, उसे ताम्बूल क्या समर्पण किया जाय ? ॥ ६ ॥ अनन्तकी परिक्रमा कैसी ? अद्वितीयको नमस्कार कैसा ? और जो वेदवाक्योसे भी जाना नहीं जा सकता, उसका स्तवन कैसे किया जाय ? ॥ ७ ॥ जो स्वयंप्रकाश और विभु है, उसकी आरती कैसे की जाय ? तथा जो बाहर-भीतर सब ओर परिपूर्ण है, उसका विसर्जन कैसे हो ? ॥ ८ ॥ ब्रह्मवेत्ताओको सर्वदा सब अवस्थाओमें इसी प्रकार एक बुद्धिसे भगवान्की परापूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ हे शम्भो ! मेरा आत्मा ही तुम हो, बुद्धि श्रीपार्वतीजी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपकी कुटिया है, नाना प्रकारकी भोगसामग्री आपका पूजोपचार है, निद्रा समाधि है, मेरे चरणोंका चलना आपकी प्रदक्षिणा है और मैं

सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो  
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥१०॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं परापूजास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

## ७७—चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः ।  
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥ १ ॥  
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ।  
प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकृञ् करणे ॥

( ध्रुवपदम् )

जो कुछ भी बोलता हूँ, वह सब आपके स्तोत्र हैं । अधिक क्या ? मैं जो  
कुछ भी करता हूँ, वह सब आपकी आराधना ही है ॥ १० ॥

दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसन्त  
पुनः-पुनः आते हैं, इसी प्रकार कालकी लीला होती रहती है  
और आयु बीत जाती है; किंतु आशारूपी वायु छोड़ती ही नहीं;  
अतः हे मूढ ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके समीप  
आनेपर 'डुकृञ् करणे'\* यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी ॥ १ ॥  
दिनमे आगे अग्नि और पीछे सूर्यसे शरीर तपाते हैं, रात्रिके समय  
जानुओमे ठोड़ी दवाये पड़े रहते हैं; हाथमे ही भिक्षा माँग लते हैं,

\* व्याकरणमें 'डुकृञ् करणे' एक धातु है । इसे एक ब्राह्मणको वृद्ध होनेपर  
भी रटते देखकर श्रीशङ्कराचार्यजीने यह उपदेश किया ।

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः ।

करतलभिक्षा तरुतलघासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः । भज० । २ ।

यावद्विचोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः ।

पश्चाद्भावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे । भज० । ३ ।

जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः ।

पश्यन्नपि च न पश्यति लोको ह्युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः । भज० । ४ ।

भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता ।

सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् । भज० । ५ ।

वृक्षके तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आगाका जाल जकड़े ही रहता है, अतः हे मूढ ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'हुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी ॥ २ ॥ अरे, जबतक धन कमानेमें लगा हुआ है तभीतक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है, जब जराग्रस्त होगा तो घरमे कोई बात भी न पूछेगा, अतः हे मूढ ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'हुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ३ ॥ जटाजूटधारी होकर, मुण्डित होकर, लुञ्चितकेश होकर, काषायाम्बरधारी होकर, ऐसे नाना प्रकारके वेष धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेटके लिये ही नाना प्रकारसे शोक किया करता है; अतः हे मूढ ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर यह 'हुकृञ् करणे' रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ४ ॥ जिसने भगवद्गीताको कुछ भी पढ़ा है, गङ्गाजलकी जिसने एक बूँद भी पी है; एक बार भी जिसने भगवान् कृष्णचन्द्रका अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है ? अतः हे मूढ ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'हुकृञ् करणे' रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ५ ॥

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम् । भज० । ६ ।

बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः ।

वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः । भज० । ७ ।

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् ।

इह संसारे खलु दुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे । भज० । ८ ।

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः ।

अङ्ग गलित हो गये, शिरके बाल पक गये, मुखमे दाँत नहीं रहे, वृद्ध हो गया, लाठी लेकर चलने लया, फिर भी आशा पिण्ड नहीं छोड़ती; अरे मूढ़ ! निरन्तर गोविन्दको भज; क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर यह 'डुकृञ् करणे' रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ६ ॥ बालक तो खेल-कूदमे आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्रीमें आसक्त है और वृद्ध भी नाना प्रकारकी चिन्ताओमे मग्न रहता है, परब्रह्ममें तो कोई संलग्न नहीं होता, अतः अरे मूढ़ ! तू सदा गोविन्दका ही भजन कर, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ७ ॥ इस संसारमे पुनः-पुनः जन्म, पुनः-पुनः मरण और चारंबार माताके गर्भमें रहना पड़ता है, अतः हे मुरारे ! मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसारसे कृपया पार कीजिये, इस प्रकार अरे मूढ़ ! तू तो सदा गोविन्दका ही भजन कर, क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ८ ॥ रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आवे और गये तो भी तो लोग ईर्ष्या और आशाको नहीं छोड़ने, अतः अरे मूढ़ ! तू सदा गोविन्दका भजन कर;

पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् । भज० ॥९॥  
 वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः ।  
 नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः । भज० ॥१०॥  
 नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम् ।  
 एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय बारम्बारम् । भज० ॥११॥  
 कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः ।  
 इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् । भज० ॥१२॥  
 ध्येयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमंजसम् ।

क्योकि मृत्युके समीप आनेपर यह 'डुकृञ् करणे' रटना रक्षा न कर सकेगी ॥९॥  
 अवस्था ढलनेपर काम-विकार कैसा ? जल सूखनेपर जलाशय क्या ? तथा  
 धन नष्ट होनेपर परिवार ही क्या ? इसी प्रकार तत्त्वज्ञान होनेपर संसार ही  
 कहाँ रह सकता है ? अतः हे मूढ़ ! सदा गोविन्दको भज, क्योकि मृत्युके  
 समीप आनेपर यह 'डुकृञ् करणे' रटना रक्षा न कर सकेगी ॥१०॥ नारीके  
 स्तनो और नाभिनिवेशमे मिथ्या माया और मोहका ही आवेश है, ये मास और  
 भेदके ही विकार हे—ऐसा बार-बार मनमे विचार, हे मूढ़ ! सदा गोविन्दका  
 भजन कर, क्योकि मृत्युके समीप आनेपर यह 'डुकृञ् करणे' रटना रक्षा न  
 कर सकेगी ॥ ११ ॥ स्वप्नवत् मिथ्या संसारकी आस्था छोड़कर 'तू कौन है,  
 मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन  
 है ?—इस प्रकार सबको असार समझ तथा हे मूढ़ ! निरन्तर  
 गोविन्दका भजन कर; क्योकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे'  
 यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १२ ॥ गीता और विष्णुसहस्रनामका  
 नित्य पाठ करना चाहिये, भगवान् विष्णुके स्वरूपका निरन्तर ध्यान  
 करना चाहिये, चित्तको संतजनोंके उग्रमें लगाना चाहिये और दीनजनोंको



नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् । भज० । १३।

यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत्पृच्छति देहे ।

गतवति वायौ देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन्काये ॥ भज० । १४।

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः ।

यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् । भज० । १५।

रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः ।

नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः । भज० । १६।

धन दान करना चाहिये और हे मूढ़ ! नित्य गोविन्दका ही भजन कर, क्योंकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १३ ॥ जबतक प्राण शरीरमें है तबतक ही लोग घरमे कुशल पूछते हैं, प्राण निकलनेपर शरीरका पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है, अतः हे मूढ़ ! नित्य गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १४ ॥ पहले तो सुखसे स्त्री-सम्भोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीरमे रोग घर कर लेते हैं, यद्यपि ससारमे मरना अवश्य है तथापि लोग पापाचरणको नहीं छोड़ते, अतः हे मूढ़ ! सदा गोविन्दका भजन कर, क्योंकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १५ ॥ गलीमें पड़े चिथड़ोकी कन्था बना ली, पुण्यापुण्यसे निराला मार्ग अवलम्बन कर लिया, 'न मैं हूँ, न तू है और न यह संसार है'—( ऐसा भी जान लिया ) फिर भी किसलिये शोक किया जाता है ? अतः हे मूढ़ ! सदा गोविन्दका भजन कर, क्योंकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे' यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १६ ॥ दाहे गङ्गा-सागरको जाय, चाहे

कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ।

ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतैः । भज० । १७ ।

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचित चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

## ७८—द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रम्

मूढ जहीहि धनाभसतृष्णां कुरु सद्वृद्धिं मनसि वितृष्णाम् ।

यल्लभसे निजकर्मोपात्तं विसं तैन विनोदय चित्तम् ॥ १ ॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ( ध्रुवपदम् )

अर्थरूपार्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।

पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता नीतिः । भज० । २ ।

नाना व्रतोपवासोका पालन अथवा दान करे तथापि बिना ज्ञानके इन सबसे सौ जन्ममें भी मुक्ति नहीं हो सकती; अतः हे मूढ ! सर्वदा गोविन्दका भजन कर; क्योंकि मृत्युके निकट आनेपर 'डुकृञ् करणे' ( अथवा हा धन ! हा कुटुम्ब ॥ हा संसार !!! ) यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ १७ ॥

हे मूढ ! धनसंचयकी लालसाको छोड़, सुबुद्धि धारण कर, मनसे तृष्णाहीन हो, अपने प्रारब्धानुसार तुझे जो कुछ वित्त मिल जाय, उसीसे चित्तको प्रसन्न रख और हे मूढमते ! निरन्तर गोविन्दको भज ॥ १ ॥ अर्थको नित्य अनर्थरूप जान, उसमें सचमुच ही सुखका लेग भी नहीं है, अरे ! सभी जगह ऐसी नीति देखी है कि धनवान्को तो अपने पुत्रसे भी भय रहता है, इसलिये सदा गोविन्दको भज ॥ २ ॥ कौन

का ते कान्ता कस्तै पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः ।

कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः । भज० । ३ ।

मा कुरु धनजनयौवनगर्वं हरति निमेषात्कालः सर्वम् ।

मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा । भज० । ४ ।

कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् ।

आत्मज्ञानविहीना मूढास्तै पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥ भज० । ५ ।

सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या शूतलमजिनं वासः ।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः । भज० । ६ ।

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धुौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ ।

तेरी स्त्री ? कौन तेरा पुत्र ? अरे यह संसार बड़ा विचित्र है, भाई ! इसी तत्त्वका निरन्तर विचार कर कि तू कौन है ? किसका है ? और कहाँसे आया है ? और गोविन्दको भज ॥ ३ ॥ धन, जन और यौवनका गर्व मत कर, काल पलक मारते ही इन सबको नष्ट कर देता है; इस सम्पूर्ण मायामय प्रपञ्चको छोड़कर, ब्रह्मपदको जानकर उसीमें प्रवेश कर; और हे मूढ़ ! सदा गोविन्दको भज ॥ ४ ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोहको त्याग कर अपने लिये विचार कर कि मैं कौन हूँ, जो मूढ़ आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे नरकमें पड़े हुए सन्तप्त होते रहते हैं; अतः सदा गोविन्दको भज ॥ ५ ॥ जहाँ देवमन्दिर अथवा वृक्षतलका निवास, पृथ्वीकी ही शय्या, मृगचर्मका वस्त्र और सब प्रकारके परिग्रह और भोगोंका त्याग है, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं पहुँचाता ? अतः सदा गोविन्दको भज ॥ ६ ॥ यदि तू विष्णुत्वकी शीघ्र प्राप्तिका अभिलाषी है तो शत्रु-मित्र, पुत्र और बन्धुओंसे मेल अथवा अनमेलका प्रयत्न मत कर और

भव शमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वम् । भज० । ७ ।  
 त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः ।  
 सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् । भज० । ८ ।  
 प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम् ।  
 जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुर्वधानं महद्वधानम् । भज० । ९ ।  
 नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् ।  
 विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम् । भज० । १० ।  
 का तेऽष्टादशदेशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता ।  
 यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् । भज० । ११ ।

सर्वत्र समभाव रख तथा निरन्तर गोविन्दको भज ॥ ७ ॥ तुझमें, मुझमें और अन्यत्र भी सबमे एक ही वासुदेव हैं, इसलिये कोप करना व्यर्थ है, सबको सहन करनेवाला हो, आत्माको ही सबमे देख, भेदरूप अज्ञानको सर्वत्र त्याग दे और सर्वदा गोविन्दका भजन कर ॥ ८ ॥ प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्यानित्य वस्तुका विवेकपूर्वक विचार कर, विधिपूर्वक भगवन्नामस्मरणके सहित ध्यान करनेका निश्चय कर, क्योंकि यही महान् निश्चय है और सदा गोविन्दका भजन कर ॥ ९ ॥ कमलपत्रपर पड़ी हुई बूद जैसे स्थिर नहीं होती है वैसा ही अति चञ्चल यह जीवन है, इसे खूब समझ ले, व्याधि और अभिमानसे ग्रस्त हुआ यह संसार अति शोकाकुल है; अतः तू सदा गोविन्दका भजन कर ॥ १० ॥ रे पागल जीव ! तू अठारह जगहकी चिन्ता क्यों कर रहा है, क्या तुम्हारा कोई नियन्ता नहीं है ? जो तुम्हारे दोनों हाथ खूब कसके बाँधकर तुम्हे जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित आत्मतत्त्वका बोध करा दे; भरे मूढ ! सर्वदा गोविन्दका भजन कर ॥ ११ ॥ गुरुदेवके चरणकमलोंका

गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिरान्ध्रवमुक्तः ।

सैन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् । भज० । १२ ।

द्वादशपञ्जरिका मय एषः शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः ।

येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम् । भज० । १३ ।

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



### ७६ — गौरीशाष्टकम्

भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते । ( ध्रुवपदम् )

जलभवदुस्तरजलधिसुतरणं ध्येयं चित्ते शिवहरचरणम् ।

अन्योपायं न हि न हि सत्यं ज्ञेयं शङ्कर शङ्कर नित्यम् । भज० । १ ।

अनन्यभक्त होकर संसारसे शीघ्र ही मुक्त हो जा, इस प्रकार इन्द्रियोके सहित मनका संयम करनेसे तू शीघ्र ही अपने हृदयस्थ देवको देखेगा, अतः निरन्तर गोविन्दका भजन कर ॥ १२ ॥ यह द्वादशपञ्जरिका-स्तोत्र शिष्योंके उपदेशके लिये कहा गया है, जिनके हृदयमें विवेक नहीं है, वे दीर्घकालतक नरकयातना भोगते हैं, अतः हे मूढमते ! तू निरन्तर गोविन्दका भजन कर ॥ १३ ॥



हे मन्दबुद्धिवाले ! तू सदा गौरीश ( शंकर भगवान् )का भजन कर ! संसाररूप दुस्तर सागरसे पार लगानेवाले, भगवान् शिवके ही चरणका ध्यान कर, संसारसे उद्धार पानेका दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, यह सत्य जान, सदा शंकरके नामका ही गान किया कर । हे मन्दमते ! सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ १ ॥ स्त्री, संतान, क्षेत्र, धन,

दारापत्यं क्षेत्रं वित्तं देहं गेहं सर्वमनित्यम् ।

इति परिभावय सर्वमसारं गर्भविकृत्या स्वप्नविचारम् । भज० । २ ।

मलवैचित्ये पुनरावृत्तिः पुनरपि जननीजठरोत्पत्तिः ।

पुनरप्याशाकुलितं जठरं किं न हि मुञ्चसि कथयेश्चित्तम् । भज० । ३ ।

मायाकल्पितमैन्द्रं जालं न हि तत्सत्यं दृष्टिविकारम् ।

ज्ञाते तत्त्वे सर्वमसारं मा कुरु मा कुरु विषयविचारम् । भज० । ४ ।

रज्जुं सर्पभ्रमणारोपस्तद्ब्रह्मणि जगदारोपः ।

मिथ्यामायामोहविकारं मनसि विचारय बारम्बारम् । भज० । ५ ।

शरीर और गृह—ये सब अनित्य हैं; गर्भविकारके परिणामभूत इस प्रकारको सारहीन तथा स्वप्नवत् असत्य समझकर सबकी उपेक्षा कर दे, हे मन्दमते ! सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ २ ॥ मलभूत ससारके रूपपर मोहित होनेसे पुनः ससारमे लौटना पड़ता है, फिर माताके गर्भसे उत्पत्ति होती है; अतः पुनः आशासे व्याकुल हुए अपने चित्तसे तू कह दे कि रे चित्त ! क्यों नहीं इस पेटकी चिन्ताको छोड़ता है ? और हे मन्दमते ! तू सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ ३ ॥ अरे, यह सारा प्रपञ्च मायासे कल्पित इन्द्रजाल है, इसका विकार प्रत्यक्ष देखा गया है, इसे कदापि सत्य न जान, तत्त्वज्ञान हो जानेपर सब कुछ असार ही ठहरता है, इसलिये विषयोपभोगका विचार कभी न कर, हे मन्दमते ! सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ ४ ॥ जैसे रज्जुमे भ्रमसे सर्पका आरोप होता है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्ममे जगत्का आरोप मात्र है, यह माया-मोहका विकार असत्य है, इस बातको तू बारंबार मनमे विचार; हे मन्दमते ! सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ ५ ॥

अध्वरकोटीगङ्गागमनं कुरुते योगं चेन्द्रियदमनम् ।  
 ज्ञानविहीनः सर्वमतेन न भवति मुक्तो जन्मशतेन । भज० । ६ ।  
 सोऽहं हंसो ब्रह्मैवाहं शुद्धानन्दस्तत्त्वपरोऽहम् ।  
 अद्वैतोऽहं सङ्गविहीनै चेन्द्रिय आत्मनि निखिले लीनै । भज० । ७ ।  
 शङ्करकिङ्कर मा कुरु चिन्तां चिन्तामणिना विरचितमेतत् ।  
 यः सद्भक्त्या पठति हि नित्यं  
 ब्रह्मणि लीनो भवति हि सत्यम् । भज० । ८ ।

इति श्रीचिन्तामणिविरचित गौरीशाष्टक सम्पूर्णम् ।



लोग करोड़ो यज्ञ करते है, स्नानार्थ गङ्गाजी जाते है, इन्द्रियोंको दमन करनेवाला योग करते है, परंतु यह सबका सिद्धान्तमत है कि ज्ञानहीन जीव सैकड़ो जन्ममे भी मुक्त नहीं हो सकता; इसलिये हे मन्दमते ! तू सदा गौरीपति भगवान् शिवका भजन कर ॥ ६ ॥ जब सम्पूर्ण इन्द्रियों विप्रयोसे निवृत्त होकर आत्मामे लीन हो जाती हैं, उस समय ऐसा भान होने लगता है कि मैं ही वह परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, तथा इन पञ्चभूतोसे पृथक् शुद्ध अद्वैत आनन्दस्वरूप हूँ, हे मन्दमते ! सदा गौरीपति भगवान् शिवका भजन कर ॥ ७ ॥ हे शिवके सेवक ! तू चिन्ता न कर, क्योंकि जो पुरुष चिन्तामणिद्वारा रचित इस गौरीशाष्टकस्तोत्रका शुद्ध भक्तिसे नित्य पाठ करता है, वह ब्रह्ममे लीन हो जाता है, यह सत्य बात है, इसलिये हे मन्दमते ! तू सदा गौरीपति भगवान् शिवको भज ॥ ८ ॥



## ८० — सप्तश्लोकी गीता

ओमित्येवाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।  
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥  
स्याने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।  
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः  
सर्वतः प्राणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।  
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥  
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।  
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ४ ॥

‘ओम’ इस एक अक्षर रूप ब्रह्मके नामका उच्चारण करता हुआ और ओङ्कारके अर्थस्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ, जो मनुष्य-शरीरको छोड़ता (मरता) है, वह परम गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ हे हृषीकेश ! आपके गुणोंके कीर्तनसे जो जगत् प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, यह उचित ही है। ये राक्षसलोग भयभीत होकर सब दिशाओमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त ही है ॥ २ ॥ ‘वह’ सब ओर रहनेवाले हाथों और चरणोंसे युक्त है तथा सब ओर रहनेवाले आँखों, सिरो और मुखोंसे युक्त है एव सब ओर व्यापकरूपसे रहनेवाली श्रवणेन्द्रियोंसे भी युक्त है और समस्त जगत्-को व्याप्तकर स्थित है ॥ ३ ॥ जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन, जगत्का शासन करनेवाला, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, सबका धाता (सब प्राणियोंको कर्मानुसार पृथक्-पृथक् फल देनेवाला) है, जिसके रूपका चिन्तन अशक्य है, जो सूर्यके समान प्रकाशमय वर्णवाला है और जो अज्ञानसे अतीत है, उसको जो स्मरण करता है [ वह उस परमपुरुषको प्राप्त होता है ] ॥ ४ ॥



ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।  
 छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ५ ॥  
 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।  
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ ६ ॥  
 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।  
 मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-  
 जुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता सम्पूर्णा ।

जिसका ऊर्ध्व ( ब्रह्म ) ही मूल है और नीचे शाखाएँ ( अहकार, तन्मात्रा आदि रूपवाली ) हैं, ऐसे इस ससाररूप अश्वत्थवृक्षको अव्यय ( अविनाशी ) कहते हैं । ऋक्, यजु और सामवेद जिसके पत्र हैं, जो इस ससार-वृक्षको इस रूपसे जानता है, वह वेदोके अर्थोंका जाननेवाला है ॥ ५ ॥ मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा होकर उनके हृदयोमें प्रविष्ट हूँ, उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनोका लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं, सम्पूर्ण वेदोसे मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदान्तका कर्ता तथा वेदार्थको जाननेवाला भी मैं ही हूँ ॥ ६ ॥ तू मेरेमें ही मन लगानेवाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करनेवाला हो और मुझको ही नमस्कार कर । इस प्रकार चित्तको मुझमें युक्त कर मत्परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा ॥ ७ ॥

१. कालसे भी सूक्ष्म, जगत्का कारण, नित्य और महान् होनेसे ब्रह्मको ही ऊर्ध्व कहा गया है ।

२. महत्, अहकार, तन्मात्रा आदि, इसके शाखाके समान नीचे होनेसे शाखा है ।

३. संसारवृक्ष अनादिकालसे चला आता है इससे अव्यय है ।

४. वेदोंसे इस वृक्षकी रक्षा है अतः इन ( वेदों ) को पत्ररूपसे कहा गया ।

## ८१ — चतुःश्लोकी भागवतम्

श्रीभगवानुवाच

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।  
 सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥  
 यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।  
 तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ॥ २ ॥  
 अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।  
 पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ ३ ॥  
 ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।  
 तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ४ ॥  
 यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु ।

श्रीभगवान्ने कहा—अनुभव, प्रेमाभक्ति और साधनोसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने स्वरूपका ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो ॥ १ ॥ मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएँ हैं, मेरी कृपासे तुम उनका तत्त्व ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव करो ॥ २ ॥ सृष्टिके पूर्व केवल मैं-ही-मैं था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनोका कारण अज्ञान । जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-मैं हूँ और इस सृष्टिके रूपमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ ॥ ३ ॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मामे दो चन्द्रमाओकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकाश-मण्डलके नक्षत्रोंमें राहुकी भँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये ॥ ४ ॥ जैसे प्राणियोंके पञ्चभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोंमें आकाशादि पञ्चमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ५ ॥

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥ ६ ॥

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्र्या संहिताया वैयासिक्यां

द्वितीयस्कन्धे नवमेऽध्यायं भगवद्ब्रह्मसवादे चतुःश्लोकी-

भागवत समाप्तम् ।

॥ समाप्तेय स्तोत्ररत्नावली ॥

प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियोंके शरीरकी दृष्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ और आत्म-दृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ ॥ ५ ॥ यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं—इस प्रकार निषेधकी पद्धतिसे और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है—इस अन्वयकी पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एव सर्वस्वरूप भगवान् ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्त्व है। जो आत्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जाननेकी आवश्यकता है ॥ ६ ॥ ब्रह्माजी ! तुम अविचल समाधिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प-कल्पमें विविध प्रकारकी सृष्टिरचना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं होगा ॥ ७ ॥

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

